

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13—दिसम्बर 19, 2014 (अग्रहायण 22, 1936)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13—DECEMBER 19, 2014 (AGRAHAYANA 22, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली—110003, दिनांक 12 नवम्बर 2014

सं. डीपीपर्स.I/2014/96/3/117/2014—पर्स-1—राष्ट्रपति, श्री ए.एस. तरियाल, निरीक्षक, के.अ.ब्यूरो, एसटीएफ, नई दिल्ली को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में रु. 8,000—275—13,500/— (पूर्व संशोधित) के वेनमान में दिनांक 26.10.2009 अर्थात् उनके आसन्न कनिष्ठ श्री एस.सी. शुक्ला की पदोन्नति की तारीख से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। श्री ए.एस. तरियाल ने दिनांक 08.10.2014 से पुलिस उपाधीक्षक पद का कार्य प्रभार सम्भाल लिया है।

दीपिका सूरी

उप-निदेशक (कार्मिक)

दिनांक 25 नवम्बर 2014

सं. डीपीपर्स.(एम)/2014/4390/3/24/2008—निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो श्री संतोष करकेट्टा, अपराध सहायक को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 17.06.2014 के पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दीपिका सूरी

उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.(एम)/2014/4391/ए-19017/2/2014—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो श्री ए.वी. रमणा, अपराध सहायक को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 02.07.2014 के पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.(एम)/2014/4392/3/24/2008—श्री एम.एस.एस. सीतापति सव ने अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.05.2014 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यालय अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.(एम)/2014/4393/3/2/99—श्री आर.के. गुप्ता ने अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.08.2014 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यालय अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.(एम)/2014/4401/ए-34012/12/2014—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो श्री पी कंडास्वामी, अपराध सहायक को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 31.12.2013 के पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.(एम)/2014/4402/ए-34012/12/2014—श्री विजय कुमार ने अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.11.2013 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कार्यालय अधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.(एम)/2014/4403/ए-34012/12/2014—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो श्रीमती अरुणा मोहन, अपराध सहायक को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 15.09.2014 के पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.(एम)/2014/4404/ए-34012/12/2014—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो श्री जे. सी. गोयारी, अपराध सहायक को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 01.10.2014 के पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.(एम)/2014/4405/ए-34012/12/2014—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो श्री आनन्द स्वरूप, अपराध सहायक को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में दिनांक 20.10.2014 के पूर्वाह्न से कार्यालय अधीक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दीपिका सूरी
उप-निदेशक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय
महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 नवम्बर 2014

सं. ओ.दो.3728/07—कार्मिक(चिकित्सा)—सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. प्रभाकर त्रिपाठी, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (उप कमाण्डेंट), ईरला-7023, 93 बटालियन, के.रि.पु.बल द्वारा दिनांक 07.10.2014 (अपराहन) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, उक्त अधिकारी का नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 07.10.2014 (अपराहन) से हटाया जाता है।

एम. सी. पेंवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
नई दिल्ली-110124, दिनांक 20 नवम्बर 2014

सं. 334—जी.ई.—1/13—2006—गैर—भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा के अधिकारी सुश्री स्वराज शर्मा, सिनियर प्रीसिपल प्राईवेट सेक्रेटरी दिनांक 31.10.2014 (अपराहन) से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

सुधा राजन
सहा. नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

सं. 333—जी.ई.—1/13—2006—भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त/त्याग—पत्र दे चुके हैं :—

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम तथा पदनाम सर्वश्री/सुश्री	सेवानिवृत्त/त्याग—पत्र की तिथि
1.	के. नागराजन, निदेशक, कार्यालय प्र. निदेशक ले.प., पश्चिम रेलवे, मुम्बई, शाखा—अहमदाबाद	दिनांक 31.10.2014 (अपराहन)
2.	श्री राजेश कुमार, प्रशिक्षु अधिकारी, राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी, शिमला	तकनीकी त्याग—पत्र दिनांक 22.10.2014 (अपराहन)

सुधा राजन
सहा. नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक (कार्मिक)

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय
(श्रम ब्यूरो)

शिमला-171004, दिनांक 28 नवम्बर 2014

सं. 5/1/2014—सी.पी.आई.—अक्टूबर, 2014 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 253 (दो सौ तिरपन) अंकों के स्तर पर स्थिर रहा।

एस. एस. नेगी
निदेशक

वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2014

सं. 19013/2/2014—डीसीएच/स्था—I—राष्ट्रपति की ओर से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अप्रैल, 2014 के पत्रांक 10/5/2014—ई.ओ.(एमएम-II) के अनुसरण में श्री अनिल राज कुमार, आईएएस (उ.प्र. : 2000) को दिनांक 12 नवम्बर, 2014

के पूर्वाह्न से 31 दिसम्बर 2018 (अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक) अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय में निदेशक स्तर पर अपर विकास आयुक्त (हथकरघा) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

राजेश कुमार साहू
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

परमाणु ऊर्जा विभाग
(भारी पानी बोर्ड)

मुम्बई-400094, दिनांक 21 नवम्बर 2014

सं. भापाबो/भर्ती/1(8)-ब/2014/5467—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्रीमती मथुरा एम. विलणकर, सहायक (पीबी-2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), भारी पानी बोर्ड, मुम्बई को दिनांक 25.09.2014 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन बैंड-2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में भारी पानी संयंत्र (बरोदा) में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 21 नवम्बर 2014

सं. वी.ई.सी.सी./पदोन्नति (जुलाई)/2014/3070—राष्ट्रीय प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र में वेतन बैंड-4 रु. 37,400—67,000/- तथा ग्रेड वेतन रु. 8,700/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एफ) के पद पर जुलाई 01, 2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक स्थानापन्न रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :—

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन
1.	श्री सुब्रत चट्टोपाध्याय	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + जीपी रु. 7,600/-
2.	श्री जेदीदिया प्रधान	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + जीपी रु. 7,600/-
3.	डॉ. परितोष सिंह बाबू	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + जीपी रु. 7,600/-
4.	डॉ. अनिमेश गोस्वामी	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + जीपी रु. 7,600/-
5.	डॉ. (श्रीमती) गायत्री एन. बनर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + जीपी रु. 7,600/-
6.	डॉ. गोपाल मुखर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + जीपी रु. 7,600/-
7.	डॉ. अयन रे	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + जीपी रु. 7,600/-
8.	श्री आदित्य मण्डल	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + जीपी रु. 7,600/-
9.	श्री अबनिन्द्र मुखर्जी	वैज्ञानिक अधिकारी (ई)	पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + जीपी रु. 7,600/-

ए. बनर्जी
प्रशासनिक अधिकारी—III

दिनांक 24 नवम्बर 2014

सं. वी. ई.सी.सी./नियुक्ति/2013/3083—भारत के राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित प्रशिक्षु वैज्ञानिक अधिकारियों को परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, 1/एएफ, बिधान नगर कोलकाता में वेतनमान रु. 15,600—39,100/- (पीबी-3) + रु. 5,400/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक अधिकारी (सी) के पद पर 01 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न से प्रभावी अगले आदेश निकलने तक अस्थायी रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं :—

क्र.सं.	नाम
1.	श्री हितेन्द्र यादव
2.	श्री प्रतनु चक्रवर्ती
3.	श्री संदू मन्ना
4.	श्री पंकज कुमार

ए. बनर्जी
प्रशासनिक अधिकारी—III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 27 नवम्बर 2014

सं. नाईस/काप्रभ.I/03/58/2415—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र श्री एम. रामय्या, आशुलिपिक ग्रेड-I को रु. 4,600/- के ग्रेड पे सहित रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 में दिनांक 18.11.2014 के (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक अस्थायी हैसियत में स्थानापन्न निजी सचिव (असचिवालय) के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. जया कृष्णा
प्रशासन अधिकारी—III

कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

ग्वालियर-474009, दिनांक 27 नवम्बर 2014

सं. कं.ग्वा./560(5)/2014/2523—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

S.No.	CIN	COMPANY NAMES
1	U70102MP2009PTC022679	एनकोन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड
2	U04520MP2005PTC017495	अनुराधा इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायवेट लिमिटेड
3	U52590MP2009PTC021801	ईओन मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
4	U72200MP2010PTC023346	नोनमार्केट टेक्नॉलाजी सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड
5	U52590MP2009PTC022256	ड्रीम स्टार कान्सेप्ट मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
6	U24294MP1993PTC007853	गीतल फोटो फास्ट कलर लैब प्रायवेट लिमिटेड
7	U74140MP2009PTC022382	टोटल लाईफ सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड
8	U71110MP2009PTC022182	कॉल 2 हीयर सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
9	U24232MP2002PTC015021	जीव्हीएम हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड
10	U45201MP2006PTC019080	ऑगन निर्माण प्रायवेट लिमिटेड
11	U22110MP1999PTC013776	रतनकान्त पब्लिकेशन्स प्रायवेट लिमिटेड
12	U72200MP2013PTC031465	ओएसआर टेक्नॉलाजी प्रायवेट लिमिटेड
13	U72200MP2012PTC029260	मेकरोसिस सॉफ्टवेयर टेक्नॉलाजीज प्रायवेट लिमिटेड
14	U40101MP2008PTC021200	रुद्र हायड्रोपॉवर प्रायवेट लिमिटेड
15	U70101MP1995PTC009492	के.एम.काउन कन्सट्रक्शन्स इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
16	U45200MP2008PTC021215	आकर्ष बिल्डर्स एन्ड डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड
17	U45200MP2011PTC026590	अतिवीर कन्सट्रक्शन्स कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
18	U24111MP2000PTC014494	लिनोक्स रेमिडीज प्रायवेट लिमिटेड
19	U45201MP2009PTC022629	एमप्ले बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड
20	U52590MP2010PTC023742	इयुलो स्कवायर मार्केटिंग सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
21	U24120MP2011PTC026791	संगम फर्टिलाइजर्स प्रायवेट लिमिटेड
22	U45201MP1999PTC013508	माधवी कन्सट्रक्शन्स प्रायवेट लिमिटेड
23	U72200MP2011PTC025384	एरोलीन साफटेक एन्ड इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड

S.No.	CIN	COMPANY NAMES
24	U15310MP2008PTC020835	अष्टविनायक फूडस् प्रायवेट लिमिटेड
25	U74300MP2011PTC025662	आईजीबीडीआई एडवर्टाईजमेन्ट प्रायवेट लिमिटेड
26	U52599MP2011PTC025470	गरिमा मल्टीट्रेड प्रायवेट लिमिटेड
27	U74140MP2007PTC019671	एम्फेरल कन्सलटिंग प्रायवेट लिमिटेड
28	U80302MP2013PTC031642	स्वीट ग्रेस एजुकेशन प्रायवेट लिमिटेड
29	U55209MP2011PTC026351	रिसर्स हॉस्पिटलिटीज सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
30	U51310MP2009PTC021870	यूनिटी फेशन्स एन्ड गारमेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
31	U28993MP2007PTC019850	इस्क्वायर स्टोरेज सिस्टम्स प्रायवेट लिमिटेड
32	U22121MP2001PTC014863	पलक पब्लिकेशन्स प्रायवेट लिमिटेड
33	U72900MP2011PTC027151	इन्फोस्फेयर टलिकम्युनिकेशन्स प्रायवेट लिमिटेड
34	U70100MP2011PTC026481	डिवाइन एग्रो एन्ड रियल एस्टेट प्रायवेट लिमिटेड
35	U45203MP2004PTC016877	सम्पत डब्लपर्स प्रायवेट लिमिटेड
36	U50103MP2002PTC015185	विन्ध्याचल मोटर्स प्रायवेट लिमिटेड
37	U05259MP2005PTC018088	श्रीजन लिंक मार्केटिंग प्रायवेट लिमिटेड
38	U24132MP1994PTC008472	धनराज एक्सट्रूजन्स प्रायवेट लिमिटेड
39	U01122MP2007PTC020079	परपिल रैन फलोरेन्सेज प्रायवेट लिमिटेड
40	U92413MP2012PTC028354	नेटवर्क एडवेंचर स्पोर्ट्स एन्ड रिसोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
41	U74200MP2010PTC023123	जीबीएस रेल इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड
42	U55100MP2009PTC022827	खत्री रिसोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
43	U15143MP2010PTC024406	आर.एच.एक्सओईल्स प्रायवेट लिमिटेड
44	U74900MP2013PTC030899	मार्केटविजन रिसर्च एन्ड एडवार्डजरी प्रायवेट लिमिटेड
45	U80300MP2011PTC026371	वन्दर एजुकेशन सर्विसेज प्रायवेट लिमिटेड
46	U80302MP2008PTC020657	वन्दर माईन्ड एजुकेशन प्रायवेट लिमिटेड
47	U40109MP2006PTC019075	दीपक कन्सट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड
48	U18101MP2007PTC019360	सेरगोवोलो अटटरे प्रायवेट लिमिटेड
49	U01400MP2013PTC029973	अनन्त एग्री डब्लपर्स प्रायवेट लिमिटेड
50	U01400MP2013PTC030039	इन्डोटेक एग्री फार्म्स प्रायवेट लिमिटेड
51	U01400MP2013PTC029971	मेलाउ फार्म्स प्रायवेट लिमिटेड
52	U01400MP2013PTC030011	रिथम एग्रीविकास प्रायवेट लिमिटेड
53	U01400MP2013PTC030037	रीपेन एग्रीफील्ड्स प्रायवेट लिमिटेड
54	U01400MP2012PTC029682	नियाती एग्रीटेक प्रायवेट लिमिटेड
55	U01400MP2012PTC028969	इन्दौर एग्रीटेक प्रामेग्रेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
56	U22300MP2011PTC026091	जय महाकाल मुवीज प्रायवेट लिमिटेड
57	U01403MP2007PTC019294	ओएसआर शुगर प्रायवेट लिमिटेड
58	U50300MP2012PTC028226	मिडलेण्ड ऑटोमोबाइल्स प्रायवेट लिमिटेड

S.No.	CIN	COMPANY NAMES
59	U51505MP1994PTC008426	एन.पारीक कन्सलटेन्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
60	U70101MP2010PLC024027	ओम साई नाथ रियल एस्टेट एन्ड मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड
61	U74900MP2011PTC026763	कलर डिजीटल ऑटोमीशन प्रायवेट लिमिटेड
62	U15313MP2011PTC026783	शिव फूड एन्ड आईल्स प्रायवेट लिमिटेड
63	U25200MP2010PTC024434	सोनाटा मोल्डिंग प्रायवेट लिमिटेड
64	U52599MP2012PTC029543	आरपीएम एजेन्सी सर्वसेज प्रायवेट लिमिटेड
65	U72200MP2009PTC022187	रायल एकेएस साफ्टवेयर प्रायवेट लिमिटेड
66	U45203MP2005PTC017484	ज्योति रोड कन्सल्टेशन एन्ड बिल्डर्स कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड
67	U50300MP2010PTC024000	जीपी ट्रेडलिक्स प्रायवेट लिमिटेड
68	U63040MP2011PTC026502	सर्व टूल्स एन्ड ट्रेवल्स प्रायवेट लिमिटेड
69	U72200MP2008PTC021386	पद्मसप्तपद्मदज ब्युटुमटबपंस वसनजपवदे चतपञ्जम स्पउपजमक
70	U72200MP2010PTC023521	अर्चना टेक सोल्युशन्स प्रायवेट लिमिटेड
71	U45201MP2007PTC019896	हाई-लिंक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड
72	U24120MP2011PTC026110	विराट फर्टिलाइजर प्रायवेट लिमिटेड
73	U40200MP2012PTC029152	एएसए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रायवेट लिमिटेड
74	U45200MP2012PTC029729	यूनिरोरे इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रेड प्रायवेट लिमिटेड
75	U24232MP2012PTC029463	एमपिल फार्माकेम प्रायवेट लिमिटेड
76	U45201MP2009PTC021579	रविश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड
77	U72200MP2012PTC029478	ब्लैक ग्रेप्स साफटेक प्रायवेट लिमिटेड
78	U01400MP2012PTC029386	रेडियन्ट वेटलाईफ इंडिया प्रायवेट लिमिटेड
79	U31503MP2009PTC022664	पेन्टालक्स लाइटिंग प्रायवेट लिमिटेड
80	U52599MP2011PTC025169	टारगेट मल्टीट्रेड प्रायवेट लिमिटेड
81	U24233MP2011PTC026821	सहोदया हेल्थकेयर प्रायवेट लिमिटेड
82	U24100MP2011PTC027048	जयनवीन मेगा रेमिडीज प्रायवेट लिमिटेड
83	U74210MP2008PTC020991	इन्वोवेटिव कन्सलटेन्ट्स इंजीनियर एन्ड आर्चीटेक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड
84	U15142MP2007PTC019566	केशव एग्रो एक्सपोर्ट प्रायवेट लिमिटेड
85	U63040MP2013PTC031263	एक्सपीरियो इन्फोटेक प्रायवेट लिमिटेड
86	U24233MP2011PTC027136	डा० आर्युवेदा रिसर्च सेन्टर प्रायवेट लिमिटेड
87	U74140MP2010PTC023223	गोविन्दपुरा लीयन कन्सलटेन्सी प्रायवेट लिमिटेड
88	U50100MP2011PTC026318	यादेवी मोटर्स प्रायवेट लिमिटेड
89	U34300MP1994PTC008470	अलमीन इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड
90	U70100MP2011PTC026535	अलमास रीयल्टी प्रायवेट लिमिटेड

मुकेश कुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
कोलकाता, दिनांक 01 दिसम्बर 2014

सं. कर./प.ब./एफटीई/560/2014—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र.सं.	सी.आई.एन	कम्पनी का नाम
1	U74999WB2012PTC181558	ट्रांसोनिक इंटरप्राइजेज़ प्राइवेट लिमिटेड
2	U74999WB2003PTC096333	साशा क्राफ्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

सौरभ गौतम
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
पुणे-4, दिनांक 27 नवम्बर 2014

सं. कर. पु./एफटीई/560(5)/2014/2930—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
1	U15424PN2009PLC134323	अरुन घाटगे शुगर लिमिटेड
2	U70200PN2013PTC149246	पुरे अँड ब्राइट इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
3	U01403PN2011PTC140373	राज गिन फिल्ड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
4	U28910PN2008PTC131992	शेशद्रि प्रेसिकास्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
5	U72400PN2009PTC133805	एस.बि.इंफोटेक इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
6	U15490PN2013PTC147164	दुरजा फुड्स फुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड
7	U72200PN2010PTC135876	प्रेसिसिऑन कॉम्पुसॉफ्ट प्रायव्हेट लिमिटेड
8	U99999MH1947PTC005606	दि संगम मेटल अँड इंजिनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
9	U51909PN2007PTC129694	ब्लु रेय इंटेप्रिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
10	U93000PN2012PTC145515	टुमँगो मॅट्रोमोनियल अँड मॅच मेकिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
11	U70101PN2004PTC018874	निमन प्रोपर्टिस प्रायव्हेट लिमिटेड
12	U80903PN2003PTC018404	पत्कि कोचिंग क्लासेस प्रायव्हेट लिमिटेड
13	U29268PN2013PLC146980	इक्शु इंडुस्ट्रिज लिमिटेड
14	U45200PN2009FTC133997	चुंजो कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
15	U51505PN2008PTC131404	एसएस डिअग्नोसिसि अँड ईक्युप्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
16	U40106PN2013PTC146018	बायो एनेर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड
17	U52399PN2012PTC142279	आर.के.ईटैब्लस प्रायव्हेट लिमिटेड
18	U72200PN2003PTC017886	इंकोरुस सॉल्यूशनस (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
19	U28999PN2012PTC142517	आत्माराम इंजिनियरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
20	U28112PN2012PTC142415	एसडि मॅन्युफैक्च्यूरिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
21	U45201PN2008PTC131394	अवनिश प्रोमोटेर्स अँड डेवेलोपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड

क्र.सं.	सी आय एन	कम्पनी का नाम
22	U72900PN2007PTC130853	अदजिलित्य सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
23	U32109PN1991PTC059706	जिरगे इंजिनीर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
24	U72900PN2011PTC139132	इंजिंग इंफोमॅटिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड
25	U51432PN2006PTC128483	भावेत कन्स्ट्रक्शन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
26	U65992PN2012PTC144130	योगिनि चिट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
27	U24230PN2008PTC132116	इंटेग्रटिवे हेल्थ टेक्नॉलॉजिस प्रायव्हेट लिमिटेड
28	U40108PN2007PTC130728	कल्याणि विंड सॉल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
29	U72200PN2008PTC132141	इंडिगो आयटि सॉल्युशनस प्रायव्हेट लिमिटेड
30	U51909PN2006PTC022207	सरिपुट्टा ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
31	U74900PN2013PTC146076	अर्थतत्व मुल्टिट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड
32	U45200PN2010PTC137133	सत्यम मल्टीकॉन प्रायव्हेट लिमिटेड
33	U24300PN2010PTC136820	रोल्लॉन फिल्मेर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
34	U74999PN2008PTC131448	ऑट्स फन्ड्स मॅनेज्मेंट कंसल्टन्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड
35	U65993PN2001PTC015945	अक्शा शेअर्स-सेक प्रायव्हेट लिमिटेड
36	U51909PN2007PTC130684	क्युक्स्टार मार्केटिंग & सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
37	U72200PN2006PTC128458	स्पयमेक सॉफ्टवेयर प्रायव्हेट लिमिटेड
38	U01122PN2010PTC137651	गौरव फार्म प्रायव्हेट लिमिटेड
39	U92413PN2003PTC017975	अल्बर्टोस्स स्पोर्ट्स मॅनेज्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड
40	U29194PN1998PTC012565	सेंट्रिफॉर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
41	U45201PN2004PTC019234	सिन्हसने कंस्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड
42	U51909MH1995PTC088356	सुमो मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड
43	U45200PN2009PTC135151	डॅन्टेडन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड
44	U74900PN2011PTC138153	विब्रोग्रॉ अॅन्डविस्सोर् अॅडवायजोर सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड
45	U55101PN1999PTC014171	ईशॉन्स हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड
46	U51909PN2009FTC135053	युनिस्टिल ईंटेर्नॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड
47	U72200PN2014PTC151546	एक्स-ब्रय्प्ट सॉफ्टवेयर (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड
48	U01119PN2003PTC018364	विकेन्डु अग्रो डेवेलोपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड
49	U72200PN2007PTC130731	आयटी क्रोनिकल .कॉम प्रायव्हेट लिमिटेड
50	U50403PN2011PTC140527	यश ऑटोव्हिल प्रायव्हेट लिमिटेड
51	U24240PN2008PTC132166	अमित सोप कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड
52	U34300PN2012PTC143470	हॉरिजॉन प्रेसिशन प्रायव्हेट लिमिटेड
53	U72900PN2010FTC135753	आयकॉन पीसीएस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड
54	U72200PN2001PTC016548	टोरेल टेक्नोलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड

शामराव दत्तात्रय पाटील
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 18 जुलाई 2012

सं. आर एपी/धारा 560(5)/एफ टी ई-स्कीम/वी एस जे/को 53/2012--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
01	U45400AP2007PTC056200	श्री शुभम शेल्टर्स प्रइवेट लिमिटेड
02	U72400AP2005PTC045500	अगामि सिस्टम्स प्रइवेट लिमिटेड
03	U72200AP2007PTC055635	सॅनरिड्ज सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रइवेट लिमिटेड
04	U74210AP1993PTC016052	इवेलवेल इंजिनीर्स प्रइवेट लिमिटेड
05	U26990AP2007PLC055860	डी एस सी सिमेन्ट लिमिटेड
06	U74900AP2008PLC060161	वी टल एल प्रिमियर पयरोटेकनिक्स लिमिटेड
07	U74999AP2007PTC052340	सान्स मार्केटिंग प्रइवेट लिमिटेड
08	U28129AP1995PTC019789	बालाजी विराज केन अण्ड कोम्पेनेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
09	U45202AP2008PTC060106	नवोदाया इन्फोटेक इण्डिया प्रइवेट लिमिटेड
10	U67120AP1999PTC031551	ए वी आर होल्डींग्स प्रइवेट लिमिटेड
11	U72200AP2008PTC058168	प्रकृति सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
12	U45200AP2007PTC055464	व्यत नेट्रोनिक्स प्रइवेट लिमिटेड
13	U74900AP2008PTC058600	क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स इण्डिया प्रइवेट लिमिटेड
14	U45200AP2007PTC054214	अभीज्येति एस्टेट्स अण्ड इन्फ्रा प्रइवेट लिमिटेड
15	U45400AP2008PTC059908	मेफेयर हन्सॉन होम्स प्रइवेट लिमिटेड
16	U85100AP2009PLC066073	मरसन हॉस्पिटल्स लिमिटेड
17	U65992AP1996PTC025455	ग्रान्ड विल्ली चिटफण्ड प्रइवेट लिमिटेड
18	U72200AP2006PTC048993	मनिक सॉफ्टसोल्युशन्स प्रइवेट लिमिटेड
19	U24239AP2004PTC044719	नेड फार्मा प्रइवेट लिमिटेड
20	U92100AP2008PTC061764	अर्का मोशन पिक्चर्स अण्ड स्टुडियोस प्रइवेट लिमिटेड
21	U66030AP2008PTC060097	मेघावाल्या इन्सुरेन्स सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
22	U45400AP2007PTC053681	अभिराम कन्सट्रक्शन्स प्रइवेट लिमिटेड
23	U72200AP2007PTC053697	चाडा सफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रइवेट लिमिटेड
24	U26940AP2008PTC062368	वर्षा सिमेन्ट अण्ड पावर इण्डस्ट्रीस प्रइवेट लिमिटेड
25	U60231AP2008PTC057424	पेरिटॅस लोजिस्टिक्स सोल्युशन्स अण्ड सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
26	U72200AP2008PTC058878	यु अई बी अई इन्नोवेशन्स प्रइवेट लिमिटेड
27	U80301AP2008PTC061048	के यु एडयुकेशन्स प्रइवेट लिमिटेड
28	U24110AP2009PTC066174	युरोपियन फोर्मुला बिल्डींग एंडहेसीव प्रइवेट लिमिटेड
29	U72200AP2007PTC054234	अटल्स साफवेयर सोल्युशन्स प्रइवेट लिमिटेड
30	U72200AP2006PTC050811	यसस्वी टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
31	U74999AP2007PTC055512	वर्मा इम्पेक्स प्रइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
32	U01119AP1994PTC018322	रनित आगो प्रइवेट लिमिटेड
33	U72200AP2005PTC047994	कडिना सॉफ्टवेयर प्रइवेट लिमिटेड
34	U33203AP2006PTC050263	ऑप्टक विशुयल इक्विमेंट्स प्रइवेट लिमिटेड
35	U40101AP2010PTC068216	जी एन के पॉवर प्रइवेट लिमिटेड
36	U40102AP2010PTC067533	हिलियोस पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
37	U24239AP2004PTC042510	इंडिकेस फार्मा प्रइवेट लिमिटेड
38	U10200AP2009PTC064478	श्री विनायका डिस्टीलरी अण्ड मार्केटिंग प्रइवेट लिमिटेड
39	U10200AP2009PTC064478	जोर्ड मिनिरल्स प्रइवेट लिमिटेड
40	U45209AP2007PTC056773	ड्रीम स्केप्स इन्फ्राटेक प्रइवेट लिमिटेड
41	U67100AP2009PTC065878	लस्तकि इन्वेस्टमेंट अडवाइसरी सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
42	U40102AP2008PTC060341	वी एस एस श्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
43	U85100AP2009PTC066409	वै के एम श्रीनिवासा हेल्थ केयर प्रइवेट लिमिटेड
44	U72200AP2008PTC059732	ईमार्केट इन्नोवेशन्स सॉफ्ट प्रइवेट लिमिटेड
45	U24239AP2004PTC043225	लक्ष्मय (इण्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
46	U74900AP2008PTC059519	रुबिकोन टेकसोल प्रइवेट लिमिटेड
47	U72200AP2008PTC062187	रिकोन साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रइवेट लिमिटेड
48	U74900AP2008PTC059648	अस्ट्रा टेकसर्व प्रइवेट लिमिटेड
49	U23209AP2008PTC061170	राहुल प्रटोकेमिकल प्रोडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
50	U63022AP1995PTC020967	परमेश्वनी कोल्ड स्टोरेज प्रइवेट लिमिटेड
51	U45203AP2010PLC068691	हेच के आर टोलवेस लिमिटेड
52	U24239AP2003PTC042331	राल्फ हररीस मिडिकेयर प्रइवेट लिमिटेड
53	U63040AP2004PTC043369	विटुयल फंक्शन हॉल्स प्रइवेट लिमिटेड

वी संतोषी जागिरदार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 10 जनवरी 2013

सं. आर एपी/560 (5)/को-86/2013/वी एस जे/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1	U21012AP1991PTC013215	इन्डो गल्फ पेपर बोर्ड प्रोडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
2	U33119AP2004PTC043990	स्टार ट्रेन्ड्स इन अनालिटिकल रिसोर्ससेस प्रइवेट लिमिटेड
3	U55100AP1996PTC024193	अग्रा-वाला (इण्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
4	U40108AP2010PTC067338	नियोसोलार सिस्टम्स प्रइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
5	U15419AP2002PLC039028	अंजानि बेकरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड
6	U65993AP1981PTC002963	अहल्या एस्टेट्स प्रइवेट लिमिटेड
7	U18109AP2008PTC061869	अईकोन ट्रिम्स प्रइवेट लिमिटेड
8	U85110AP2002PTC040092	जी वी आर हास्पीटल्स प्रइवेट लिमिटेड
9	U70102AP2007PLC052434	चमत्कार होम्स लिमिटेड
10	U74900AP2009PTC065262	जॉबहैक रिक्रूटमेंट्स प्रइवेट लिमिटेड
11	U85100AP2010PTC066568	एजे मेडसॉफ्ट प्रइवेट लिमिटेड
12	U25200AP1998PLC029518	प्रनवानाघा प्लास्टिक मेचिन्स लिमिटेड
13	U70102AP1997PTC028122	एस के एल प्रोपर्टी डेवलपर्स प्रइवेट लिमिटेड
14	U72200AP1997PTC027108	माट्रिक्स मंडवेयर सिस्टम्स प्रइवेट लिमिटेड
15	U51909AP2008PTC058593	आर्चीस मिनिरल्स इम्पेक्स प्रइवेट लिमिटेड
16	U01119AP2005PTC046466	अवंती पॉवर अण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रइवेट लिमिटेड
17	U40102AP2008PTC057316	एस सी एल पॉवर अण्ड इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रइवेट लिमिटेड
18	U65992AP2000PTC034260	उषा क्रिष्णास चिट्स प्रइवेट लिमिटेड
19	U70102AP2007PTC055802	धात्री इन्फ्रस्ट्रक्चर्स प्रइवेट लिमिटेड
20	U17200AP2009PTC066315	जी एस आर स्पीन्टेक्स (इण्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
21	U65992AP1996PTC023404	स्वर्णा सक्ती फैनान्स अण्ड चिट्स प्रइवेट लिमिटेड
22	U29190AP2001PTC037173	सान्सरीक इंजिनीर्स प्रइवेट लिमिटेड
23	U72200AP2006PTC050792	जी डी ई एस टेक प्रइवेट लिमिटेड
24	U74999AP2010PTC066759	आर डी पी केटालिस्ट प्रइवेट लिमिटेड
25	U72909AP2011PTC075235	ईको स्टार इंटरप्राइसेस इण्डिया प्रइवेट लिमिटेड
26	U70100AP1998PTC028957	सर्वागना निर्माण प्रइवेट लिमिटेड
27	U65992AP1985PTC005889	रेचेली चिट फण्ड प्रइवेट लिमिटेड
28	U22110AP1989PTC009936	न्यूसबैंक इन्फोरमेशन सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
29	U24239AP1983PTC004034	फैयर चिल्ड लाबोरेटरीस प्रइवेट लिमिटेड
30	U74900AP2008PTC061546	टापेक्स इक्वीपमेंट्स प्रइवेट लिमिटेड
31	U45200AP2007PLC052800	प्रजय रिसोर्ट्स अण्ड अम्यूसिमेंट पार्क्स लिमिटेड
32	U40104AP2008PTC058853	मनीराम पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
33	U72100AP2006PTC050401	सी ओ ई सेक्यूरिटी प्रइवेट लिमिटेड
34	U29219AP2010PTC070782	डेल्टा टेक्नोबिज इण्डिया प्रइवेट लिमिटेड
35	U74120AP2007PTC054840	माक्स5 मार्केटिंग प्रइवेट लिमिटेड
36	U72200AP2011PTC077897	अइश्वर्या इन्फोटेक प्रइवेट लिमिटेड
37	U92112AP2004PTC044348	ईमिडिया राज इन्टरटेनमेंट प्रइवेट लिमिटेड
38	U24297AP2006PTC050862	सलिपोल बयोसइंडस प्रइवेट लिमिटेड
39	U11100AP2010PTC067219	अंकटाड पिट्रोलियम अण्ड इंजिनीरिंग सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
40	U92120AP2009PTC065905	शुन्या डिजाइन प्रइवेट लिमिटेड
41	U72200AP2008PTC057024	कॉसवे सॉफ्टवेयर इण्डिया प्रइवेट लिमिटेड
42	U72200AP2000PTC034658	इन्फो डैमेन्शन्स बिजिनेस इंटरप्रइस प्रइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
43	U52520AP1982PTC003626	नंङूरी मार्केटिंग प्रइवेट लिमिटेड
44	U74993AP1970PTC001332	समंटो लामिनेटस प्रइवेट लिमिटेड
45	U72200AP2009PTC066482	अहित टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
46	U85110AP2008PTC058998	सत्यावानी ग्लोबल हेल्थ स्प्रिंग्स प्रइवेट लिमिटेड
47	U45200AP2008PTC059718	सत्यावानी प्रोपर्टीस प्रइवेट लिमिटेड
48	U72100AP1993PTC016400	एस एन एस कंप्यूटर्स प्रइवेट लिमिटेड
49	U72900AP2008PTC060963	वर्ट्यूअल विशन टेक्नोलोजीस इण्डिया प्रइवेट लिमिटेड
50	U15326AP2008PTC061264	अवा स्पेशीयाल्टी फेयटस इण्डिया प्रइवेट लिमिटेड
51	U85110AP1987PTC007928	भरदवाज हास्पिटल्स प्रइवेट लिमिटेड
52	U85100AP2012PTC079408	अँकुकेयर मिडिकल सेंटर्स प्रइवेट लिमिटेड
53	U85110AP2012PTC080672	अँकुकेयर मिडिकल सेंटर्स हैदराबाद प्रइवेट लिमिटेड
54	U50300AP1985PTC005264	चल्लनी इंजिनिरिंग इंटरप्राइसेस प्रइवेट लिमिटेड
55	U72900AP2002PTC039117	पी ई एस इन्फोटेक प्रइवेट लिमिटेड
56	U14102AP1990PLC011621	मुमल ग्रइनेटस लिमिटेड
57	U21000AP2008PTC059030	नियोनेट पेपर्स प्रइवेट लिमिटेड
58	U01119AP2010PTC067888	लक्ष्मीनरसिंहा हेचरीस प्रइवेट लिमिटेड
59	U72900AP2009PTC062627	राब्रोसॉफ्ट टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
60	U05005AP1989PTC010089	प्रियन्श सीफूड्स प्रइवेट लिमिटेड
61	U40102AP2007PTC053307	के आर सी पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
62	U13209AP2009PTC064894	हर्षा मैन्स अण्ड मिनिरल्स इण्डिया प्रइवेट लिमिटेड
63	U13100AP2010PLC071806	काडली मैन्स अण्ड मिनिरल्स लिमिटेड
64	U72900AP2008PTC059035	बुडडीबोट सिस्टम्स प्रइवेट लिमिटेड
65	U40109AP2008PTC061017	अष्टलक्ष्मी पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
66	U92132AP2002PTC039586	डिजिटल केबुल टेलीविशन प्रइवेट लिमिटेड
67	U72200AP2008PTC059045	लील सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्रइवेट लिमिटेड
68	U01112AP2007PTC052334	विककीस बयोफियूल्स प्रइवेट लिमिटेड
69	U72200AP2012PTC082647	आश्रीता सॉफ्टमाटिक्स सोल्यूशन्स प्रइवेट लिमिटेड
70	U65992AP1988PTC009413	स्वायम सिद्धा चिटफण्ड प्रइवेट लिमिटेड
71	U72200AP1991PTC013116	रेडटेक बयोमेडिकल प्रइवेट लिमिटेड
72	U33111AP2005PTC046506	रेडटेक मिडिकल सिस्टम्स प्रइवेट लिमिटेड
73	U40107AP2010PTC070001	वासवी पीतांबरा गैस पॉवर प्लांट प्रइवेट लिमिटेड
74	U17120AP2010PTC070393	बोइनपल्ल गीन्नींग अण्ड प्रेस्सिंग प्रइवेट लिमिटेड
75	U74900AP2008PTC062206	विटसेक्यूर लैब्स प्रइवेट लिमिटेड
76	U72200AP2006PTC051451	श्रीकिरण टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
77	U29309AP1991PTC012481	मेगा इलेक्ट्रनिक्स प्रइवेट लिमिटेड
78	U72200AP2009PTC062843	तप्पल सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
79	U13200AP2008PTC062150	अखिलांडा मिनिरल्स प्रइवेट लिमिटेड
80	U40105AP2010PTC069999	वासवीपिताम्पुर गैस पॉवर प्लांट प्रइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
81	U40105AP2010PTC070101	वासवी मोरिना गैस पावर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड
82	U70102AP2009PTC062630	हैदराबाद फैनान्सीयल सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
83	U85100AP2009PTC062453	हैदराबाद हेल्थ सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
84	U29309AP2008PTC056967	सदासिवा इलैक्ट्रनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
85	U29297AP2007PLC053402	इन्फ्लोन कैमिकल्स इक्विपमेंट्स लिमिटेड
86	U01222AP1990PTC011742	गायत्री पोल्ट्री अण्ड अग्रीकल्चरल फार्मस प्राइवेट लिमिटेड

वी संतोषी जागिरदार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 18 मार्च 2013

सं. आर ए पी/धारा 560(5)/को-1775/एस आर दारा/2013—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1	U72900AP2002PTC038559	इटालिसिस टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
2	U40101AP2001PTC037746	मंगलम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
3	U15142AP2003PTC040606	पवनसाई एगो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड
4	U92114AP2003PTC040807	कनक रत्ना मूवीज प्राइवेट लिमिटेड
5	U92111AP2002PTC040143	श्री उमामहेश्वरा मूवीज प्राइवेट लिमिटेड
6	U65993AP1983PTC003786	चैतन्या लक्ष्मी फाइनांसएण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	U14102AP1999PLC033011	साई सप्ता गिरी ग्रेनाइट्स लिमिटेड
8	U25209AP1998PTC030028	एल.एन. पोली पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U51909AP2003PTC041312	युक्ता हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	U72200AP2001PTC038057	सिवनी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U74140AP2001PTC036343	ग्लोबल काल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
12	U72200AP2005PTC046835	आई पी टैच साफ्टवेयरसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U72200AP2005PTC046267	विशिष्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
14	U65993AP1989PTC010322	ओराक लीजिंग एण्ड हायरपर्चेज प्राइवेट लिमिटेड
15	U51909AP2002PTC038768	ट्रिम्पह होम एप्लाइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
16	U72200AP1995PTC019170	हैदराबाद कम्प्यूनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
17	U64203AP1995PTC019880	एलूरू कम्प्यूनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
18	U45200AP2006PTC050575	डेक्कन विल्ला होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	U72200AP2007PTC053968	श्री दत्तात्रेया टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
20	U65992AP1996PTC023557	दामिनी चिट्सएण्ड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
21	U65032AP1997PTC027023	एस डी एस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
22	U50403AP2000PTC035095	ऑटोफिन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
23	U63023AP2002PTC038953	श्री राधावेन्द्रा वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
24	U92111AP2006PTC051919	मैत्री फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
25	U74120AP2007PTC054934	निखिलसीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
26	U45200AP1997PTC027704	सिकंदराबाद कियो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
27	U63022AP1997PTC027196	साई वेदर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
28	U65910AP1992PTC014510	एल.बी. फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड
29	U18202AP1995PTC019136	उज्ज्वल लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	U01119AP2006PTC052143	जुको एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	U01122AP2006PTC051417	जम्पाना कृष्णम राजु एगी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
32	U11100AP2007PTC054997	एडवेंट बयो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
33	U16002AP1977PLC002167	जी.बी. ब्रदर्स एण्ड कोन्डा राजा गोपाल चेट्टी बीड़ीफैक्टरी लि.
34	U21014AP1971PLC001409	इण्डस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
35	U32104AP1993PTC015845	फलो लाइन सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड
36	U40109AP1990PTC011700	युनिक पॉवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
37	U45201AP1997PTC028415	श्री कल्पारक्षिता कन्सल्टेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
38	U24110AP1997PTC028170	श्री कल्पतरु हर्बल केम प्राइवेट लिमिटेड
39	U22110AP1997PLC027930	देवुलापल्ली पब्लिकेशन्सलिमिटेड
40	U45201AP2001PTC036062	श्री कल्पातरु हाउसिंग एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
41	U55103AP2001PTC036061	श्री कल्पातरु रिसोर्ट क्लब प्राइवेट लिमिटेड
42	U72900AP2003PTC041595	जू कन्सलटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
43	U74140AP2004PTC044649	बिस्मार्क मार्केटिंग एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
44	U25202AP1985PTC005378	स्वेक पोली-पैक प्राइवेट लिमिटेड
45	U01135AP1995PLC020567	राघव फ्लोरेक्स लिमिटेड
46	U24230AP1998PTC030531	जीवन रिमिडीज प्राइवेट लिमिटेड
47	U92100AP1998PTC029161	ग्लोबल इन्फोमड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
48	U72200AP2003PTC042078	वी. आई. इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
49	U92120AP2003PTC041403	मैचलाईन स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
50	U64201AP2002PTC040049	टेलीटेल कम्यूनिकेशन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
51	U65910AP1994PTC017771	सिरी मल्ले फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड
52	U72200AP2000PLC033962	ए एम आरफ्यूचरिस्टकलिमिटेड
53	U72200AP2000PTC034314	अरुण टेकसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
54	U15424AP2003PLC040217	माधुरी सुगर एण्ड पॉवरजेन लिमिटेड
55	U52100AP1995PTC020638	श्री साई सूर्या एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
56	U13209AP1998PTC030629	अच्युता केबल्स एण्ड कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
57	U30007AP1999PTC032972	रैंकइक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
58	U45200AP2003PTC040587	वी एन वी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
59	U74300AP2004PTC044291	कॉमर्शियल इन्फो एंड्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
60	U65991AP2008PTC058067	एस के वेल्थ क्रिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
61	U17299AP2006PLC051172	परिगी हाई-टेक टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड
62	U72200AP1998PLC030452	एम आर सॉफ्टवेक लिमिटेड
63	U55101AP2006PTC050308	ग्रान्ड विल्ले इन्स प्राइवेट लिमिटेड
64	U70102AP2005PTC047380	ग्रान्ड विल्ले होम्स एण्ड प्रोपर्टी मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
65	U72200AP2006PTC049789	विजोन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
66	U72200AP2000PTC035656	पायनियर मल्टीटेक प्राइवेट लिमिटेड
67	U65990AP1996PTC024569	मैक्सी मैक्स फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
68	U72200AP2002PTC039707	बूसा मल्टी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
69	U80301AP2002PTC039539	एजुकेशन एण्ड इम्मीग्रेशन कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड
70	U72200AP2001PTC037983	क्रीडो टेक्नो स्फेयर प्राइवेट लिमिटेड
71	U74140AP2005PTC047353	डार्विन एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
72	U72200AP2005PTC046654	जेस्ट इन्फो प्राइवेट लिमिटेड
73	U01119AP2005PTC045097	श्री पावानी एग्री टेक प्राइवेट लिमिटेड
74	U72200AP2004PTC044261	मेकिंज टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
75	U72200AP2000PTC035356	इ सी आरएम लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
76	U72200AP2005PTC048600	एपीरन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
77	U29100AP1981PTC003340	मशीन्स एण्ड मशीन टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
78	U15209AP1995PTC019364	मस्कटीडेयरीप्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
79	U22210AP1993PTC016263	एक्सप्रेस कलर ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
80	U45203AP2003PLC041789	कृष्णपट्टनम रेल रोड कार्पोरेशन लिमिटेड
81	U65921AP1986PLC006313	वीराभद्र एस्टेट्स लिमिटेड
82	U72200AP1998PTC030470	वर्ल्ड वाइड वेब इंस्टीच्यूट (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
83	U51909AP1998PTC030281	विभावरी एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड
84	U74200AP1998PTC030279	विभावरी कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
85	U70100AP1998PTC029557	विभावरी कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
86	U70100AP1998PTC029402	विभावरी हाउसिंग एण्ड प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U72200AP2000PLC035429	मैत्री सॉफ्ट लिमिटेड
88	U74140AP1985PTC005858	फोर्थ जेनरेशन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
89	U01222AP1989PTC010587	खुराना ब्रीडिंग फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
90	U51909AP1995PTC022490	पल्लवी सिरामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
91	U65992AP1997PTC027732	कर्षकचिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
92	U63010AP1996PTC023844	साई शेखर ट्रान्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
93	U40200AP1996PTC025101	साई चन्द्रा पावर टेक एण्ड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
94	U40101AP2001PTC036287	वेदा रिनुएबल इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
95	U45203AP2007PLC053313	एचिव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
96	U85120AP1996PTC025960	साई भार्गवी आई हॉस्पिटल एण्ड एक्सीमर लेजर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
97	U01120AP1996PTC023502	चैतन्या मारुती प्लान्टेशन्स एण्ड रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
98	U74200AP2005PTC045259	पोर्टेंट साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
99	U66010AP2004PTC043062	शान कम्यूनिकेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
100	U40109AP2004PTC042780	श्री गौरीदेवी पाँवर प्राइवेट लिमिटेड
101	U14297AP2003PTC040915	एस एल एस सिलिका प्राइवेट लिमिटेड
102	U51909AP2005PTC048413	एस एल एस एक्जिम(इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
103	U40105AP2007PTC053104	श्रावणी मिनी हाइड्रो पाँवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
104	U72200AP2007PTC054951	जिलोट साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
105	U28113AP2002PTC039659	शार्प स्क्राइब्ससेमीकंडक्टर्स सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
106	U72200AP2007PTC054185	आई एम पी सिस सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
107	U65993AP1989PLC009885	गार्जियन लीजिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड
108	U65910AP1994PLC017869	लक्ष्मी सहस्रा फाइनेन्स लिमिटेड
109	U72200AP2004PTC044146	आब्जेक्टस्मिथ साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
110	U45200AP2007PTC056264	टाइटेनियम कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
111	U45400AP2007PTC056216	कल्पवृक्ष बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
112	U70102AP2007PTC056241	फ्रेस्को विस्टा बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
113	U27109AP1979PTC002531	भाग्यनगर टिन एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
114	U72200AP2000PTC033527	बंधुइन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
115	U72200AP2007PTC052883	इन्फोसेन्स बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
116	U72200AP1998PTC029307	सिंबिओसिस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
117	U45201AP2007PLC053230	नेचुरोल डिजाइन एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड
118	U15209AP1985PTC005321	एम्प्रो कंफेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड
119	U74999AP1982PTC003358	एम्जैक ट्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड
120	U65993AP1981PTC003120	एम जे राव इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
121	U21012AP1994PLC017942	अम्बिका रोटोपैक लिमिटेड
122	U51909AP1993PTC016058	जुबली एक्जिमप्राइवेट लिमिटेड
123	U45206AP1999PTC033019	पर्ल एरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
124	U72200AP2004PTC043443	कैरियर ओवरसीज(यूके) प्राइवेट लिमिटेड
125	U72200AP2000PLC034474	ई-फेज टेक्नोलोजीस लिमिटेड
126	U73100AP2007PLC052911	नेचुरोलबायो साइंसेस लिमिटेड
127	U64202AP1986PLC006497	भारती मोबीटेल लिमिटेड
128	U67120AP1998PTC029149	अवुला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
129	U74220AP2004PTC042785	टी एस आर साइंटिफिक्स एण्ड एनालीटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
130	U15139AP2005PTC047762	लार्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
131	U70102AP2007PTC054553	विजन वन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
132	U99999AP1994PTC016961	केल्टन ग्राफिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
133	U72200AP1997PTC027399	सुमी इन्फार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
134	U15420AP1997PTC026960	रमेश मैग्नम प्राइवेट लिमिटेड
135	U72200AP1997PTC026958	आइक्रा इंफो मेट्स प्राइवेट लिमिटेड
136	U63011AP2003PTC040953	ए आर पी एम लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
137	U15136AP2002PTC039547	राजसा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
138	U72200AP2007PTC055347	रास्सार सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
139	U74999AP2008PTC057371	हॉगडाइन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
140	U24230AP1989PTC010698	नारायणी आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
141	U74999AP1996PTC025556	अवतार पूंजीनिवेश प्राइवेट लिमिटेड
142	U65990AP1996PTC024398	सिका सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
143	U24230AP1996PTC024011	वी एम आर एल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
144	U65993AP1995PTC020868	गिरिधारी ऑटो फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
145	U67120AP1998PTC030665	बर्ले सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
146	U67120AP1998PTC029407	एस वी एल सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
147	U74999AP1996PTC025557	परिंदा पूंजीनिवेश प्राइवेट लिमिटेड
148	U72200AP2003PTC041963	सुहासिनी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
149	U50404AP2000PTC034174	कटाकम ट्रेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
150	U70102AP2006PTC049059	मेटासन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
151	U45200AP2006PTC048840	एस एल एम आई कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
152	U24232AP2006PTC051955	नव्या बायोटेक लैब्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
153	U14292AP2007PTC052611	वड्डे माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
154	U72200AP2006PTC051907	कवाया इन्फोरमेशन टेक्नोलोजीस एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
155	U92412AP1996PLC024671	सावी ग्रीन्स गोम पार्क्स लिमिटेड
156	U45200AP2007PTC053882	राजलोक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
157	U67120AP2007PLC054959	एम. ए. जी. सिक्यूरिटीज लिमिटेड
158	U74210AP1988PLC009264	वान्टेक इंजीनियरिंग इंटरप्राइजे लिमिटेड
159	U65992AP1996PTC025414	युक्ता चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
160	U67120AP2000PTC033936	सुबाश सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
161	U92132AP2001PTC036894	क्रिटिक मीडिया कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
162	U18101AP2006PTC049757	मधुहा डिजाइनर वियर प्राइवेट लिमिटेड
163	U72200AP1994PTC017262	स्वर्णा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
164	U51909AP2002PTC039965	मेसविन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
165	U65910AP1989PLC010794	सेफायर लीजिंग लिमिटेड
166	U85195AP2001PTC038107	डेल्टा सीटी स्कैन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
167	U18101AP2005PTC046450	सोल एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
168	U72200AP2006PTC048965	सोल आई टी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
169	U24110AP1987PTC007648	पी एन मेटकेम प्राइवेट लिमिटेड
170	U65910AP1995PLC022554	श्री रमणा फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
171	U63011AP2005PTC047183	महेश्वरी परमेश्वरी रोड लाइन्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
172	U45200AP2002PTC040183	कनफियान्जा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
173	U63040AP2006PTC049800	जे एस एम टूर्स एण्ड ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
174	U74140AP2007PLC053319	आई डी ई एल एफ मीडिया टेक्नोलोजीस लिमिटेड
175	U45200AP1990PTC011539	मारुती बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
176	U72200AP2000PLC035257	प्रत्युषा इन्फोटेक लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
177	U85110AP1991PTC012973	कृष्णा मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
178	U85110AP1988PLC009099	बोल्लीनेनी कृष्णय्या हॉस्पिटल्स एण्ड रिसर्च लिमिटेड
179	U70102AP2007PLC052613	बी एस सी पी एल रियल्टी लिमिटेड
180	U45200AP2007PTC052879	यमुना हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
181	U70102AP2007PTC052600	हेमा होम्स प्राइवेट लिमिटेड
182	U45200AP2007PTC052601	माधवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
183	U45200AP2007PTC052886	सीनय्या होम फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
184	U45200AP2007PTC052891	हरिनी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
185	U70102AP2007PTC054174	बी आरएन हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
186	U70102AP2007PTC053880	डी यस ड्रीमलैंड्स प्राइवेट लिमिटेड
187	U45200AP2007PTC053874	डी वी एन ड्रीमलैंड्स प्राइवेट लिमिटेड
188	U45200AP2007PTC053876	डी वी एन होम फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
189	U45200AP2007PTC053877	डी वी एन एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
190	U70102AP2007PTC053878	अपर्णा एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
191	U70102AP2007PTC053642	बी आर एन एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
192	U70102AP2007PTC053640	बी एस एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
193	U70102AP2007PTC053895	बी यस ड्रीमलैंड्स प्राइवेट लिमिटेड
194	U70102AP2007PTC053657	सीनय्या ड्रीमलैंड्स प्राइवेट लिमिटेड
195	U70102AP2007PTC053951	डी एन एन होम फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
196	U72200AP2000PTC034026	साईबर सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
197	U72200AP2000PTC033971	प्रिस्टीन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
198	U27109AP1992PLC013965	मर्केल स्टील्स लिमिटेड
199	U01111AP1997PLC026953	सनगोल्ड एग्रो फार्म्स एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
200	U72200AP2000PLC033710	नवभारत इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
201	U72200AP2000PLC033560	गिब्का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
202	U32204AP2000PLC033343	लवेंटिला इन्फोर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड
203	U72200AP2003PLC040949	हावन इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजीस लिमिटेड
204	U70102AP2005PTC048056	फार्चून एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
205	U27106AP2006PTC051166	कॉयल क्राफ्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
206	U72200AP2007PTC055315	मनी जेन टेक्नोलोजीस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
207	U52520AP2008PTC057465	विनविन मल्टीशॉपिंग (एपी) प्राइवेट लिमिटेड
208	U70101AP1997PTC027027	महावीर शैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
209	U72200AP2001PTC036179	रेजरटेक प्राइवेट लिमिटेड
210	U22120AP2005PTC045748	सर्टमार्क पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड
211	U01407AP2002PTC039398	स्पेड्स एगो एक्सटेंशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
212	U45400AP2007PTC055509	महावीर प्राइम अर्बन डेवलपमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
213	U45400AP2007PTC055344	महावीर ऐस्थेटिक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
214	U14102AP1989PLC009787	श्री रामा मनोरमा टाइल्स लिमिटेड
215	U51909AP1993PTC016342	वासवी इन्टीग्रेटेड सर्विसेस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
216	U40103AP2005PTC048345	सिनर्जी पॉवर जेनरेशन (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
217	U93090AP2006PTC052182	हारमोनिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेस हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड
218	U24232AP2007PTC055766	क्वालेक्स केम आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
219	U31300AP1988PTC008767	थर्मल विद्युत कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
220	U74140AP2006PTC049712	बी पी सी सेकुरित ब्रान्ड प्रोटेक्शन सेल प्राइवेट लिमिटेड
221	U74140AP2006PTC050118	प्ले कैरियर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
222	U72200AP1987PTC007751	वी.वी.एस. सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
223	U74140AP1983PTC003996	जूकेरटेक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
224	U67120AP1991PTC012233	हैदराबाद इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
225	U14102AP1990PTC011993	इल्लम ग्रेनाइट टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
226	U24239AP2003PTC040913	कोकानी फार्मसी प्राइवेट लिमिटेड
227	U11200AP2002PTC039496	फ्रंटियर ड्रिलिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
228	U70102AP2005PTC048073	हालसियोन होम्स प्राइवेट लिमिटेड
229	U72400AP2005PTC046016	इसेन्सीस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
230	U72200AP2000PTC034766	ऐप लैब्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
231	U01120AP1999PTC032012	बी वी आर सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
232	U74999AP2007PTC053373	शिरडी साई इम्पोर्टर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
233	U72200AP2006PTC049831	मैजिक क्लाउड सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
234	U01119AP1982PTC003482	एम एल सॉफ्टवेयर पाक्स प्राइवेट लिमिटेड
235	U55101AP1981PTC003184	कल्लम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
236	U65920AP1994PLC018846	एम एल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
237	U65992AP1992PTC013949	श्री रंजीता चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
238	U65992AP1996PTC025453	श्री पद्मानाभा चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
239	U85110AP1999PTC030909	सुरक्षिता मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
240	U18100AP1998PTC030197	कल्लम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
241	U40109AP1998PTC030196	कल्लम पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
242	U17232AP2003PTC040585	कन्चेर्ला स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
243	U01119AP2002PTC039110	कावूरी एगो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
244	U66010AP2005PTC045217	एन सी वी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
245	U01222AP2004PTC045013	सिरी पोल्ट्री फार्म प्राइवेट लिमिटेड
246	U01119AP2004PTC044825	शेख हस्सन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
247	U17119AP1999PTC031908	पी वी पॉवर स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
248	U18100AP2006PTC049270	श्रीपाती स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड
249	U72300AP2006PTC050676	नेलटेक डाटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
250	U70102AP2006PTC051424	एच बी लैन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
251	U34100AP2008PTC057765	रयानी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
252	U72900AP2008PTC058311	साइबर स्ट्रीम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
253	U21014AP1997PTC026859	वेगा पैकेजिंग इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
254	U45200AP2006PTC048758	वीनीरमाडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
255	U65910AP1997PTC026871	मिनी मर्चेन्ट्स बाइएको फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
256	U52520AP2002PTC038487	आंध्र प्रदेश एक्सपोजिशनसप्राइवेट लिमिटेड
257	U65993AP2006PTC048667	लॉनफिन ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड
258	U67120AP1996PTC024677	आई के आर इन्वेस्टमेंट्सप्राइवेट लिमिटेड
259	U67120AP1996PTC024672	आई जे आर इन्वेस्टमेंट्सप्राइवेट लिमिटेड
260	U70101AP2006PTC050545	सिद्धार्थ विल्लास प्राइवेट लिमिटेड
261	U70102AP2007PTC053167	ब्लूसिटी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
262	U74999AP2008PTC057531	वेन्सार पब्लिसिटीज प्राइवेट लिमिटेड
263	U45400AP2008PTC057508	वेन्सार ट्रेड सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
264	U29150AP2001PTC036293	सान इंजीनियर्सप्राइवेट लिमिटेड
265	U15134AP2004PTC044085	पोतिना पल्प प्राइवेट लिमिटेड
266	U45200AP2003PTC041152	आरसी एम कौडय्या इंफ्राकॉनप्राइवेट लिमिटेड
267	U72200AP2007PTC054208	बिज्जबाइट सॉफ्टवेक सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
268	U72200AP2007PTC053411	इंटेगलौ सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
269	U74900AP2007PTC055181	क्रुएगर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
270	U72200AP2008PTC058446	आर डी रॉक आई टी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
271	U92111AP2002PTC039360	ई.वी.वी. सिनेमा लिमिटेड
272	U27203AP1990PLC011834	एन्नार एल्यूनिमियम लिमिटेड
273	U74994AP2004PTC044072	मद्देटी कोटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
274	U72200AP2005PTC046795	मेलोनिकइन्फो टेक प्राइवेट लिमिटेड
275	U63011AP1995PTC022630	प्रदीप रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड
276	U65921AP2000PTC033881	चिन्मुद्रा धारी सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
277	U14200AP2007PTC056821	धरती क्रूजर्सप्राइवेट लिमिटेड
278	U74140AP2004PTC043799	इकरा ओवरसीज एजुकेशनल कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
279	U72200AP2001PTC035954	वेबडॉट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
280	U72200AP1999PTC031246	सजानी इन्फो-एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
281	U74920AP2004PTC043933	स्क्वाड 99 सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड
282	U74210AP2004PTC043089	शांतनु चौधरी डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड
283	U65920AP1994PTC019022	जी एस वाई इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
284	U72200AP2007PTC054506	स्विफ्ट प्रेमियर आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
285	U65992AP1991PTC013492	धनदाता चिटफंड्स प्राइवेट लिमिटेड
286	U29309AP1993PTC016791	इंडिकोन इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
287	U74940AP1999PTC032900	पोलीकोटलैमिनेशन्स ऑटो कोट्स प्राइवेट लिमिटेड
288	U72200AP2005PTC046599	जेड विरटुसा सोल्यूशन्ससॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
289	U74200AP2004PTC044955	ग्लोबलवेज सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
290	U52339AP2006PTC051789	नार्गन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
291	U67120AP2006PTC051903	एम बी वी कार्परिट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
292	U72200AP2006PTC051790	नार्गन कार्परिट एडवायजरी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
293	U72200AP2007PTC056610	बे डिजिटल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
294	U67120AP1997PTC027508	एस.जी.सी.सिक्कूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
295	U65992AP2004PTC043918	श्री महानिधि चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
296	U33110AP1986PTC006927	कोस्टलफीड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
297	U15490AP1996PTC025780	ग्लोरी मेरीन लॉजिस्टिक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
298	U14102AP1996PTC024383	वेंगामम्बा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
299	U24134AP1995PTC021042	श्री रामाकृष्णा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
300	U72200AP1999PTC031711	शुभद्रा कंप्यूटर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
301	U67120AP1997PLC027684	श्री मार्ग इंटरप्राइजेज लिमिटेड
302	U22100AP2001PTC037129	एम.वी.आर. पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
303	U45200AP2004PTC042921	एम. वेंकट राव प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
304	U65993AP1988PTC008555	डी.सी.वी. इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
305	U67120AP1990PTC011181	राविला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
306	U40100AP1995PLC021342	आर आर बायो एनर्जीस लिमिटेड
307	U01122AP1994PLC018004	नव भारत फ्लोरिकल्चर लिमिटेड
308	U64203AP2000PTC034357	स्काईलार्क पॉवर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड
309	U29308AP2004PTC043973	एकमे होम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
310	U01117AP2003PTC041557	आस्टर नैचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड
311	U72900AP2003PTC040618	लाइटनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड
312	U40109AP2002PTC039359	रामालक्ष्मी बायो-एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
313	U40100AP2005PTC045800	एच20 पॉवरजेन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
314	U40105AP2006PTC048736	डी सी एस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
315	U45101AP2006PTC050388	ग्लान्स इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
316	U72300AP2007PTC053463	इन्फ्राविजन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
317	U55101AP2005PTC047869	सदर्न स्पाइस फुड लाउंजेंज प्राइवेट लिमिटेड
318	U27203AP1996PLC024048	जेवीएस प्यूर इन्टीरियर्स लिमिटेड
319	U25209AP2003PTC041382	एल्लेन एब्लेटिव टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
320	U27203AP2002PTC039541	जेवीएस एल्यूमिनियम आर्किटेक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड
321	U29150AP2001PTC038030	जेवीएस - वेरनीर लैंडर्स एण्ड क्लाइंबिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
322	U92199AP2001PLC037168	श्रीनिवास इंटरटेनमेंट्स लिमिटेड
323	U67200AP2001PTC037134	जे वी एस इन्सूरेन्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
324	U92132AP2005PTC045922	सूर्यम विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड
325	U24239AP2004PTC043127	जेनोवा बायो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
326	U40101AP2007PTC053069	डी वी एन पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
327	U17119AP1987PLC007085	डी सी एल सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड
328	U74140AP1991PTC013510	पिनिसेट्टी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
329	U67120AP1995PTC020782	इमर्जिंग फाइनांसियल एण्ड कापरेटिव सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
330	U72200AP2000PTC033792	विजयदुर्गा सॉफ्टवेयर एण्ड मेरीन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
331	U72200AP1998PTC029369	मोजाइकसोल्यूशन्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
332	U51311AP2005PTC045099	पी 4 यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
333	U72200AP2004PTC043389	इन्ची टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
334	U70101AP2006PTC050376	विशाखा बीच होम्स प्राइवेट लिमिटेड
335	U31300AP1998PTC030194	चारमीनार वाइर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
336	U29305AP1998PTC030191	स्वान कोटेड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
337	U72200AP1997PTC027345	शेल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
338	U74200AP2005PTC045857	शेल डिजिनेट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
339	U40105AP2003PTC041178	एरीस विन्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
340	U51909AP1984PTC004402	पायनीयर इंटरप्राइजेज एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
341	U92111AP1983PTC004236	वी.एस.आर.पी. फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
342	U70102AP1980PTC002676	वी-के रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
343	U51494AP2002PTC039972	अपर्णाज कॉटन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
344	U24239AP1988PTC008307	बी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
345	U45200AP1999PLC031056	तेज प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
346	U74140AP2004PTC043320	आरिजिनमैनेजमेन्ट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
347	U51909AP1991PLC012477	आर सी इन्टरनेशनल लिमिटेड
348	U72200AP1990PTC011247	एल्लूरी चिट फण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
349	U72200AP2000PLC033202	एस्केसोल्यूशन्स लिमिटेड
350	U72200AP2005PTC046411	तुहिन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
351	U72200AP2000PTC035054	गिना सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
352	U72200AP2007PTC054800	ऑल न्यू आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
353	U72200AP2005PTC047382	सैनके सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
354	U26914AP2005PTC046791	राज मोनोलिथिक्स प्राइवेट लिमिटेड
355	U65990AP1986PTC006351	टिब्रीवाला लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
356	U65993AP1991PTC012859	मेघा शेयर एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
357	U15499AP1995PTC021104	दिशा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
358	U52520AP1999PTC031193	प्लोवर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
359	U65992AP1994PTC016922	धन प्रसिद्धि चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
360	U65910AP1994PTC018083	वी एस एल फाइनांसएण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
361	U74140AP1992PTC014948	नार्वेन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
362	U52334AP1999PTC031782	सुकेतु कम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
363	U51909AP2001PTC037978	डी जी पी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
364	U72200AP2001PLC036808	रिज़वे इम्पेक्स लिमिटेड
365	U70102AP1990PLC012123	रानिशा रियल एस्टेट्स डेवलपर्स लिमिटेड
366	U65910AP1996PTC024399	रुद्रराजू इन्वेस्टमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
367	U72200AP1997PLC027987	रानिशा इन्फो सोल्यूशन्स लिमिटेड
368	U72200AP2005PTC045127	डिक्को एकजीम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
369	U29297AP2006PTC051011	मेडूले इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
370	U65992AP1992PLC013785	कर्नूल लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड
371	U29309AP1976PTC002076	हेमसन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
372	U52520AP1996PTC022758	वीरेश ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
373	U24230AP1995PLC020551	केएस केमिंट लिमिटेड
374	U52334AP1999PLC030931	देव ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स लिमिटेड
375	U13209AP2006PTC050443	लैला माइनिंग एण्ड मिनरल्स(प्राइवेट) लिमिटेड
376	U16003AP2003PTC040764	इंटर टोबैको(इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
377	U74140AP1992PTC013776	निपम हाइटेक एटलेंटिस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
378	U24230AP1998PTC030415	स्क्रिब्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
379	U65921AP1994PTC019044	कमल लीफिन प्राइवेट लिमिटेड
380	U74910AP2002PTC039119	12 एम मैन पावर रिसोर्सज प्राइवेट लिमिटेड
381	U51109AP1994PTC019079	मनिहार एक्जिम वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
382	U29219AP1993PTC016441	आई एस सी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
383	U65992AP1966PTC001137	एस एल चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
384	U25199AP1991PTC013098	ट्रेडवेल रबर प्राइवेट लिमिटेड
385	U64200AP2007PTC054103	प्यूर थॉट्स कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
386	U01403AP2007PTC054740	सूरा एग्रिटेक प्राइवेट लिमिटेड
387	U24230AP1987PTC008125	सूर्या ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
388	U72200AP2004PTC043913	सुचित्रा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
389	U45200AP2002PTC039691	साईरोजा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
390	U72200AP2001PTC038200	सर्वानी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
391	U92111AP2000PLC034978	आश्रिता क्रिएशन्स लिमिटेड
392	U72300AP2007PTC053192	इयूटिम सिस्टम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
393	U65990AP1996PTC025760	बिगविग इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
394	U74140AP1996PTC025675	ट्रिस्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
395	U65990AP1996PTC024361	सैव्वी कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
396	U01110AP1996PLC024141	सैव्वी ग्रीन एग्रो - फार्म्स लिमिटेड
397	U35111AP1998PLC030797	आंध्र सी पोर्ट्स लिमिटेड
398	U10200AP2004PTC044818	विक्रम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
399	U74200AP2005PTC045520	डॉ. जे.एम.आर. कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
400	U65993AP2007PTC054125	मधु निवास इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
401	U93000AP1947PLC000669	मारवाड़ी प्रेस लिमिटेड
402	U52395AP1997PTC026691	अभितेजा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
403	U63040AP1987PTC007335	अल-हरमैन प्राइवेट लिमिटेड
404	U55101AP1982PTC003426	गोलकोंडा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
405	U51909AP1974PTC001707	रिफाह एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
406	U55101AP1973PTC001656	रिफार होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
407	U92410AP1995PTC021936	पोर्ट ब्लेयर अंडर वाटर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
408	U01122AP1994PTC017123	ट्रोपेक्स सीड्स एण्ड प्लांट्स प्राइवेट लिमिटेड
409	U55101AP1992PTC014954	हैदराबाद रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
410	U67120AP1997PTC028556	एन. रामा राव सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
411	U92112AP2003PTC040238	सेलिब्रेटी एक्सेस मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
412	U65993AP1984PTC005037	कोरविल्ला इन्वेस्टमेंट्स एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
413	U93000AP2007PTC056594	वी एल एन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
414	U72200AP1999PTC031461	मॉडियल टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
415	U24239AP2005PTC047011	चारी लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
416	U30007AP2000PTC033409	मिल्ली सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
417	U01403AP2007PTC054902	प्रगति एग्रि इनपुट्स प्राइवेट लिमिटेड
418	U72400AP2004PTC044463	एवरॉन टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
419	U33201AP2001PLC036055	श्रीकांत ऑप्टिक सिस्टम्स लिमिटेड
420	U72200AP2000PTC035821	मेसासॉफ्ट टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
421	U74999AP2005PTC048410	बिल्ला गिफ्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
422	U21019AP2005PTC045381	सिरी बायो मेडिकल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
423	U15209AP2003PTC041861	हाईडैम फूड स्पेसलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
424	U72200AP2004PTC044882	ओक नेट प्राइवेट लिमिटेड
425	U72200AP2003PTC040696	प्रोमेनस टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
426	U24130AP1989PTC009455	इयूरोफ्लोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
427	U29309AP2005PTC046933	टेक्नोवा इन्सपेक्शन्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
428	U72200AP2005PTC045614	वीईटेक्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
429	U74999AP2008PTC057626	टेस्ला लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
430	U24239AP2002PTC038312	जेनहेलिक बायो इन्फार्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
431	U74140AP2002PTC040037	सोलसटाइस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
432	U45202AP2006PTC050486	लैंडमार्क विल्लास प्राइवेट लिमिटेड
433	U26913AP1986PLC006345	रीजेन्सी सिरामिक टइल्स लिमिटेड
434	U52110AP1991PLC013407	रीजेन्सी ओवरसीज लिमिटेड
435	U45200AP1994PTC016921	रीजेन्सी होम्स प्राइवेट लिमिटेड
436	U29130AP2005PLC048443	एस जी सी बीयरिंग्स लिमिटेड
437	U27101AP1986PTC006975	सैनमैट आयरन एंड स्टील इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
438	U52334AP1986PLC006939	रिविलरी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
439	U01222AP1995PTC020147	धनलक्ष्मी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
440	U24239AP2002PTC038661	जेनेमेडिक्स केबुल्स प्राइवेट लिमिटेड
441	U74140AP2005PTC045900	वाई एस कंसलटेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
442	U85194AP2004PTC044009	नियोन नर्सिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
443	U70102AP2002PLC039283	जे.आर. ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड
444	U70109AP2006PTC050897	एमश्री पैरट्रीज रियाल्टी प्राइवेट लिमिटेड
445	U45200AP1996PTC023426	गुडिपुती एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
446	U70100AP1999PTC033035	होयासाला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
447	U72200AP2000PTC033291	हारविन्शा आई टी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
448	U74140AP1999PTC031329	कैसकेड मार्केटिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
449	U55101AP1999PTC030842	रुक्मिणी कल्याण मोटेल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
450	U31400AP1997PLC027109	हाईलीड एक्यूमुलेटर्स लिमिटेड
451	U52520AP2004PTC042924	विमल विकास इंटीग्रेटेड सर्विसेस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
452	U92490AP2002PTC038644	लक्ष्मी इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
453	U72200AP2005PTC047612	एक्सपी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
454	U24111AP1995PTC019957	श्री दिव्या साई एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
455	U01119AP2003PTC041897	ग्रेनाइट एगो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
456	U15499AP2002PTC039817	शेषांजली फुड एण्ड बिबरेजस प्राइवेट लिमिटेड
457	U05005AP1994PTC017700	विजया एक्वा फीड्स प्राइवेट लिमिटेड
458	U65993AP1990PTC011062	प्रवीला इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
459	U23899AP2000PTC033426	रैमकोर फाइनांसियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
460	U65992AP1997PTC028067	गंडीकोटा चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
461	U85110AP1997PTC027676	रवि अच्युता हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
462	U99999AP1996PTC025481	साई सूर्या हाउसिंग एण्ड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
463	U01112AP1995PTC022632	चिक एन चिक पॉल्ट्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
464	U51397AP2002PTC038821	श्री रामानंद एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
465	U45200AP2005PTC046021	स्कार्फ़ॉक बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
466	U51909AP2003PTC042061	एम एस एस आर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
467	U45200AP2003PTC040830	श्री सुभाकारा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
468	U51909AP2003PTC041594	रेड्डीसन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
469	U40109AP2006PTC048690	बोस्टनब्लू पावर (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
470	U31909AP2003PTC041938	सियो मेकट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
471	U27109AP1998PLC028963	तिम्मा स्टील्स लिमिटेड
472	U55101AP1985PTC005608	दिप्तिहोटल्स प्राइवेट लिमिटेड
473	U65992AP1974PTC001692	सप्तगिरी चिट फण्ड एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
474	U51109AP1995PLC021050	पलायपू क्रास बोर्डर्स लिमिटेड
475	U74110AP2000PTC034553	दागा एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
476	U65993AP1997PTC027329	एस एन एचफाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
477	U65910AP1996PTC024223	महेश्वरी शेयर एण्ड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
478	U15131AP1986PTC007013	इण्डिया बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड
479	U63040AP2006PTC050119	पारसकम्बाइन्स ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
480	U45200AP2006PTC051841	विश्व तेजा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
481	U40108AP2007PLC052248	अभिषेकथर्मल पावर इण्डिया लिमिटेड
482	U40107AP2007PLC052273	यश थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
483	U91990AP2001PTC036420	साई बयो ऐसे प्राइवेट लिमिटेड
484	U51909AP2004PTC044042	जक्कम इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
485	U72900AP2003PTC040475	बालाजी एडसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
486	U15499AP2002PLC038308	एक्सट्रीम फुड्स लिमिटेड
487	U55100AP2005PTC045595	एम के आर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
488	U72200AP1999PTC033087	एडसॉफ्ट बिजनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
489	U14292AP2007PTC055871	आर आर ग्लोबल मिनरल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
490	U74999AP1985PTC005258	श्री जी एस आर धाल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
491	U65920AP1996PTC023311	रेड्डी एण्ड रेड्डी फाइनेन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
492	U70102AP1995PTC022709	सूर्या ज्योति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
493	U65910AP1995PTC021777	डी एल एस फाइनेन्स कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
494	U65921AP1995PTC021649	कुसुमहारा फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
495	U65993AP1994PLC018278	सरिता फाइनेन्स लिमिटेड
496	U67120AP1998PLC029490	बंगाल वासवी कापॉरेशन लिमिटेड
497	U17100AP1998PTC029185	सूर्यनारायणा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
498	U72200AP1997PTC027948	आई वी वाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
499	U40109AP1997PLC027298	किनाफ पॉवर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
500	U18100AP2000PTC035331	हनुमान गिन्निंग प्राइवेट लिमिटेड
501	U24230AP1999PTC032949	के सी के इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
502	U27109AP1999PTC032628	ईश्वारा वाइर एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
503	U40109AP1999PTC031663	सरिता पॉवर एण्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
504	U27100AP2007PTC056722	बायोहार्ज मैनेजमेंट टेक प्राइवेट लिमिटेड
505	U40107AP2006PTC051634	अलमपाराथोडु हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
506	U40109AP2006PTC051777	मुक्कुटाथोड हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
507	U65993AP2002PTC027077	श्री गणपती वेंकटेश्वरा एक्सट्रैक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
508	U15143AP2007PTC056514	श्री वसावी वेजीटेबल ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड
509	U27200AP1996PTC023750	सप्तगिरी फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड
510	U92111AP2002PTC038612	वड्डे टेलीफिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
511	U72200AP2000PTC034496	एन एस के टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
512	U40109AP2004PTC044757	एन एस के पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
513	U14102AP2004PTC044657	एन एस के एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
514	U72200AP2003PTC041913	एस एन एस साइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड
515	U72200AP2003PTC041446	निसाई टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
516	U45200AP1997PTC027101	सानागपल्ली कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
517	U55101AP1992PTC013894	रामहिता ई-स्टोरेज सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
518	U14102AP1988PTC008282	श्री राघ दीप स्टोन क्रूसिंग प्राइवेट लिमिटेड
519	U24295AP1981PTC002968	डेक्कन जिलेटिन्स प्राइवेट लिमिटेड
520	U74999AP1956PTC000568	वेलकम प्रेस प्राइवेट लिमिटेड
521	U24231AP2002PLC038831	ए1 बयो वण्डर्स लिमिटेड
522	U24110AP1999PTC031672	नाटको ड्रग्स एण्ड फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
523	U72200AP2003PTC042122	श्री रोहिन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
524	U45200AP2007PTC054212	वॉटरमार्क कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
525	U70102AP2007PTC054243	वॉटरमार्क रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
526	U65992AP1995PTC022583	रबाडी चिट फण्ड एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड
527	U52520AP1998PTC030005	मैचलेस नेटवर्क मार्केटिंग(इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
528	U15209AP2000PTC033207	वैकटा रमणा एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
529	U24110AP1989PTC009800	एल एफ एम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
530	U92110AP2000PTC033742	तेलुगु टॉकीज डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड
531	U72200AP2000PTC033613	केमवैल्यू डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड
532	U72900AP2004PTC043130	डाटा एक्सिकॉन इन्फोसर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
533	U72200AP1993PLC016779	मोरसॉफ्ट इन्फोकवेस्ट लिमिटेड
534	U65993AP1983PTC003930	तीर्थकरइन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
535	U52110AP1992PTC013696	साहूवालाट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
536	U24239AP2005PTC048158	ट्रान्स मेडिजेनप्राइवेट लिमिटेड
537	U18100AP1997PLC027711	श्री सत्यानारायणा फैब्रिक्स लिमिटेड
538	U65993AP1992PTC014268	प्रिकललीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
539	U72200AP2005PTC048317	जी सी जी टेक्नोलोजीस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
540	U72400AP2005PTC045966	आरबीयंट इमेज टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
541	U72900AP2004PTC044193	ग्राटस बिजनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
542	U14102AP2006PTC049627	एल ओ एच मिनरल्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
543	U74140AP1991PTC012913	एन. वी.पी. एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
544	U72200AP1997PTC027545	एस डी बी एडवान्सड एनवॉयरनमेंटल टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
545	U24230AP1995PTC020606	हाइ-प्रो हेल्थकेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
546	U72900AP2003PTC041657	विश्वम सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
547	U45200AP2003PTC041076	अगस्त्या कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
548	U27109AP2004PTC044570	आनंदी स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
549	U72200AP2006PTC050326	कोन सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
550	U72200AP2000PLC035697	बालाजी इन्फार्मेटिक्स लिमिटेड
551	U24110AP1992PLC013758	पंडित एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
552	U74140AP1991PTC012880	डायकन कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
553	U01210AP1996PTC023684	सिवानी एग्री फार्म्स एण्ड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
554	U29219AP1998PTC029913	श्री रामाकृष्णाटेक्नो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
555	U21011AP1998PTC028851	एल.बी.पी.आर. एब्रेसिक्स प्राइवेट लिमिटेड
556	U52520AP2003PTC041424	मदर इण्डिया नेटवर्क कंसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
557	U05005AP1991PTC013356	सीवेल मेरीन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
558	U72200AP2000PTC034249	वन्डर वेब सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
559	U15201AP2002PTC039689	स्टाइलश फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
560	U72900AP2002PTC038867	कार्मिकसॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
561	U24232AP2007PTC055074	जन्तेरा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
562	U73100AP2007PTC055997	गार्क रिसर्च फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड
563	U72200AP2007PTC053286	विस्टा आई टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
564	U65910AP1986PLC006658	फोनिक्स फाइनान्स एण्ड लीजिंग लिमिटेड
565	U26942AP1991PTC013542	विशाखापट्टनम सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
566	U72200AP2000PTC033384	बिड इण्डिया कॉमप्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
567	U92199AP1997PTC026532	फाइव मानडिट टूर्स एण्ड ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
568	U72200AP2002PTC038596	3बी टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
569	U72200AP2001PTC036847	फाइव एम एण्ड टि मैनेजमेंट एण्ड टेक्नालाजिस प्राइवेट लिमिटेड
570	U73100AP2005PTC047398	हैदराबाद साइंटिफिक रिसर्चप्राइवेट लिमिटेड
571	U92132AP2003PTC041526	आई मीडिया एनिमेशन ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
572	U70109AP2007PTC054173	वी वी एस रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
573	U80212AP1996PTC023176	नौवेल्ली स्कूल ऑफइन्फार्मेशन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
574	U25200AP1996PLC024370	एल-पैक पॉलिमर्स लिमिटेड
575	U72200AP1998PTC029082	धाराना मनीएण्ड ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
576	U72200AP2001PTC036488	कैलिबर टेक्नोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
577	U74999AP1997PTC027355	विश्वजीत कास्टिंग्स एण्ड फैब्रिकेशन्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
578	U65991AP1989PLC010682	निरन्तरा अन्योन्या सहायता निधि लिमिटेड
579	U72200AP2004PTC044373	लिक्विट इन्फोटेकप्राइवेट लिमिटेड
580	U72200AP2006PTC051211	टैकमे ऑनलाइन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
581	U72200AP2007PTC054268	पनाक्स सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
582	U65993AP1990PTC011038	अनीष एंड अनीष कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनांसियल सर्विसेस प्रा.लि.
583	U24110AP2005PTC046973	प्रीमियर प्रोटोजाइम्स प्राइवेट लिमिटेड
584	U65929AP1995PTC019296	तन्झा फाइनांसिस प्राइवेट लिमिटेड
585	U65999AP2006PTC051868	जी आई के आर लैंड होल्डिंग्सप्राइवेट लिमिटेड
586	U45200AP1993PTC015682	सन शाइन प्रापर्टीजप्राइवेट लिमिटेड
587	U64203AP1998PTC030765	सॉटेरिकसॉफ्टवेयर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
588	U70102AP2006PTC051922	एस एच एस बी लैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
589	U70102AP2006PTC051905	एस बी एस आर लैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
590	U70102AP2006PTC051853	आई के आर लैंड होल्डिंग्सप्राइवेट लिमिटेड
591	U70102AP2006PTC051851	के आर जी वी लैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
592	U65999AP2006PTC051878	जी एस आर लैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
593	U17111AP2007PTC053115	सप्ता शिखरा कॉट्सपिनप्राइवेट लिमिटेड
594	U55101AP1997PTC028610	तोन्डमानाटी रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
595	U01110AP1996PTC023128	मंजली एग्रो फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
596	U72900AP2002PTC039069	सी. वी. जे. साइबर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
597	U45200AP1988PTC008257	सन्तोषी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
598	U34300AP1998PTC029035	इम्पीरियल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
599	U01119AP2005PTC046251	टेरा आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
600	U31909AP1990PTC011664	ए.आर. सर्किट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
601	U72200AP2004PTC044676	वी एल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
602	U74999AP2007PTC054691	घर डेकार्ड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
603	U72200AP2000PTC035042	एम के जी इन्फो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
604	U85110AP2004PTC042379	कौशल्या मेमोरियल हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
605	U24239AP2003PTC040504	मनीकंटाफार्मा प्राइवेट लिमिटेड
606	U92111AP2006PTC049221	पीपल ट्री प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
607	U74210AP1997PTC028214	गार्लापाटी इंजीनियर्स निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
608	U45201AP2001PTC036198	संजना हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
609	U74999AP2000PTC035778	वोल्केम आंध्र माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
610	U40108AP2003PTC041582	रायपुर थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड
611	U80101AP1996PTC023092	कैब्सन्स टेक्नोलोजी सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
612	U72200AP2005PTC045701	एस वी आर टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
613	U74200AP1997PTC044766	मेट्रिक्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
614	U05005AP2000PTC034065	मिलेनियम सी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
615	U51909AP2004PTC044648	याट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
616	U45201AP2006PTC050448	पोसानी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
617	U74999AP2001PTC038067	रमाकांत एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड
618	U01111AP2001PTC036368	बसवा एग्रि-टेक प्राइवेट लिमिटेड
619	U72900AP2003PTC041242	इंटेल्ली क्वेस्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
620	U65993AP2006PTC051207	ओसिमम सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
621	U65921AP1993PLC016756	कोमंडूर हायर परचेज लिमिटेड
622	U15544AP1999PTC031268	हैदराबाद फ्रेश डिजिट प्राइवेट लिमिटेड
623	U65910AP1994PTC017504	नाथ पीटर्स फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड
624	U63040AP1991PTC013536	रौंगाला टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
625	U51225AP1998PTC030469	सी पी बी श्रीकाकुलम ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
626	U15499AP1983PTC004289	टेस्टी फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
627	U05005AP1986PLC004129	काजा सी फुड्स लिमिटेड
628	U45200AP1989PTC009629	कीर्ति कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
629	U55101AP1988PTC009001	के-आर-वी-होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
630	U99999AP1988PTC008359	प्रनवा टाइप सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
631	U22110AP1985PTC005742	लॉ सेल्स को प्राइवेट लिमिटेड
632	U65910AP1996PTC023632	सुरभि बांसवाडा लीफिन प्राइवेट लिमिटेड
633	U01110AP1995PTC022115	गोदावरी हाइब्रीड बीज प्राइवेट लिमिटेड
634	U01119AP1995PTC020384	एरीस एग्री टेक प्राइवेट लिमिटेड
635	U65991AP1995PLC019846	वशिष्टा परमानेंट फण्ड लिमिटेड
636	U10200AP1995PTC018574	मेरिकलोन बायोलोक प्राइवेट लिमिटेड
637	U99999AP1994PTC018461	भीमास गेस्ट हाउसेस प्राइवेट लिमिटेड
638	U67120AP1994PTC017690	सुरभि होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
639	U72900AP2001PTC036039	हम्मस इंफोवे प्राइवेट लिमिटेड
640	U72200AP2000PTC033975	वर्ने टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड
641	U72200AP2000PTC033389	अपर्णा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
642	U45200AP1999PTC032468	प्रजनानपाड कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
643	U45200AP2006PTC048668	प्रणव होम्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
644	U74999AP2006PTC051529	मेट्रो पार्किंगइण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
645	U45400AP2007PLC055250	एडुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड
646	U27104AP1991PTC012629	इम्प्रेसीव मेटल टॉप्स प्राइवेट लिमिटेड
647	U15511AP2001PTC037894	अशोक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
648	U72200AP2000PTC035330	इमरजेंट इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
649	U01119AP2005PTC046276	सुरक्षिता एग्री ऑयल प्राइवेट लिमिटेड
650	U74140AP2005PTC047105	जयपुरिया ब्रेकथ्रू सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
651	U15142AP1999PTC032097	श्री श्रीनिवासा सीड्सप्राइवेट लिमिटेड
652	U01122AP1980PLC002772	मल्बरी प्लांटेशन लिमिटेड
653	U32105AP1994PTC017275	कालीपटनम टेक्नोलॉजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
654	U65910AP1996PTC023605	आर.वी. लीफिन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
655	U67200AP1995PTC021831	हर्षा प्रणव सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
656	U27109AP2005PTC047309	लक्ष्मीनरसिंहा ऑयरन एण्ड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
657	U24123AP2004PTC043523	पद्मजा बायो साइंसेज एण्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
658	U72200AP2000PTC033410	हेल्प रिक्वेस्ट डॉट कॉम प्राइवेट लिमिटेड
659	U45200AP2004PLC042769	गेलिवि कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड
660	U24219AP1998PTC028870	ओ एस सी एजीजर्म प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
661	U24219AP2004PTC043222	रावा एग्री सर्विसेजप्राइवेट लिमिटेड
662	U27109AP1990PTC011699	वर्द्धन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
663	U63023AP2002PTC038932	अमरेश्वरा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
664	U63022AP1992PLC014467	एन. डी. आर. वेयर हाउसिंग (इण्डिया) लिमिटेड
665	U72200AP1991PTC013367	अनी एण्ड अबी कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
666	U29309AP1989PTC010247	एलान्टी इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
667	U72200AP1996PTC025919	सी एम जी सॉफ्टवेयर एण्ड ट्रेनिंगप्राइवेट लिमिटेड
668	U99999AP1996PTC025599	प्रास्पेक्टिव टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
669	U65910AP1996PTC024853	इनोदया फाइनांसियल सर्विसेजप्राइवेट लिमिटेड
670	U63023AP2002PTC038952	एस.के.आर. वेयरहाउसिंग को प्राइवेट लिमिटेड
671	U63023AP2002PTC038950	बदरादरी वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
672	U63023AP2002PTC038948	श्री नीलकंठेश्वरा वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
673	U63023AP2002PTC038933	को कोनाडा वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
674	U45200AP1994PTC017252	ए.के. ब्रदर्स इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शनप्राइवेट लिमिटेड
675	U24110AP1991PTC013484	नीबुलर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
676	U15209AP2001PTC036385	शरतचन्द्रा फुड्सप्राइवेट लिमिटेड
677	U24232AP2006PTC051563	आदर्श फाइन केम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
678	U14100AP2005PTC048596	मलकुड स्टोन एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
679	U72200AP1999PTC031139	इंटीग्रेटेड एकाउंटिंग सोल्यूशन्सप्राइवेट लिमिटेड
680	U32106AP2007PTC054280	गड्डे इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
681	U74140AP2008PTC056979	रामा कृष्णा कंसलटेंट्सप्राइवेट लिमिटेड
682	U72400AP2005PTC046043	मैन्यूमेंट सोल्यूशन्सप्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
683	U63023AP2002PTC038951	श्री कनकदुर्गावेयरहाउसिंग को-आर्डिनेशनल एजेंसीजप्राइवेट लिमिटेड
685	U63022AP2004PTC043671	साई रंगा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
686	U72200AP2003PTC041013	लोरियन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
687	U24110AP1993PTC015621	श्री दर्पनेनी केमिकल्सप्राइवेट लिमिटेड
688	U92111AP2001PTC037779	पी वी आर डिजीटल ऑडियो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
689	U65992AP1983PTC003896	महानंदी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
690	U65993AP1981PTC003231	एल एच ज्वेलर्सप्राइवेट लिमिटेड
691	U01120AP1986PTC006968	विद्या एगो फार्मसप्राइवेट लिमिटेड
692	U70102AP1995PTC021355	लाभम एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
693	U45201AP1995PTC019786	स्टोनी कार्टर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
694	U51398AP1997PTC028389	के.एस. ओर्नामेंट एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
695	U65992AP1996PLC026039	पद्माज्योति फाइनांस एण्ड चिट फण्ड लिमिटेड
696	U72900AP2002FTC039670	एपीक टेक्नोलॉजीस (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
697	U72900AP2002PTC039073	प्रोटेओमिकसॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
698	U45200AP2005PTC047259	विश्वनाथ बिल्डिंग मेटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
699	U65993AP1995PTC019284	सिंडोल इन्वेस्टमेंट्सप्राइवेट लिमिटेड
700	U52520AP2006PTC049157	आर आर आर मेगा सिक्यूरिटीप्राइवेट लिमिटेड
701	U55101AP2006PTC050216	लाहिरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
702	U72300AP2007PTC053138	जियो इंटेलिजेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
703	U72200AP2008PTC057452	सर्वीस बाइट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
704	U80301AP1992PLC013910	पतांजलि गुरुकुलम लिमिटेड
705	U01222AP2003PTC042026	रामप्रसाद पौल्ट्रीजप्राइवेट लिमिटेड
706	U64201AP2001PTC038018	फ्लेयर कम्यूनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
707	U74999AP2004PTC044836	अनंत इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
708	U74140AP1999PTC032189	वेंकी टेक्नो कार्मिशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
709	U45200AP2001PTC036842	के.जी.आर. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
710	U45400AP2007PTC054110	हरिनी एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
711	U72200AP2000PLC034887	ए आर जे डॉट कॉम टेक्नोलॉजीस लिमिटेड
712	U01110AP1996PTC023256	तापड़िया प्लांटेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
713	U52339AP2005PTC048384	वर्सा हेल्थकुक सिस्टम्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
714	U55209AP2007PTC052927	आस्था विनायक रेस्टूरेंट प्राइवेट लिमिटेड
715	U18100AP1994PLC017793	विसा टेक्सपोर्ट्स लिमिटेड
716	U72200AP2007PTC054030	सियोनटेक आइटीस प्राइवेट लिमिटेड
717	U74999AP2006PTC050334	जी एम साइजेन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
718	U65993AP1992PTC014866	पी एस आर फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंटप्राइवेट लिमिटेड
719	U67190AP2007PTC056779	बीकॉन वेल्थ एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
720	U29299AP1995PTC019193	शेडूज प्रोसेस इन्विपमेंट्सप्राइवेट लिमिटेड
721	U13209AP2002PTC038618	नेफटेक मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
722	U65910AP1986PTC006199	मुसद्दीलाल लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्सप्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
723	U65993AP2000PTC035884	भाग्या लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
724	U36911AP2004PLC044864	आंध्र प्रदेश जेम्स एण्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
725	U45200AP2007PTC053909	श्री लक्ष्मीटाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
726	U01119AP2005PTC047894	वी वी टी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
727	U85110AP2003PTC040864	सिनाप्स केयर हेल्थकेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
728	U72200AP2007PTC053908	साक्या सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
729	U72200AP2007PTC055739	एजिल टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
730	U40109AP1999PTC032023	सी आर एस टी पॉवर जेन प्राइवेट लिमिटेड
731	U10102AP2004PTC044592	श्रीपर्णा फेरो एलायज प्राइवेट लिमिटेड
732	U15429AP2003PTC042304	निजामाबाद बयो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
733	U51398AP2003PTC041460	रत्नराज बुलियन्स प्राइवेट लिमिटेड
734	U72200AP2002PTC039959	अगारा टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
735	U72200AP2007PTC052778	जी.डी. साइबर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
736	U45200AP2007PTC055013	नास्टीता इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
737	U85110AP2000PTC034799	डॉक्टर्स हेल्थवेव प्राइवेट लिमिटेड
738	U27109AP1994PTC016967	वंशी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
739	U01210AP1994PTC018421	व्हाइटलाइन एक्वा प्राइवेट लिमिटेड
740	U92111AP1998PTC028895	हैदराबाद टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड
741	U52520AP1987PTC007724	रेचर्ला मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
742	U63023AP2002PTC038854	टी.एस.आर. वेयरहाउसिंग को प्राइवेट लिमिटेड
743	U63023AP2002PTC038949	सिम्हाद्री वेयरहाउसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
744	U65910AP1988PTC008875	श्री पद्मजा लीजिंग एण्ड हाउसिंग फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
745	U14102AP1989PTC009771	सवित्रा ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
746	U24239AP1995PTC040649	ट्रिब्यूट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
747	U24239AP1994PTC018757	सूरज ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
748	U65910AP1996PTC024131	स्नेहा लीफिन प्राइवेट लिमिटेड
749	U52520AP1989PTC010037	के.के. डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
750	U01119AP1995PTC019755	श्री कल्याण एगो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
751	U74130AP1998PTC029004	सूर्या प्रकाश होम शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड
752	U29300AP1980PTC002866	एकशिला इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
753	U72200AP2002PTC039823	स्टार राज इन्फो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
754	U72200AP1994PLC017626	इंटरनेट कम्यूनिकेशन्स इण्डिया लिमिटेड
755	U01111AP1996PTC024405	रंगसाई एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
756	U24110AP1991PLC012765	फ्रैंको लैब्स लिमिटेड
757	U65992AP1998PTC028805	जगदानंदा चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
758	U63022AP1991PTC013285	नलिनी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
759	U15499AP1990PTC012085	इंडेंटो फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
760	U15205AP1996PTC023531	वैन्डर फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
761	U15100AP1997PTC026702	किंडर फुड्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
762	U51909AP1990PTC010933	विनय एपैरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
763	U70102AP2006PTC051892	प्लेटो लैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
764	U70102AP2006PTC052147	के आर बी एस बी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
765	U70103AP2007PTC052198	लीपेंस लैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
766	U65999AP2006PTC051914	सोम के आर बी लैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
767	U65999AP2006PTC051867	के आर ए एम बी लैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
768	U70102AP2006PTC051852	के आर भूपाल लैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
769	U65992AP1995PTC021415	ओम साई चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
770	U65990AP1996PTC024306	मंगलगिरी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
771	U65910AP1996PTC024312	जुगल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
772	U24119AP2006PTC050205	डेनिस्को स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
773	U72200AP1996PTC022788	पिक्सेल कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
774	U01119AP2006PTC050622	परमार एग्रो सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
775	U29308AP2003PTC041952	हनीबी एपलाइंसेस एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
776	U65992AP1995PTC022581	एसबी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
777	U45201AP1999PTC032907	श्रीजीस रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
778	U72200AP1995PTC021552	निजामाबाद कम्प्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
779	U15143AP1995PLC020597	सुराना ऑयल्स एंड डेरिवेटिव लिमिटेड (इंडिया)
780	U72200AP1999PTC032059	सॉफ्टालिया टेली सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
781	U15543AP1996PTC025208	एवरग्रीन एक्वा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
782	U01210AP1983PTC004351	अश्विनी एगोएटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड-
783	U24129AP2001PTC038205	डैका बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
784	U72200AP2006PTC049207	क्रिथा टेकसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
785	U72200AP2007PTC052647	वैचर ऑटोमोटिव डिजाइन एंड इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
786	U01119AP2004PTC042896	वासवी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
787	U74999AP2007PTC054176	बालाजी मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
788	U40102AP2007PTC056199	श्रेष्ठ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
789	U72200AP1998PLC030026	रॉकशाइन डाटाकॉम लिमिटेड
790	U65992AP1996PTC025269	अरविंद फायनांस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
791	U01122AP1988PTC008731	आई एम एल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
792	U72200AP2000PTC034039	तेमा सिस्टम्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
793	U18209AP1997PTC027984	समीन्ज लेदर गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
794	U45200AP2007PTC053224	आदित्य एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
795	U45200AP2007PTC053245	आदित्य स्काईस्क्रेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
796	U45200AP2007PTC053227	आदित्य एडिफिस प्राइवेट लिमिटेड
797	U72200AP1997PTC026515	सबरी कम्प्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
798	U72200AP2000PTC035243	स्पाकलस्पेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
799	U72200AP2006PTC049158	ट्राइटन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
800	U72200AP2005PTC047516	एचएनएस हॉरिजन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
801	U80300AP1996PLC023330	स्प्रिंगलैंड एजुकेशनल एकेडमी लिमिटेड
802	U45200AP1995PTC022230	वीआरएस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
803	U72200AP2001PTC036931	आरइंफोनेट प्राइवेट लिमिटेड .आर.बी.
804	U45200AP2003PTC041253	सुनंदना होम्स प्राइवेट लिमिटेड
805	U24232AP2007PTC054964	चैनेली मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
806	U24239AP2005PTC045959	ललित लाइव साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
807	U45200AP1997PTC027336	एसएमडी कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
808	U24110AP1987PTC007133	कोस्टल कार्बोनेट्स प्रा.लि .
809	U85110AP1991PTC012565	गोदावरी सीटी स्कैनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
810	U40109AP2006PTC052062	टी वी आर पॉवर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
811	U65993AP1990PLC011057	सूर्यचन्द्र इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
812	U52110AP1994PTC017411	वार्नर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
813	U51909AP2002PTC039203	इंगलो ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
814	U01119AP2003PTC041364	वीउद्यान प्राइवेट लिमिटेड .एस.
815	U72200AP2005PTC047024	सेंटीन डाटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
816	U45200AP2005PTC045586	आइशानी डिजाइन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
817	U45203AP2006PTC050808	वुडरिज कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
818	U74999AP2007PTC052284	सोर्स वन कनसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
819	U63030AP2007PTC053761	नियो शिपिंग एंड ऑफशोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
820	U65990AP1994PLC018379	इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेजलिमिटेड
821	U18209AP1993PTC015999	सुदम लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
822	U92111AP1978PTC002381	जनप्रिय फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
823	U63022AP1981PTC003147	पीएमजी कोल्ड फोर्मिंग प्राइवेट लिमिटेड
824	U24239AP1981PLC003005	कैफिन्हाल ऑर्गेनिक एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.
825	U52510AP2004PTC042746	मैंगो आउटसोर्सिंग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
826	U19201AP2003PTC040209	आलेख्य लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
827	U13209AP1989PLC009766	सीसीएल पॉवर लिमिटेड
828	U15142AP1984PTC004506	रामा कॉटन एंड ऑयल मिल्स प्रा.लि.
829	U16003AP1964PTC000985	स्टार टोबेको कं.लि.इंडिया प्रा .
830	U52301AP1958PTC000796	ग्रेट इस्टर्न एंटरप्राइजेज प्रा.लि.
831	U16009AP1999PTC032642	वसुधा टोबेको कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
832	U24231AP2003PTC040207	अविवा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
833	U45201AP2000PTC035820	नौशाबा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
834	U67120AP2000PTC035763	आयशा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
835	U36911AP2005PTC046054	अमरावती स्टोकइन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
836	U73100AP2004PTC042688	एमक्कोरमिक फार्मा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
837	U72200AP2001PTC037187	म्यूसिका सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
838	U01119AP2005PTC047601	वेन्ची एग्रोफार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
839	U73100AP2007PTC054052	आदित्य लेजर फैब्स प्राइवेट लिमिटेड
840	U17119AP1991PTC013448	वैकट रंगा टैक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
841	U22110AP2005PTC047078	कॉस्मिक ग्राफिक्स एंड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
842	U21012AP1991PTC013215	इंडो गल्फ पेपर बोर्ड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
843	U31300AP2003PTC040700	श्री मारुति राघवेन्द्र मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
844	U72200AP2007PTC052748	बाइसिस बिजनस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
845	U65910AP1993PTC016487	स्वर्णश्री फाइनांस एंड लिजिंग प्रा.लि.
846	U20219AP2004PTC044272	कोरल मॉड्यूलर फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड
847	U27109AP2005PTC048113	श्री साई सरस्वती स्पंज आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
848	U34102AP2005PTC047175	जुगगेरनोट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
849	U72200AP2005PTC046761	आईएसएमटी बीपीओ ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
850	U72200AP2005PTC046760	आइए ई2ई सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
851	U15541AP2006PTC051115	विजयभेरी फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
852	U74140AP2006PTC051132	एसजी आईटी रिक्रूटर्स हब प्राइवेट लिमिटेड
853	U14200AP2007PTC055370	ग्रेन मिशे इम्पेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
854	U45200AP2008PLC057489	डायमंड लाइफ प्रोपर्टीज लिमिटेड
855	U72100AP1993PTC015593	एसपेन टेक्नोलोजिस प्रा.लि.
856	U65922AP1996PTC025386	स्वास्तिक श्री साई चिट्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
857	U65992AP1995PTC019603	श्री साई राघव चिट फंड्स एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
858	U15209AP1997PTC028056	ललिता वैष्णवी मिल्क्स प्राइवेट लिमिटेड
859	U01119AP2001PTC036106	सेरेन मिडोज प्राइवेट लिमिटेड
860	U63040AP2006PTC049155	जेएन होलिडेज एंड ट्रेवल्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
861	U74999AP2006PTC051755	माइलाइफ फाइनांसियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
862	U52520AP1987PTC007984	शिवलाल मोतीलाल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
863	U65921AP1994PTC017543	बंसल फाइनांसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
864	U18100AP1991PTC012848	बी. एस.टैक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
865	U55100AP1996PTC024193	आगर-लावा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
866	U63040AP2006PTC048726	फनडू ट्रेवल एंड टूर्स प्रा.लि.
867	U31200AP2006PTC051503	एशियन रिन्यूवेबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
868	U33119AP2004PTC043990	स्टार ट्रेड्स इन एनालिटिकल रिसोर्सेज प्राइवेटलिमिटेड
869	U40100AP2005PTC045607	चाहना पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड
870	U65990AP1995PLC020487	भव्या कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड
871	U99999AP1995PTC020270	सत्या लिथोट्रेपी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
872	U52520AP2005PTC048563	सोल प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
873	U01122AP1998PTC028730	सम्पूर्ण सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
874	U61100AP2003PTC042309	प्रोलीन शिपिंग एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
875	U72200AP2001ULT036207	हैल्थट्रेक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
876	U74999AP2000PTC035851	कोस्टल सर्वेयर्स एंड कंसल्टेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
877	U71120AP1997PTC026689	सिवेज ओरम शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
878	U70102AP1987PTC008030	रामय्या एस्टेट्स प्रा.लि.
879	U70102AP1987PTC008029	देवी एस्टेट्स प्रा.लि.
880	U70102AP1987PTC008026	विशाखा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
881	U51219AP1994PTC016828	अक्षय एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
882	U72200AP1998PTC030725	मनसिता कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
883	U55103AP2001PTC036544	कपीराजा हाइवे मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड
884	U45200AP2004PTC044449	पीएमआर कंस्ट्रक्शन्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेटलिमिटेड
885	U70109AP1999PTC031911	प्रोस एंड कोन्स एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
886	U45200AP1982PTC003726	बद्रुका कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
887	U51909AP1995PTC022494	ध्रुव दर्शन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
888	U72200AP2007PTC056481	पिक्सेल आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
889	U24239AP1990PTC011576	सिरी फार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि .
890	U72200AP2003PTC041689	अधुना टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
891	U24119AP1984PTC004879	थालेट्स इंडिया प्रा.लि.
892	U05005AP1994PTC016984	क्रूस्टैसिया एक्वा फार्म्स प्रा.लि.
893	U26914AP1997PTC027726	श्री शेषाद्रि सिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
894	U05004AP2001PTC036477	देवी फीड्स प्राइवेट लिमिटेड
895	U55101AP2005PTC045538	पुजारी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
896	U27310AP2007PTC055801	वाइजाग इस्पात एंड एलॉय प्राइवेट लिमिटेड
897	U72200AP1987PTC007326	ऑप्टिमा कम्प्यूटर्स प्रा.लि.
898	U45200AP2007PTC053889	श्री तिरुमला साई होम्स एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेटलिमिटेड
899	U85110AP1990PTC012002	सलुजा हॉस्पिटल्स प्रा.लि.
900	U65921AP1995PLC021823	कोन्टी फिन लिमिटेड
901	U65992AP1997PTC027067	प्रांतीया चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
902	U74140AP2002PTC039438	सीएलआर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
903	U45200AP1999PTC031169	विष्णुतेजा कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
904	U52520AP2003PTC041231	सीजेपी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
905	U72200AP1996PTC025044	सिनफोलिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
906	U74900AP2007PTC054623	एचबीएल इलेक्ट्रिक ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड
907	U85195AP1996PLC024932	अमरावती डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड
908	U63040AP1996PTC023663	अभिषेक ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
909	U14102AP2005PTC045200	रुक्मा ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
910	U17112AP2005PTC047320	चंद्रशेखरा सरस्वती स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
911	U72200AP2007PTC055615	फोर स्कवायर सॉफ्ट टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
912	U67120AP1989PTC010707	रिचीमेन इनवेस्टमेंट्स प्रा.लि.
913	U18100AP1992PLC014873	रिचीमेन पॉलिस्टर लिमिटेड
914	U15120AP1992PLC014872	रिचीमेन ब्रेवरीज लि.
915	U72200AP2000PLC033304	रुमत सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिमिटेड
916	U24239AP2005PTC046238	प्रसाद ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
917	U65910AP1987PTC007966	हैदराबाद फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
918	U15209AP1996PTC025300	सौम्य डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
919	U21012AP2008PTC057507	जय भवानी बम्बू प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
920	U74999AP2008PTC058082	स्टैकलाइन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
921	U65992AP1982PTC003451	शालिवाहौ चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
922	U65910AP1995PLC022052	पीसीएस हाई फिन लिमिटेड -
923	U65992AP1994PTC017378	किरणकृष्णा चिट्स एंड फाइनांस प्रा.लि.
924	U72200AP2005PTC048298	सॉफ्टवेयर न्यूक्लियस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
925	U15311AP2006PLC050962	पीसीएस पार बोर्ड राइस मिल्स लिमिटेड
926	U72200AP2000PTC035391	वाइजाग ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
927	U65992AP1995PTC022517	सम्भवनाथ चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
928	U72200AP1987PTC007664	एनियाक सॉफ्टवेयरर्स प्राइवेट लिमिटेड
929	U85110AP2001PTC036243	दुर्गाबाई हार्ट सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड
930	U72200AP2005PTC047770	ऐनजेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
931	U14103AP2006PTC048719	ऐनजेक ग्रेनाइट एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.
932	U72200AP2007PTC055447	सैलिक्स सॉफ्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
933	U60100AP1996PTC024898	विजय दुर्गा ट्रांसपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
934	U36911AP1996PTC024305	कोस्टल डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड
935	U26932AP1995PTC021152	साई भवानी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
936	U63040AP1999PTC031404	साहीर ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
937	U70102AP2002PTC039156	गृहप्रिया एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
938	U63040AP2000PTC033932	कनकमहालक्ष्मी ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
939	U99999AP1988PLC008373	मिडवेस्ट म्यूचुअल फंड लिमिटेड
940	U27101AP1996PLC023774	मार्स बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड
941	U72900AP2002PTC038688	बीपीएस न्यू जेन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
942	U14102AP2001PTC037024	डी.आर. ग्रेनाइट (नेल्लोर) प्राइवेट लिमिटेड
943	U45200AP2005PTC047676	प्रेरणासाई कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
944	U80101AP1996PTC022901	एस. वी. के. हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
945	U65993AP1996PTC022900	एल. वी. के. फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड
946	U72200AP1998PTC030377	सिकेन्ट टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
947	U51500AP1997PTC027763	संयुक्ता रिसोर्सेस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
948	U74140AP1986PTC006300	फार्चुन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्रा.लि.
949	U05000AP1996PTC023765	कमल फिशनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
950	U05004AP1986PTC006760	कोरोमण्डल फिशिंग नेट्स प्राइवेट लिमिटेड
951	U15209AP1998PTC029058	सोमा-सूर्य एग्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
952	U17116AP1995PTC019564	शीलूटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
953	U72200AP2003PTC041836	फ्रैक्चल स्मिथ्स सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
954	U72200AP2006PTC052066	फोटो लिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
955	U21020AP2001PTC036229	कान्हन पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
956	U23209AP1983PLC004065	किंग्सवे ऑटो सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
957	U15499AP1997PTC027058	सम्प्री कैंडी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
958	U18101AP1996PTC025808	हैदराबाद साड़ी हाउस प्राइवेट लिमिटेड
959	U74920AP1999PTC031459	किन्नेरा डिटेक्टिव एजेंसी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
960	U72200AP2005PTC047047	I7 टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
961	U65992AP1992PTC015153	परियादा चिट फंड्स एंड फाइनांस प्रा.लि.
962	U74999AP2006PTC050211	विमला बैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
963	U55101AP2006PTC051700	फोर बाई फोर होटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
964	U80904AP2006PTC052178	टेकनिकोन एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
965	U45209AP2007PTC053962	काटला कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
966	U93000AP2007PTC056375	श्रेष्ठ एचआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
967	U72200AP2000PTC034328	एस. एस. इनफोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड
968	U24231AP2002PTC039721	सुभल आयुर्वेदिक एंड कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
969	U31300AP1988PTC008976	पायल वायर्स प्राइवेट लिमिटेड
970	U52520AP1987PTC007566	विक्टर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
971	U74900AP2007PLC054493	स्पेकव्यू इंपेक्स इंडिया लिमिटेड
972	U72200AP1994PTC018133	रिलेवेंट टेक्नोलोजिस प्रा.लि.

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
973	U72200AP1996PLC023356	जेपी मोबाइल (इंडिया) लिमिटेड
974	U72200AP2000PLC033498	पायनीयर इसर्व लिमिटेड
975	U72200AP2003PTC040536	प्रेन्ग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
976	U27109AP2002PTC040125	क्वेस्ट मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
977	U27100AP2007PTC056323	अंसोरा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
978	U65992AP2000PTC033793	बुद्धत्व चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
979	U80100AP1999PTC030893	मिनर्वा सॉफ्टवेक प्राइवेट लिमिटेड
980	U27109AP1982PLC003623	कपाडिया आयरन एंड स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड
981	U32104AP2006PTC051177	सेमइंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
982	U60210AP2004PTC044921	जीजीआई ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
983	U72200AP2004PTC044715	जीजीआई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
984	U24230AP1981PTC003326	आंध्रा इम्यूनोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
985	U65993AP1995PTC019347	नवराम इन्वेस्टमेन्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
986	U65990AP1996PTC024072	इनोक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
987	U74210AP1988PTC008848	हैदराबाद डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
988	U85110AP2001PTC037204	इसकास हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
989	U15112AP2007PTC056337	प्रणीता फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
990	U65191AP2008PTC057267	प्रणीता फोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
991	U24239AP2005PTC048350	रिलायबल फोर्मूलेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
992	U92111AP1991PTC012229	सत्यश्री मूवीज प्रा.लि.
993	U52520AP1995PLC021344	ग्लोबल ट्रस्ट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
994	U65910AP1994PTC018890	सत्या कमल फायनेन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
995	U01122AP2003PTC040244	ध्रुव सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
996	U74140AP1992PTC013859	चारटेक कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
997	U01229AP2003PTC042164	सनस्पाइस एग्री टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
998	U72200AP2001PTC037753	सिरीशा इनफोवेज प्राइवेट लिमिटेड
999	U74120AP2007PTC053438	भारद्वाज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
1000	U65910AP1995PTC020864	एएमएस फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड
1001	U65992AP1982PTC003399	गोलकुंडा चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1002	U65992AP1972PTC001543	अनारकली चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1003	U63040AP1971PTC001404	सुपरसोनिक ट्रेवेल्स प्रा.लि.
1004	U45200AP1990PTC010858	पैरामाउंट कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
1005	U65993AP1989PTC010219	सिकंदराबाद इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि.
1006	U72200AP1999PTC032003	प्लेक्सस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1007	U74120AP2004PTC043947	द्रव्य अकाउंटिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1008	U29253AP2003PTC042209	अहरा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1009	U63040AP2003PTC041865	श्रेयास रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड
1010	U74999AP1997PTC027244	मेन्ज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
1011	U65990AP2004PTC043558	वसंत फाइनेंशियल ट्रांजेक्शनज प्रोसेसिंग प्रा.लिमिटेड
1012	U31402AP2001PLC036057	हाई-वॉट पॉवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1013	U72200AP2007PTC054893	अर्श सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1014	U74999AP2006PTC052162	सिरी टूर्स एंड ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1015	U29220AP2007PTC053830	ई-मैन इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
1016	U29309AP1998PTC030705	एस. एम. एस. सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1017	U34100AP1996PTC023686	हैदराबाद व्हील टैक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
1018	U15205AP2003PTC040588	लालवानी कैंडी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1019	U72900AP2007PTC054753	युरिका इंटरनेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1020	U70102AP2005PTC047621	सूर्यवंशी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1021	U72200AP2004PTC043445	रायला सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1022	U01119AP1996PLC025361	डेक्कन लाइव स्टॉक एंड एग्री प्लांटेशनस लिमिटेड
1023	U65910AP1996PLC025062	डेक्कन हाइरफिन सर्विसेज लिमिटेड
1024	U65910AP1996PLC023433	डेक्कन फिनलीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
1025	U72200AP1999PTC032814	स्लाइस टैक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
1026	U45200AP1991PTC013368	दीप्ति डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1027	U45201AP2001PTC036683	इनवोटेक कंस्ट्रक्शन्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1028	U45200AP2006PTC050645	रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1029	U65993AP1900PTC004593	इंटेल् इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1030	U74140AP2005PTC045418	इनसाइन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1031	U51909AP2000PTC034672	गगनस्स मिलेनियम एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1032	U85310AP2005PTC048376	किम्स ग्रीनलीफ हेल्थकेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1033	U29299AP2004PTC043533	अमोघ माइक्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1034	U65993AP1996PLC022774	श्रीनिधि लीफिन लिमिटेड
1035	U18209AP1996PTC022857	राब्दा करम लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड
1036	U72200AP1999PTC033180	एवरीवन्ज लाइनक्स प्राइवेट लिमिटेड
1037	U01222AP1996PTC022741	उमामाहेश्वरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1038	U72200AP1999PTC032497	सीर सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1039	U51215AP1994PLC018657	इनोवेटिव एक्सपोर्ट्स फ्लॉवर्स लिमिटेड
1040	U65992AP1996PTC025868	साई सुधीन्द्र चिट-फीन प्राइवेट लिमिटेड
1041	U65921AP1994PTC018822	सरत साई कंस्ट्रक्शन्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1042	U15412AP2008PTC057091	चिगुरुपती नरिशमेंट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1043	U63040AP2003PTC041932	अनुशा ट्रेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1044	U72200AP2002PTC039491	नॉलेज सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1045	U18100AP2005PTC046095	श्रद्धा अपारलज प्राइवेट लिमिटेड
1046	U74994AP1996PLC024940	एम. के. टीम इंटीरियर्स लिमिटेड
1047	U65993AP1992PTC014054	मैक्रो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1048	U65910AP1996PTC024919	नेस्ट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
1049	U51397AP2002PLC038749	ए1 हेल्थ वंडर्स लिमिटेड
1050	U45200AP2004PTC044760	मिजलिग शेल्टर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1051	U21012AP2005PTC048078	ए एंड एस इको पेपर प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1052	U72200AP2004PTC042803	बीजट्यून् सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1053	U72200AP1999PTC031949	हब नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
1054	U01403AP2006PTC052102	स्तारा एग्रीको प्राइवेट लिमिटेड
1055	U14102AP1990PTC011214	विनटेक ग्रेनाइट्स प्रा.लि.
1056	U32300AP1988PTC009387	स्टैण्डर्ड स्टेब्लाइजर्स एंड स्टीरैटड प्रा.लि.
1057	U45200AP2003PTC040474	श्री वेंकटकृष्णा रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1058	U45200AP2005PTC045554	क्रीट व्यू बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1059	U72200AP2008PTC057986	एम.एम. साइबर टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1060	U01111AP1995PLC020742	डेक्कन ग्रीन फिल्ड्स लिमिटेड
1061	U72200AP2000PTC033309	हेमाद्री टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1062	U18101AP2005PTC046833	एसआरवाई अपारलज प्राइवेट लिमिटेड
1063	U63040AP2006PTC049003	सरल होलीडे टूर्स (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड
1064	U65993AP1991PTC013326	मोनिता फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1065	U51909AP1998PTC029523	अफैबल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1066	U51500AP1997PTC027382	स्पर्श इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
1067	U72200AP2002PTC039903	एनएस आईटी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1068	U24230AP2005PTC048424	सी एस के बायो आईटी रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
1069	U74300AP2004PTC043764	काल-ऑन इंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1070	U92100AP2007PTC056760	लार्क स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
1071	U29219AP1992PLC014383	पृथ्वी इंटरनेशनल लिमिटेड
1072	U72200AP2000PTC034120	प्रेसियस आईटी प्राइवेट लिमिटेड
1073	U72200AP2000PTC034094	हासा इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1074	U72200AP2006PTC051572	नवराग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
1075	U25209AP2000PTC035475	मिलेनियम मूल्ड टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
1076	U72200AP1997PLC027619	ट्राइओर्ड टेक्नोलॉजिस लिमिटेड
1077	U65991AP1996PTC025899	साई लीफिन प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1078	U70102AP1989PTC010767	अन्नपूर्णा बिल्डर्स प्रा.लि.
1079	U15139AP1994PTC017172	आईटीवी एगो टेक्नोलोजिस प्रा.लि.
1080	U45200AP2007PTC053364	शर्मिला इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1081	U01222AP1997PTC028500	दसराजु एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
1082	U72200AP2003PTC041206	अनाकिन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1083	U01120AP1996PTC024891	ग्रीनडैल इंटीग्रेटेड फार्मिंग टेक्नोलोजिस प्राइवेटलिमिटेड
1084	U24239AP2006PLC048731	टाटीनेनी हैल्थकेयर लिमिटेड
1085	U24239AP2005PTC047753	इंटरसिंट लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
1086	U01110AP2006PTC051612	भद्रगिरी फुड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1087	U65991AP1990PLC011371	श्री सत्या साई बेनिफिट सोसाइटी लिमिटेड
1088	U22300AP1996PLC025034	टोस्सेक्स इन्फोटेक लिमिटेड
1089	U74140AP1987PTC008093	डेल्फी हाई टेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1090	U52609AP2002PTC039034	स्वयंसर इंडस्ट्रीयल एंड फैसिलिटीज सर्विसेज प्राइवेटलिमिटेड
1091	U74140AP2006PTC049603	बोबीज अल्फावैरीफिकेशन्स एंड प्लेसमेंट सोल्यूशन्सप्राइवेट लिमिटेड
1092	U74900AP2007PTC055051	प्रीकास्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज (इंडिया)प्राइवेट लिमिटेड
1093	U55101AP1992PLC014007	पी.आर.एस. होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1094	U18101AP1991PLC012609	विजय अपारल्ज लिमिटेड
1095	U67120AP1996PTC023574	चोला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1096	U15142AP2005PTC045976	शंकर नगर बायो फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
1097	U15200AP2005PTC045975	शंकरा नगर डेयरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1098	U85110AP2004PTC044638	डेक्कन सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1099	U74130AP1995PTC019699	मोरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1100	U24119AP1984PTC004570	किशोर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1101	U65992AP1997PTC026388	करुमंची चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1102	U24119AP1995PLC019970	फर्स्टलाइन फार्मा लिमिटेड
1103	U74130AP1997PTC027595	डॉ. प्रसादस् एनवायरनमेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1104	U74210AP2003PTC041281	एसएसआरएस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1105	U74999AP1996PTC025233	सृष्टि बिजनेस कॉनसेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1106	U70102AP2006PTC052056	विपीनम रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1107	U14292AP2007PTC054201	श्री चंद्रशेखरा मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1108	U74900AP2007PTC055032	एनकेजी मैट्रीमोनियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1109	U72200AP2008PTC057092	एमवीएस सिस्टम्स एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेटलिमिटेड
1110	U51909AP2008PTC057697	ग्लोबल कोलिन्स इंपेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1111	U22210AP1996PTC023929	इंटेकलियो प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1112	U22210AP2005PTC046503	ओरिजन्स डिजिटल प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1113	U15311AP1988PTC009294	सिद्धार्थ रोलर फ्लॉर प्राइवेट लिमिटेड
1114	U55101AP1993PTC015366	लांबा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1115	U23209AP1992PTC014402	काबसन्ज पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
1116	U67120AP1995PLC019361	कश्यप सिक्थोरिटीज लिमिटेड
1117	U55101AP1998PLC029997	एसजे इन्स लिमिटेड
1118	U65993AP1997PTC028555	कश्यप स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
1119	U92132AP2001PLC037178	कंवलजीत ट्रांस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
1120	U15323AP2006PTC049331	सीडीसी पोलीओल्स प्राइवेट लिमिटेड
1121	U26942AP1979PTC002512	इलेक्ट्रोसिरेमिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
1122	U45201AP1997PTC027145	कावुरु कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1123	U51909AP2002PTC038915	रैगमैन एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1124	U34201AP1996PTC024061	चारमीनार ऑटो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
1125	U85110AP1997PTC027680	स्क्वीब बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1126	U72200AP2005PTC047868	डायलोग सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1127	U65993AP1995PLC019862	चित्तुरी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
1128	U24209AP1979PTC002481	आर. जी. प्लास्टिक्स एंड पैकिंग प्राइवेट लिमिटेड
1129	U99999AP1975PTC001847	टीएमएस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1130	U26942AP1992PTC013642	वंशी कृष्णा सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1131	U24230AP1996PTC023889	वम्शी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
1132	U74200AP1999PTC031436	डेक्कन आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1133	U29119AP2004PTC043705	हैवकैट (हेवी इक्विप्ट) पार्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1134	U72200AP2001PTC036681	वर्चुअल इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
1135	U72200AP2005PTC045146	पृथ्वी साइबरटेक प्राइवेट लिमिटेड
1136	U01111AP2006PTC049369	स्वर्ण सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
1137	U01119AP2007PTC053085	न्यूट्रीगेशन क्रॉप साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
1138	U72200AP2007PTC054701	टेनस्पार्क सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड
1139	U45200AP2005PTC048295	एच आर एस एस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1140	U45200AP2005PTC046607	गायत्री एनक्लेव्स प्राइवेट लिमिटेड
1141	U74210AP2005PTC047685	सुसार इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
1142	U21010AP1962PLC000917	श्री राजा राजेश्वरी पेपर मिल्स लिमिटेड
1143	U52520AP1988PTC008523	एम. सी. मार्केटिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1144	U65992AP1987PTC007609	मल्काजगिरी चिट फंड्स एंड फाइनेंस प्रा.लि.
1145	U74994AP2000PTC035281	शंग्रीला मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड
1146	U45403AP2002PTC039235	सिमपली स्लीक इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड
1147	U24134AP1990PTC011794	जेन पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1148	U65992AP2001PTC036967	हैल्लम चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
1149	U45200AP2004PTC043057	वी वी एस होम्स प्राइवेट लिमिटेड
1150	U24110AP1992PTC014470	रावा केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1151	U67120AP2007PTC053211	इंवीडियस कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1152	U74999AP1988PTC008524	जय नेट्स प्रा.लि .
1153	U29297AP2003PTC040693	पी. के. वी. वॉटर टीम प्राइवेट लिमिटेड
1154	U29219AP1992PTC014877	साई राम सोलर सिस्टम्स प्रा.लि.
1155	U24239AP2005PTC047299	ताल्लुरी लेबोरेटरीज प्राइवेट लि.
1156	U24233AP2007PTC056379	फाइन ड्रग्स एंड इंटरमिडियट्स प्राइवेट लिमिटेड
1157	U72200AP2007PTC056596	प्रेसटेंस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1158	U01119AP2007PTC056483	पर्ल जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1159	U72200AP2000PTC033452	वाल्डन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1160	U93000AP2008PTC057545	अकोर्बी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1161	U72200AP2005PLC046169	बी2बी एंटरप्राइज सोल्यूशन्स लिमिटेड
1162	U74140AP2002PTC038589	प्रोजेक्ट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1163	U29309AP2006PTC051237	24 * 7 टेलिकॉम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1164	U65992AP2004PTC042691	श्रीसाई मोनिप्रिया चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1165	U85101AP1998PTC028863	डॉ. वर्षा डायग्नोस्टिक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1166	U65992AP2005PTC045168	श्री साई डिवाइनीटी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1167	U20100AP1998PTC028914	श्री राघवेंद्र वुड वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
1168	U72200AP2004PTC034783	मेड ब्रिज सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
1169	U14102AP1989PTC010815	अमृता ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
1170	U72200AP2004PTC043169	गोवीन्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1171	U92190AP2005PTC045832	थिंकिंग मीडिया इंटरटेनमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1172	U29309AP2000PTC034975	जीसीआई टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1173	U72200AP2001PTC036443	एसबीवी पॉवर एंड फ्रंटीयर टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
1174	U01119AP2005PTC047472	विशाखा एग्रो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1175	U63022AP2005PTC045653	देवी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
1176	U45400AP2007PTC055387	डॉ. गुज्जू एस्टेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
1177	U45200AP2008PTC058317	रॉकेट राइज कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1178	U24230AP1986PLC006711	इंडिकेयर मेडिकल डिस्पोजेबल्स लिमिटेड
1179	U29195AP1992PTC014502	एडमोस डिजिटल कंट्रोल एंड पैकिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1180	U65992AP1995PTC019814	रविप्रिया चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1181	U65922AP1995PTC019747	इंजीनियर रेड्डी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
1182	U26922AP1994PTC018650	श्री रामचंद्रा सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1183	U67120AP1984PLC011105	कॉटिनेंटल मोनेटरी फंड लिमिटेड
1184	U72200AP2001PTC036475	वतन रियलटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1185	U31909AP1987PTC007947	जया इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
1186	U67100AP2007PTC055609	श्री संजीवनी इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1187	U24230AP1985PTC005355	फार्मा ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
1188	U24230AP1989PTC010464	फार्मा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
1189	U92111AP1952PTC000780	हैदराबाद सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड
1190	U65910AP1996PLC024514	एनराई फिनवेस्ट लिमिटेड
1191	U72200AP1992PTC014732	डंडु कंप्यूटर सर्विसेज प्रा.लि .
1192	U70102AP2007PTC053046	गैंड प्रेसीडेंसी प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
1193	U72200AP2004PTC044278	क्लूसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1194	U72200AP2007PTC052938	भूमा-कावेह इंटेलिजेंस सिसोर्सेज एंड सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1195	U21340AP1987PLC008056	महेन्द्र कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड
1196	U65990AP1991PTC013020	गोल्ड क्रेस्ट इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1197	U65990AP1991PTC013019	सिटीलाइन इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1198	U72900AP1999PLC031867	हैदराबाद.कॉम लिमिटेड
1199	U65993AP1994PTC016952	हरि राम इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1200	U66010AP2001PTC037874	एसएस इश्यूरेस एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
1201	U25200AP1984PTC004591	लोहिया प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1202	U65991AP2007PTC053133	मनीट्री फिनसोल प्राइवेट लिमिटेड
1203	U45200AP2008PTC057518	सनस्पेस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1204	U24239AP2000PTC033236	सुप्रीम हेल्थकेयर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1205	U45201AP2001PTC036737	ऑनोक्स एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1206	U72200AP2000PTC033995	विजडन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1207	U60231AP2007PTC053055	पैसिफिक कार्गो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1208	U45200AP1993PTC016718	अफ्रा कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.
1209	U45200AP2001PTC037042	साई प्रकाश फार्म हाउस एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1210	U72200AP2007FTC052948	पिक्सल साइबर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1211	U72200AP2006PTC051657	इंप्रोफी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1212	U92114AP1997PLC026589	प्रतिभा मल्टीमीडिया लिमिटेड
1213	U27109AP2005PTC046305	जीबीआर आइरन एंड स्टील कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1214	U99999AP1976PTC002019	डेक्कन एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.
1215	U70102AP1996PTC025415	चपलमाडुगू एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1216	U24230AP1995PLC022033	अवंती लेबोरेटरीज लिमिटेड
1217	U27106AP1995PTC021681	वेद आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1218	U99999AP1995PLC020187	मेगानेट केबल सिस्टम्स लिमिटेड
1219	U85110AP1997PTC028362	कलिंग मल्टिमेडी स्पेसियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
1220	U92111AP2004PTC044684	कलपतरू मूवी मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड
1221	U72200AP2004PTC044600	केयर ऑरिजिन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1222	U52520AP2003PTC041295	वेनिस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
1223	U72900AP2002PTC039384	इन्गूगा प्रोसेस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1224	U70102AP2006PTC048654	हीलपैराडाइज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1225	U70102AP2007PTC052825	गेगरी एवेन्यूज प्राइवेट लिमिटेड
1226	U72200AP2007PTC055151	वल्ली सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1227	U52520AP2004PTC044168	सन सेवन इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1228	U72200AP1999PLC032791	उन्नति इन्फोटेक लिमिटेड
1229	U72200AP1997PTC027337	ओरियन पोलरिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1230	U45200AP2004PTC044489	मयूरी मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1231	U65929AP1994PTC019092	सुभोदया क्रेडिट एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1232	U27106AP2001PTC037138	क्लॉक स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
1233	U74999AP2000PTC033783	ईस्ट कोस्ट सी फुड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1234	U74140AP2005PTC048412	कैल्विन कंसल्टेंसी (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड
1235	U32204AP1999PTC032180	अग्नि केबल प्राइवेट लिमिटेड
1236	U64203AP1995PTC020722	नेक्सस इंफॉर्मेशन सर्विसेज कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
1237	U72200AP2005PTC048082	वर्तुसो इंफोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1238	U65990AP1983PTC004332	इनलैंड स्टॉक ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
1239	U24134AP1997PTC027228	वामा पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
1240	U01119AP2002PTC038917	पवित्रा सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
1241	U72200AP2000PTC034919	ई- डेन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1242	U92199AP2005PLC045571	रेड कार्पेट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
1243	U24116AP1988PTC009365	वाइव ऑर्गेनिक्स प्रा.लि.
1244	U80212AP2007PTC054025	ई.पी.आर. प्राइवेट लिमिटेड स्कूल
1245	U45200AP2005PTC045825	गौतमी प्रीफैब इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
1246	U93090AP2007PTC052605	कोरलसॉफ्ट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1247	U70102AP2004PTC042582	नुकलपती रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1248	U14102AP1998PTC029242	विन्नाकोटा रॉकस प्राइवेट लिमिटेड
1249	U65993AP1994PTC017436	एसएमसी फायनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1250	U27100AP1996PLC023224	टी जी वी स्टील्स लिमिटेड
1251	U74900AP2007PTC054666	एचएल इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1252	U40109AP2006PTC051396	जैस्पर पॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1253	U24231AP2000PLC033342	महालक्ष्मी ड्रग्स लिमिटेड
1254	U36911AP2005PTC046568	आई.पी. एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1255	U25209AP1988PTC008611	हाई-प्लास्ट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1256	U52520AP1978PTC002332	हैदराबाद इंडस्ट्रियल मार्केटिंग एंड प्रमोशनसर्विसेज प्रा.लि.
1257	U65992AP1989PTC010097	जनहिता चिट फंड्स प्रा.लि.
1258	U28110AP1999PTC032053	श्री भवानी रिट्रीयड्स प्राइवेट लिमिटेड
1259	U52520AP2002PTC039409	डिसिसीव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1260	U85195AP2003PTC041043	सॉनेट डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1261	U74120AP2006PTC051387	पेगासस फुड एंड बेवरेज्स प्राइवेट लिमिटेड
1262	U70102AP2007PTC052828	मिन प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
1263	U40100AP1990PTC011888	पिट्टी पॉवर हाउस प्राइवेट लिमिटेड
1264	U92110AP2004PTC043482	तेलुगु सिनेमा इंटरटेनमेंट प्रा.लि.
1265	U26105AP2005PTC046500	एसआरवी फुड टेक्नोलोजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1266	U92114AP2002PLC039253	ग्लोबल टेलीप्लेज एंड इंटरटेनर्स लिमिटेड
1267	U72200AP2004PTC042795	एल्टस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1268	U72200AP2006PTC050157	आई टैक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1269	U21020AP1981PTC003244	कॉनकाई कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
1270	U61200AP2008PTC060928	वी.एल.पी.एस. शिपिंग लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1271	U72200AP1994PTC017948	राजमुंदरी कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
1272	U18101AP2009PTC063456	ब्लिस फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1273	U74999AP2010PTC066662	विंग्स ब्रांड्स एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
1274	U01100AP2005PTC045229	गीन अर्थ एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1275	U80302AP2008PTC060486	वी.जे. एजुकेशनल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1276	U15500AP2009PTC063163	आर.आर. अरोमास बिबरेजेस एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1277	U13209AP2009PTC064894	हर्ष माइन्स एंड मिनरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1278	U45400AP2008PLC059185	अशोका सिटाडेल कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड
1279	U72200AP1997PTC027108	मैट्रिक्स माईडवेअर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1280	U15209AP2000PTC034838	श्री वेंकट कृष्णा साई मिलक लाईन प्राइवेट लिमिटेड
1281	U72200AP2005PTC046549	कोजेन्ट टेकसॉल प्राइवेट लिमिटेड
1282	U24232AP2008PTC057365	रोटोन फार्माटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1283	U55101AP1994PTC017635	एम एम फाइनांसियल.बी.साल्यूशन्स एंड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
1284	U55101AP2005PTC047635	मंत्रा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (पार्टIX)
1285	U45400AP2008PTC059784	डेक्कन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1286	U29190AP2001PTC037173	सेनसिक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1287	U45400AP2008PTC059447	कंटूर ब्लॉक्स एंड पेवर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1288	U51397AP2003PTC041254	अलंकृता एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
1289	U80300AP2001PTC036978	एसैंट प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1290	U74900AP2008PTC061546	टापेक्स (टी.ए.पी.ई. एक्स) इन्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1291	U72900AP2008PTC060174	राघवा साइबर पार्क प्राइवेट लिमिटेड
1292	U93000AP2007PTC056731	नार्वी (एन.ए.आर.व्ही.ई.ई.) कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1293	U92120AP2009PTC065905	शून्या डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
1294	U72200AP2003PTC041496	डिगीप्राइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1295	U27203AP1999PTC030934	अंश एल्यूमीनियम कवरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
1296	U65993AP1999PTC032205	श्रीचक्रराजमू चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1297	U70102AP2002PTC038797	एल .एस. हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1298	U65990AP1996PTC025107	श्रीसुभप्रिया चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1299	U51909AP2009PTC065629	होमाम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
1300	U51101AP2009PTC065634	लिओनिस (एल.ई.ओ.नि.आई.एस.) ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
1301	U22210AP2002PTC040166	ग्रोथिंक इंडिया पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड
1302	U01113AP2005PTC045577	एथनिक कॉटन प्राइवेट लिमिटेड
1303	U70102AP2007PTC056248	पिडुगुरल्ला (पी.आई.डि.यु.गी.यू.आर.इ.एल.एल.ए.) लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1304	U74140AP2008PTC058283	महा श्वेता प्रेसिजन इंजीनियरिंग वर्क्स एंड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1305	U74900AP2008PTC058929	बुकटूनेट स्कैनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1306	U72900AP2008PTC060963	वर्चुअलविजन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1307	U05000AP2010PTC069944	स्टार एक्वा फ्रीड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1308	U72200AP2008PTC057250	आई.आर. लिमिटेड सॉफ्ट इंडिया प्राइवेट
1309	U72200AP2008PTC059045	लील (एल.ई.ई.एल.) सॉफवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1310	U45200AP2008PTC058685	वेनसार (वी.ई.एन.एस.ए.आर.) होम्स प्राइवेट लिमिटेड
1311	U72900AP2008PTC061811	श्री एलियाने (ई.एल.आई.ए.एन.ई.) इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1312	U74999AP2009PTC064226	बनयान एंड ज़ेयास वेंचर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
1313	U72900AP2009PTC066148	बनयान एंड ज़ेयास इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
1314	U72200AP2010PTC068209	पिकटेक आई.टी. सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1315	U72200AP2005PTC048240	आईनेटसीजर्स (आई.एन.ई.टी.सी.जेड.ए.आर.एस.) सॉफटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1316	U24230AP1994PLC018567	न्यू एरा लैबोरेटरीज लिमिटेड
1317	U45200AP2008PTC058058	इकोसेफ इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
1318	U72900AP2008PTC059004	सुमंत्रा इन्फो सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1319	U23209AP2008PTC061737	बेट गार्डआटेक (जी.ए.आई.आ.टी.ई.सी.एच.) फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
1320	U25200AP2011PTC072888	भवानी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1321	U40108AP2008PTC061682	पालिंग पावर प्राइवेट लिमिटेड
1322	U40108AP2008PTC061685	माथुली पावर प्राइवेट लिमिटेड
1323	U40108AP2008PTC061680	इथुन (आई.टी.एच.यू.एन.) पावर प्राइवेट लिमिटेड
1324	U40109AP2008PTC061679	डी.आर. आई पावर प्राइवेट लिमिटेड
1325	U40108AP2008PTC061678	ए.एच.आई. एपावर प्राइवेट लिमिटेड
1326	U32204AP2010PTC070087	लोबिटो मोबीटेक प्राइवेट लिमिटेड
1327	U40108AP2011PTC074701	देसाली पावर प्राइवेट लिमिटेड
1328	U40108AP2011PTC074700	हुनली पावर प्राइवेट लिमिटेड
1329	U40108AP2011PTC074709	रोइंग पावर प्राइवेट लिमिटेड
1330	U40106AP2008PTC061367	आदित्य सोलरटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1331	U40102AP2007PTC053307	के.आर.सी. पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1332	U14200AP2008PTC057160	मैट्रिक्स माइन्स प्राइवेट लिमिटेड
1333	U01403AP2010PTC067092	युनिक गार्डन मॉल प्राइवेट लिमिटेड
1334	U74300AP2010PTC068648	गोडिजिटल मीडिया ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड
1335	U51909AP2010PTC070536	ध्रिशी (डी.एच.आर.आई.एस.एच.आई.) ट्रेडिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1336	U01119AP2002PTC038799	सदर्न सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
1337	U24239AP1983PTC004034	फेयरचाइल्ड लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
1338	U72100AP1993PTC016400	एस.एन.एस. कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1339	U15499AP1991PTC013409	बंटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1340	U74999AP2007PTC055697	शिवा शिवानी मैन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1341	U13200AP2008PTC059453	श्री आदित्य सैंड एंड मिनरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1342	U45200AP2003PTC040794	चैतन्य मंजरी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1343	U85110AP2012PTC080672	ओक्यूकेयर मेडिकल सेंटर हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड
1344	U55101AP2008PTC057058	पिच हॉस्पिटलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1345	U40104AP2008PTC058853	मणिराम पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1346	U40300AP2008PTC058094	कृषि एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
1347	U40108AP2008PTC058051	मंजू पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1348	U85100AP2012PTC079408	ओक्यूकेयर मेडिकल सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1349	U26942AP2011PTC074920	अवानी सिमेंट्स (एपी) प्राइवेट लिमिटेड
1350	U74910AP2009PTC066465	स्टडेरिया प्लेसमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1351	U80301AP2009PTC066204	ग्लोबेट यूनिवर्सिटीज एनरोलमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1352	U26940AP2011PTC072897	लेखा सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1353	U63020AP2010PTC069773	चंदामामा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1354	U72200AP2001PTC037031	जेनॉन नेट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1355	U70102AP2005PTC047247	जगपति एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1356	U72200AP2010PTC068760	अभिनंदन मून पिक्सेल स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
1357	U40300AP2010PTC068265	सुवन पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1358	U74999AP1994PTC018414	श्री सुवेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
1359	U45200AP1993PTC015932	सेलेक्ट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1360	U74140AP2005PTC052321	जयसिंह माईड डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1361	U70102AP2007PTC056783	एनेन डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1362	U45209AP2007PTC056757	एनेन इंफ्राप्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1363	U15122AP2011PTC073957	सौरी फीड प्राइवेट लिमिटेड
1364	U74900AP2008PTC058519	पर्स प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
1365	U01403AP2007PTC055140	श्री जीबीएस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1366	U92112AP2004PTC044348	ई.एम.ई.डी.आई.ए.आर.ए.जे. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1367	U65992AP1996PTC023404	स्वर्ण शक्ति फायनांस एंड चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1368	U65992AP2000PTC034260	उषा कृष्णास चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
1369	U17299AP2006PTC051800	श्री ओंकारेश्वरा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
1370	U72900AP2009PTC062627	राब्रोसोफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1371	U17200AP2009PTC066315	जी.एस.आर. स्पिनटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1372	U21029AP1994PTC017765	प्रकाशम पल्वराइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
1373	U72200AP2007PTC055515	इन्फोडायल टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
1374	U70109AP2009PTC064829	गुड शेफर्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1375	U26931AP1980PTC002605	सोमण्णा इस्पात ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1376	U72200AP2002PTC039006	टेक्नोकॉर्पोसॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
1377	U72200AP2001PTC036373	सत्या टेक्नो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1378	U70102AP2010PTC066585	वेडूला रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1379	U74999AP2011GOI072192	उत्तारबंगा आर.आई.एन.एल. रेल कारखाना लिमिटेड
1380	U72200AP2004PTC043647	पल्ला आई.टी. ऑब्जेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1381	U72200AP2007FTC056500	आई.टी.ऑब्जेक्ट्स सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1382	U25200AP2012PTC078378	टी वी प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1383	U15499AP2006PTC050480	फाउंटेन चॉकलेट प्राइवेट लिमिटेड
1384	U72200AP2000PTC033726	वाल्टेयर इन्फो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1385	U85110AP2001PTC036879	श्रीकाम हेल्थकेयर एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
1386	U72200AP2005PTC048474	लॉजिकगेट्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1387	U51311AP2006PTC050262	टेस्साईल एक्विजम प्राइवेट लिमिटेड
1388	U72200AP2011PTC077897	ऐश्वर्या इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1389	U45200AP1988PTC008194	मुथावरापू बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
1390	U15143AP1991PTC012622	स्वर्ण आयल्स प्राइवेट लिमिटेड
1391	U72200AP1999PTC032527	एम.नेट.एस. कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
1392	U01119AP2005PTC046466	अवंती पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1393	U18100AP2006PTC049367	विजयलक्ष्मी मल्टी टेक्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1394	U72200AP2006PTC050792	जी.डी.ई.एस. टेक प्राइवेट लिमिटेड
1395	U72200AP2006PTC050810	ओमेगा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1396	U40102AP2008PTC057316	एस.सी.एल. पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1397	U72200AP2009PTC066482	ए.एच.आई.टी. टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1398	U80302AP2008PTC060604	गौतम ई.डि.यू. इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
1399	U85110AP2001PTC038186	क्वालिटी केयर हेल्थ सिटी प्राइवेट लिमिटेड
1400	U01119AP2010PTC067888	लक्ष्मी नरसिम्हा हैचरीज प्राइवेट लिमिटेड
1401	U40109AP2008PLC060399	सुजाना ट्रांसमिशनस लिमिटेड
1402	U74120AP2011PTC073294	मेडिसिटी न्यू बॉर्न केयर प्राइवेट लिमिटेड
1403	U72200AP2006PTC049382	पाटिल वोस्स्तोह रेल आई.टी. सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1404	U05005AP1993PTC016104	पाटिल एक्वा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1405	U35204AP2005PTC045452	इंडो जर्मन कंक्रीट टाईज प्राइवेट लिमिटेड
1406	U72200AP2004PTC044109	ए.एम.यू. सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1407	U45400AP2008PTC057019	तिरुमला इन्फ्राटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1408	U51909AP2008PTC058593	आर्चिज मिनरल्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1409	U74210AP2008PTC059795	मेजर फ्लोरिंग एंड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
1410	U40101AP2010PTC069066	सात्विक सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
1411	U52100AP2010PTC069436	सर्व शक्ति होम निड्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1412	U74140AP2010PTC068469	विन्को वेंचर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1413	U72200AP2006PTC049462	एस.ओ.एल. मिल्लेन्निया कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1414	U74990AP2011PTC072714	सेटो डिजाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1415	U72200AP2000PTC034048	माइक्रोकॉस्म इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1416	U74999AP2006PTC050940	एक्टिव इको क्लाइमेट इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1417	U92190AP2007PTC055243	तिरुमला थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1418	U45400AP2007PTC054903	जी.आर. प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1419	U74140AP2006PTC048691	धर्मा टेक्नो-लीगल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1420	U70102AP1997PTC026203	नवकिरण इस्टेट्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1421	U24239AP2003PTC042229	वियाथ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1422	U65910AP1996PLC025286	किरण होम फाइनेंस लिमिटेड
1423	U05005AP1989PTC010089	प्रियांश सी फूड्स प्रा.लि .

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1424	U72200AP2008PTC057256	एस.वाई.जी.एस. सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1425	U72200AP2008PTC060428	मंजीरा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1426	U24230AP2005PTC045801	मार्कवेल लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
1427	U74999AP2007PTC054635	अनुरत्न एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1428	U24110AP1989PTC009960	निप्पॉन प्लांट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1429	U01119AP1988PTC009166	कर्षक एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड.
1430	U60200AP2011PTC076684	मात्रूश्री ट्रान्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1431	U55101AP1999PTC032586	एन.वी.के.आर. होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1432	U72200AP1999PTC031746	बेथापुडी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1433	U99999AP1971PTC001397	फेब्रीकॉन प्राइवेट लिमिटेड
1434	U72900AP2008PTC059984	गीन मैंगो ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1435	U29253AP2007PTC053414	लिबर्टी हैवी इंजीनियरिंग (इक्विपमेंट्स) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1436	U14200AP2007PTC056233	विजयकृष्णा रॉकसेंड प्राइवेट लिमिटेड
1437	U10102AP2004PLC047536	किनेटा मेटकांक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
1438	U72100AP2006PTC050422	लोकेश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1439	U74999AP2008PTC059099	किनेटा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
1440	U27310AP2011PTC077662	पिट्टी फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड
1441	U70102AP2007PTC055503	पीपल रियल्टी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1442	U72200AP2007PTC053481	पुण्यभूमि मीडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
1443	U67190AP2009PTC063031	चिंता सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1444	U52332AP1998PTC028960	कोणार्क रेफ्रिजरेशन अप्लायन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
1445	U34102AP2004PTC042860	तपस्वी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1446	U72200AP2005PTC047249	द्विता टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1447	U74900AP2009PTC065730	एल्गोरिथम एच.आर. सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1448	U80102AP2006PTC050783	एबीसी चाइल्ड केयर एंड नॉलेज सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
1449	U70102AP2007PTC055802	धात्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
1450	U70102AP2007PTC056732	भविष्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
1451	U55101AP2003PTC041465	बी.वी.एस. पावर प्राइवेट लिमिटेड
1452	U74999AP2008PTC058212	स्काईट एक्स्पॉर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
1453	U21000AP2008PTC059030	निओनेट पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1454	U01119AP2009PTC064228	ए.बी.एस. सीड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1455	U72900AP2010PTC066622	टेकस्मार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1456	U60231AP2008PTC060374	रेडियल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1457	U14290AP2008PTC062405	वी.आर.एस. माइन्स मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1458	U74120AP2007PTC054840	मैक्स 5मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1459	U01403AP2009PTC064971	रामटेक सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
1460	U18109AP2011PTC072717	ला-वेलेंटिनो गारमेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1461	U74900AP2010PTC070600	आर.के.जी. रिसर्च सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1462	U72200AP1998PTC030328	विकास इंस्टीच्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1463	U24211AP2004PLC044304	के.आर.के. बायो-टेक लिमिटेड
1464	U70102AP2005PTC048168	गणपती डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1465	U45400AP2007PTC053710	प्रवासू कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1466	U17200AP2008PTC057009	केहार टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
1467	U45200AP2008PTC058747	ट्यूडर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1468	U72300AP2008PTC060951	फोर एस डेटा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1469	U74999AP2006PTC050950	एम.आर. इंटीग्रल ट्रेडिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1470	U72200AP1998PTC028738	बी.एम.आई.टी. सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1471	U72200AP2011PTC074461	विल्को सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1472	U52510AP2004PTC043001	ऐश्वर्या नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
1473	U85110AP2002PTC040092	जी.वी.आर. हास्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1474	U70102AP2006PTC050277	शंकेश्वर एगो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1475	U13202AP2008PTC057398	मैट्रिक्स मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1476	U18100AP1989PTC009691	ऑकारेश्वर स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1477	U72200AP1998PTC028739	साइबर नेटिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
1478	U45209AP2008PTC061798	निहारिका इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1479	U74200AP2004PTC044544	एन .टी.आर.टी.ई रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1480	U72200AP2008PTC058258	बीम बी.सी.एस. सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1481	U72200AP2007PTC056602	एलिक्सिस इन्फो सॉफ्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1482	U74140AP2006PTC048812	जुरीस्प्राइम कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1483	U15541AP1997PTC027996	सिको फुड्स एंड बिबरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
1484	U85110AP1987PTC007928	भारद्वाज हास्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1485	U72900AP2002PTC039117	पी.एस.ई. इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1486	U17121AP2008PTC058485	अमृत कोटगिन प्राइवेट लिमिटेड
1487	U01403AP2008PTC060596	जय श्री नवदुर्गा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1488	U45205AP2008PTC060060	श्रीजा एग्री इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1489	U45209AP2008PTC061345	हंसोन इन्फ्रावैचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1490	U13203AP2010PTC069582	आर.आर.आर. मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1491	U72909AP2011PTC075235	इको स्टार्ट इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1492	U74993AP1970PTC001332	समाण्टो लेमीनेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1493	U93000AP2008PTC060882	पाकर्स एडवायजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1494	U15203AP2008PTC060880	पार्क डेयरी एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
1495	U15122AP1986PLC006217	श्री सीतारामा अन्नपूर्णा सी फुड्स लिमिटेड
1496	U15142AP1995PTC019466	अनघा ऑयल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
1497	U25200AP1998PLC029518	प्रणवनघा प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड
1498	U74900AP2007PTC055221	गोल्ड फिश टूर्स एंड ट्रेवेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1499	U74999AP2006PTC050441	तैमीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1500	U32204AP2008PTC061460	इंकार्प इन्फ्राटेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1501	U67120AP1996PLC023045	श्री कन्यका सिक्युरिटीज लिमिटेड
1502	U01134AP1995PTC021800	क्राउन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1503	U22110AP1995PTC020938	अनु पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1504	U74999AP2010PTC066759	आर.पी.डी. केटेलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड
1505	U45400AP2007PTC053896	प्रजय अर्णव शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
1506	U55101AP1994PLC018994	प्रजय रिसॉर्ट्स एंड होटल लिमिटेड
1507	U45200AP2007PLC052800	प्रजय रिसॉर्ट्स एंड एम्यूसमेंट पार्क लिमिटेड
1508	U45200AP2007PLC052753	प्रजय कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड
1509	U70102AP2007PTC052503	प्रजय ए.आर.आर.एफ. एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1510	U55101AP2007PLC053789	प्रजय होटल्स लिमिटेड
1511	U72200AP2007PTC053280	प्रजय टेक पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड
1512	U45200AP2007PTC053276	प्रजय टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड
1513	U70102AP2007PTC053232	प्रजय रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
1514	U74300AP2010PTC071262	आर.ई.वी. मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
1515	U14102AP1990PLC011621	मुमल ग्रेनाइट्स लिमिटेड
1516	U72200AP2008PTC057024	कॉजवे सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1517	U72200AP2000PTC034718	एसकॉर्प सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1518	U40109AP2006PTC048861	पतनाम पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1519	U45200AP2008PTC059718	सत्यवाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
1520	U85110AP2008PTC058998	सत्यवाणी ग्लोबल हेल्थ स्प्रींग्स प्राइवेट लिमिटेड
1521	U35100AP2010PTC070366	अलेन मेरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1522	U45200AP2007PTC052760	एस.एस.पी.डी.एल. मैट्रिक्स टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
1523	U45200AP2006PTC051385	कोल्लूर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
1524	U24210AP2005PLC047280	मेकिस बायोटेक लिमिटेड
1525	U22110AP1997PTC028029	ओ.एम. बुक्स प्राइवेट लिमिटेड
1526	U24239AP2008PTC059360	वीबीएफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
1527	U70102AP1997PTC028122	एसकेएल प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1528	U72200AP2001PTC037827	बी.जी. सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1529	U72200AP2007PTC054606	सनडायल इंफोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1530	U13209AP2006PTC050861	एस.ए.मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1531	U72200AP2001PTC037179	सेनटेलियम सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1532	U72200AP2005PTC047478	मेटिस इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड
1533	U72200AP2009PTC065447	वार्विन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1534	U25114AP1995PTC019409	सुपरफाईन रीट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
1535	U72200AP2000PTC034944	ब्लू लोटस इंफोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1536	U72200AP2000PTC034658	इन्फो डायमेंशन्स बिजनेस इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
1537	U24239AP2004PTC044563	सन लाइन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
1538	U18100AP2006PTC051473	श्रीमन्नारायणा सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
1539	U24230AP1993PTC016135	अस्क्लेपियस इम्यूनो टेकप्राइवेट लिमिटेड
1540	U72200AP2000PTC033239	एटवानटेज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1541	U29309AP2006PTC048885	अदिला पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1542	U24232AP2008PTC062007	के.आर.आर. प्राइवेट लिमिटेड फार्मास्यूटिकल्स
1543	U70102AP2008PTC061194	के आर आर इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
1544	U40109AP2008PTC061017	अष्टलक्ष्मी पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1545	U72200AP2007PTC052866	लीमोन इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1546	U24219AP1990PTC011295	वीआईपी सेल्स एंड पेस्ट कंट्रोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1547	U45200AP1995PTC021246	आश्रया हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1548	U15420AP1976PTC002005	दामेरा शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
1549	U62200AP2008PTC058746	श्री विगनेश्वरा एअर लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
1550	U72200AP2010PTC069308	स्मार्ट जीनियस सॉफ्टवेक प्राइवेट लिमिटेड
1551	U72900AP2008PTC059035	बुड्डीबोट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1552	U70102AP2008PTC060208	ग्रीनफील्ड्स लैंडस्केप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
1553	U93000AP2009PTC062809	एरियन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1554	U55101AP2005PTC046724	महानगर फोरेक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1555	U93000AP1994PTC018053	विमल सेल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1556	U55101AP2001PTC036058	सिद्धी विनायका होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1557	U45204AP2007PTC053145	इमारत हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1558	U45400AP2008PTC061827	धरानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
1559	U90001AP2010PTC070801	विश्वा इन्फ्रा यूटीलिटीज (कोल्हापुर) प्राइवेट लिमिटेड
1560	U24219AP1997PTC028418	नवीन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1561	U74140AP2003PTC041215	एक्पैन प्लेसमेंट एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड
1562	U72900AP2000PTC035849	सिडप्रो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1563	U15499AP2005PTC048569	वैकीज स्पाइस हाउस एक्विजि प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1564	U17122AP2008PTC058088	तिरुमला टेक्स फैब्स प्राइवेट लिमिटेड
1565	U15143AP1999PTC031447	विशाल संदीप ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड
1566	U01119AP2005PTC046270	विजया साई लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
1567	U74900AP2007PTC056459	तिरुमला मिनरल वाटर प्राइवेट लिमिटेड
1568	U63022AP2010PTC067045	मोटूपल्ली कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
1569	U51909AP2010PTC071010	नागा साई एगो ऑयल्स एंड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
1570	U65992AP1991PTC012898	धनवृद्धि चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1571	U72200AP2004PTC043293	जीएचपी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1572	U51909AP2006PTC050140	रेखा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
1573	U72200AP2006PTC051119	सिग्नलकोर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1574	U45203AP2008PTC058480	अर्का इंफ्रावैचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1575	U45209AP2009PTC064946	बीएमआर प्राइम स्पेश प्राइवेट लिमिटेड
1576	U72200AP1996PTC023608	भरतरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1577	U63040AP2005PTC046923	फेयरवन ट्रेवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1578	U40104AP2007PTC056272	अंजली रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
1579	U45203AP2008PTC060370	तेजाश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1580	U24297AP2006PTC050862	सालिपोल बायोसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड
1581	U40108AP2008PTC061384	कैपरी एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1582	U36104AP2009PTC064171	वाइजाग फोम प्राइवेट लिमिटेड
1583	U24232AP2010PTC068912	मिलेनिया एगो प्राइवेट लिमिटेड
1584	U01119AP2007PTC056032	सेपिया एगोफार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1585	U72200AP2005PTC045932	एफ एस सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1586	U27100AP2010PTC066534	सेंटिनी पाउस्टेल प्राइवेट लिमिटेड
1587	U63032AP2007PTC056539	सेंटिनी लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1588	U74900AP2008PTC059901	सिरी टेकोन प्राइवेट लिमिटेड
1589	U72200AP2007PTC055953	ऐस्पायर एनीमेशन प्राइवेट लिमिटेड
1590	U72200AP2012PTC080439	संविधा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1591	U74999AP2008PTC059349	नानो एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
1592	U93000AP2008PTC059352	नानो इंश्योरेंस सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
1593	U01210AP2008PTC061131	डेक्कन डक्सशेड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1594	U15490AP2009PTC063101	डेक्कन डक्स सेल्स एंड फुड्स प्राइवेट लिमिटेड
1595	U01119AP2009PTC065102	डी डी एस एगो फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1596	U72300AP2009PTC062947	जीरो डिफेक्ट सॉफ्टवेयर लैब्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1597	U72200AP2006PTC050525	लिबस्यस सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1598	U72200AP2009PTC064623	श्रीलैक्स इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1599	U64203AP1999PTC031007	मैग्ना कॉम प्राइवेट लिमिटेड (हैदराबाद)
1600	U70102AP2007PTC053534	सिटी स्पेस एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1601	U74900AP2007PTC056528	गोल्ड मेडल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1602	U93000AP2009PTC062509	हैदराबाद रोटेक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1603	U22219AP2011PTC075805	डीकैंग मीडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1604	U72200AP2000PTC034918	माइंडवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
1605	U52520AP1989PTC010465	फरमान मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1606	U24239AP2000PLC035648	प्लेटिना हेल्थ टूरिज्म लिमिटेड
1607	U45200AP2007PTC052508	मेटास हिल काउंटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1608	U45200AP2008PTC057711	मेटास टावर्स प्राइवेट लिमिटेड
1609	U74900AP2008PTC060497	मेटास स्टार डिस्ट्रिक्ट क्लिंग प्राइवेट लिमिटेड
1610	U70102AP2008PTC062072	चेन्नई साउथ सिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1611	U93000AP2008PTC062132	लेवाना कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1612	U45400AP2008PTC061569	मेटास रिटायरमेंट होम्स प्राइवेट लिमिटेड
1613	U45400AP2008PTC061570	मेटास एफारडेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड
1614	U55101AP2008PTC061562	मेटास होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1615	U24239AP2005PTC046555	एक्सपिकोर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
1616	U65910AP1994PLC017423	विक्रमशिला फायनांस एंड लीजिंग लिमिटेड
1617	U74210AP2004PTC043525	वर्मा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
1618	U45200AP2006PTC051491	श्री भूपति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
1619	U85100AP2008PTC058341	वंसा हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
1620	U01119AP2008PTC058580	विवोजेंट बायोसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
1621	U33110AP2009PTC063383	विसिस्ता हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1622	U74999AP2010PTC066780	विष्णु टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1623	U29219AP2010PTC070782	डेल्टा टेक्नोबिज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1624	U01135AP2008PTC059546	रेड चिल्ली स्पाइसेज प्राइवेट लिमिटेड
1625	U50300AP1985PTC005264	चेल्लानी इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
1626	U74140AP2008PTC058621	यूनिक कैरियर गाइडेंस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1627	U45209AP2008PTC060524	तरुणिका इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1628	U72900AP2008PTC060006	मैक्विन इंफारमेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड
1629	U29150AP2004PTC043532	एक्स्पेंडिंग हाइड्रोलिक मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड
1630	U17120AP2008PTC062359	गदकुअर गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1631	U74999AP2008PTC058551	पी जे पी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1632	U74200AP2004PTC044807	टेरे टेक्नोलॉजीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1633	U72200AP2008PTC058145	श्रद्धा इंफारमेशन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1634	U74999AP1996PTC025674	अवेलेक प्रोजेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
1635	U25209AP1997PTC027934	दिगिप्रो प्रोजेक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1636	U27109AP2007PTC055743	शास्ता एसियर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1637	U85110AP2008PTC057629	शास्ता हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च इस्टैबलिशमेंट प्राइवेट लिमिटेड
1638	U01403AP2008PTC059384	शास्ता बायोआर्गेनिक-फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
1639	U72200AP2008PTC057748	नुर्वेसिज वेबटेक प्राइवेट लिमिटेड
1640	U74900AP2009PTC064357	श्री ललिता त्रिशक्ति सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1641	U52520AP1991PTC012567	अट्टाई सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
1642	U45400AP2007PTC054793	आर्म्सबर्ग प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
1643	U74300AP2003PTC041333	क्लिक्ज कन्सुल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1644	U15424AP2006PTC051843	अल्लेती शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
1645	U74900AP2008PTC059594	मेगावैल्यू मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1646	U01403AP2008PTC058669	सनातना एगो टेक प्राइवेट लिमिटेड
1647	U74999AP1984PLC005124	एन सी सी टी लिमिटेड
1648	U72200AP2004PTC043168	श्री वैकटेश्वर कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
1649	U27300AP2008PTC056931	श्रीका कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
1650	U65999AP2009PTC065775	वेलप्वाइंट मापे इन्वेस्टमेंट्स मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
1651	U05005AP1991PLC013610	ट्रिडेंट मेरीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड
1652	U45203AP2007PTC054717	जी एस आर वाटर इंफ्राकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1653	U72200AP2008PTC058960	इडोनेअस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
1654	U74900AP2009PTC063073	गंगाधर सिक्योर इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
1655	U51390AP2001PTC037144	सीक्रेस्ट इम्पेक्स लिमिटेड प्राइवेट (इंडिया)
1656	U72200AP2008PTC058650	एपेक्स इनफार्मेटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1657	U01403AP2011PLC076415	शमंता एगो लिमिटेड
1658	U65992AP1985PTC005889	रेचर्ला चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1659	U22110AP1989PTC009936	न्यूज बैंक इनफार्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड.
1660	U70100AP1998PTC028957	सर्वागण निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
1661	U15326AP2008PTC061264	अवा स्पेशलिटी फैट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1662	U72300AP2008PTC061128	औक्सिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
1663	U45209AP2011PTC076119	वसति अवन्ते हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1664	U45209AP2011PTC076118	वसति येलाहंका हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1665	U41000AP2007PTC053191	श्री वंसी एक्वा प्राइवेट लिमिटेड
1666	U11100AP2010PTC067219	ओक्टेड पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1667	U72200AP2007PTC052875	प्रिउस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1668	U40108AP2010PTC068339	सागेस ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1669	U63012AP2005PTC045227	मेरीटाइम प्रोफेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1670	U45200AP2007PTC053604	मैक इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
1671	U85100AP2010PTC067822	सिन्धुरा हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
1672	U74999AP2010PTC071492	ए वी आर कॉरपोरेट लॉ कंसल्टेंट्स एंड ईएडवाइजर्स प्राइवेट-लिमिटेड
1673	U52520AP2003PTC040772	संस्कृति स्टोर्स लिमिटेड
1674	U51909AP2003PTC041567	सेमाफोर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1675	U85110AP2003PTC042152	यु सी एच हेरिटेज हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
1676	U17120AP2005PTC048209	विनी कोल्लेजिओन प्राइवेट लिमिटेड
1677	U72100AP2001PTC085014	सिंक्रोन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1678	U01122AP1996PLC025294	क्रांस बायो-टेक लिमिटेड
1679	U93000AP2008PTC057350	इनक्यूबेक्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1680	U72100AP2006PTC050401	कोए सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड
1681	U24232AP2007PTC055543	शारदा स्वदेशी रिमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
1682	U72900AP2005PTC047412	एसवी कम्पोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1683	U72200AP2007FTC055858	पेमेंट कार्ड प्लैटफार्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1684	U74140AP2005PTC048102	एम वी पी ट्रेडिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
1685	U13100AP2010PLC071806	कडलि माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड
1686	U72200AP2008PTC058878	यूआईबीआई इन्नोवेशनस प्राइवेट लिमिटेड
1687	U72200AP2005PTC045151	डिप्ला टेक्नो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1688	U40102AP2008PTC060341	वीएसएस श्री एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1689	U72200AP2001PTC036200	हेलो ई सॉल्यूशंस-प्राइवेट लिमिटेड
1690	U51100AP2005PLC048543	जेएमडी कमोडिटीज लिमिटेड
1691	U24110AP2007PLC056190	अमेज़ केमिकल मार्केट लिमिटेड
1692	U23209AP2008PTC061170	राहुल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1693	U72200AP2008PTC062187	रेकोन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
1694	U74900AP2008PTC059648	एस्ट्रा टेक्सर्व प्राइवेट लिमिटेड
1695	U74900AP2008PTC059519	रुबीकॉन टेक्सोल प्राइवेट लिमिटेड
1696	U17121AP2007PTC054000	देव कॉट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1697	U21029AP2007PTC054906	एथनिक मेटल्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
1698	U72200AP2007PTC055635	सनरिज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
1699	U74900AP2008PTC058600	क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1700	U74140AP2000PTC035428	अग्रवाल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1701	U65992AP1996PTC025455	ग्रैंड विले चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड
1702	U85100AP2009PLC066073	मारसेन हॉस्पिटल्स लिमिटेड
1703	U72200AP2008PTC058168	प्रकृति सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1704	U74999AP2008PLC059116	डायमण्ड लाइफ पैन इंडिया प्रॉपर्टीज लिमिटेड
1705	U45400AP2008PTC059908	मायफेयर हनसोन होम्स प्राइवेट लिमिटेड
1706	U24239AP2004PTC042510	इंडिकस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
1707	U24239AP2003PTC042331	राल्फ हैरिस मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
1708	U40102AP2010PTC067533	हेलियस पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1709	U40101AP2010PTC068216	जीएनके पावर प्राइवेट लिमिटेड
1710	U72200AP2000PLC034589	ई टैलेंट सॉफ्टवेयर लिमिटेड
1711	U45200AP2007PTC052949	संदीप रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1712	U27100AP2008PLC060476	बोल्लिनेनि स्पंज आयरन लिमिटेड
1713	U01119AP1993PTC015978	कुमुदवती टीक प्लांटेशनस प्रा.लि .
1714	U74999AP2007PTC052340	सैनस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1715	U74999AP2007PTC055512	वर्मा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1716	U72400AP2005PTC045500	आगामी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1717	U26990AP2007PLC055860	डी एस सी सीमेंट लिमिटेड
1718	U63040AP2004PTC043369	वर्चुअल फंक्शन हॉल्स प्राइवेट लिमिटेड
1719	U72200AP2006PTC050811	यशस्वी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1720	U24232AP2007PTC052220	एक्ससेसर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
1721	U67120AP1999PTC031551	ए वीआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड .
1722	U72200AP2008PTC059732	ईमार्केट इन्वोवेशन्स सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1723	U72200AP1983PTC004231	बीकोन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
1724	U15419AP2002PLC039028	अंजनी बेकरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड
1725	U01400AP2010PTC068940	कक्कड़ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
1726	U72200AP2003PTC041600	वैष्णो कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1727	U45400AP2007PTC053681	अभिराम कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
1728	U93000AP2008PTC059828	देवरापल्ली हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1729	U45202AP2008PTC060106	नवोदय इन्फ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1730	U74200AP2004PTC044915	ड्रावस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
1731	U01119AP1994PTC018322	रानीत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड
1732	U40108AP2010PTC067338	नियोसोलर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
1733	U24239AP2004PTC043225	लैक्साई प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
1734	U18109AP2008PTC061869	आइकन ट्रिम्स प्राइवेट लिमिटेड
1735	U72200AP2005PTC047994	कैडेना सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
1736	U65993AP1981PTC002963	अहल्या एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
1737	U80300AP1993PTC016265	रवि अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
1738	U45400AP2007PTC056200	श्री शुभम शैल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1739	U28129AP1995PTC019789	बालाजी विराज कैन एंड कम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
1740	U72200AP2008PTC057948	ज़िपकोड टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1741	U26940AP2008PTC062368	वर्षा सीमेंट एंड पावर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
1742	U72200AP2007PTC053697	चाडा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
1743	U24110AP2009PTC066174	यूरोपियन फार्मूला बिल्डिंग एधेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड
1744	U45200AP2007PTC054214	अभिज्योति एस्टेट एंड इफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
1745	U74900AP2009PTC062768	लोगेक्ससॉफ्ट एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)
1746	U67190AP2008PTC062146	कोमबैंच फोरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
1747	U45209AP2007PTC056773	ड्रीम स्केपस इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
1748	U67100AP2009PTC065878	लस्ताकि इन्वेस्टमेंट एडवायजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1749	U85100AP2009PTC066409	वाई के एम श्रीनिवास हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
1750	U74210AP1993PTC016052	इवेलवेल इंजीनियर्स प्रा.लि .
1751	U80301AP2008PTC061048	के यू एजुकेशनस प्राइवेट लिमिटेड
1752	U63022AP1995PTC020967	परमेश्वरी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
1753	U21013AP2009PTC062674	हार्ड-टेक पेपर मिल्स (एपी) प्राइवेट लिमिटेड
1754	U15500AP2009PTC064751	मोटूपल्ली ब्याइल्ड राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड
1755	U74900AP2009PTC065262	जॉब हार्डिक रिक्रूटमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1756	U63022AP2010PTC069808	अमेरिकन कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
1757	U24239AP2004PTC044719	नेड फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
1758	U92100AP2008PTC061764	अर्का मोशन पिक्चर्स एण्ड स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
1759	U85100AP2010PTC066568	ए जे मेडसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
1760	U33203AP2006PTC050263	ऑप्टेक विजुअल इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
1761	U93000AP2008PLC061560	मेडसेवा इंडिया लिमिटेड
1762	U13203AP2007PTC053362	टाइडल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
1763	U45200AP2007PTC055464	व्याथ नेट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
1764	U60231AP2008PTC057424	पेरीटुस लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1765	U70102AP2007PLC052434	चमत्कार होम्स लिमिटेड
1766	U72200AP2007PTC054234	एटलस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
1767	U70102AP2007PTC053676	फ्रेस्को प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
1768	U74900AP2008PLC060161	वीटीएल प्रीमियर पायरोटेक्निक्स लिमिटेड
1769	U70102AP2002PTC038988	अरविंद हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
1770	U66030AP2008PTC060097	मेगावैल्यू इंश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
1771	U74140AP2000PTC035929	श्री विनायक डिस्ट्रीलरी एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
1772	U40105AP2008PTC057262	अल्ट्रा पावर प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
1773	U45203AP2010PLC068691	एचकेआर टॉलवेज लिमिटेड

क्रम सं.	कम्पनी का सिन	कम्पनी का नाम
1774	U72200AP2006PTC048993	माणिक सॉफ्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
1775	U10200AP2009PTC064478	जोर्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड

शशि राज दारा
उप कम्पनी पंजीयक
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले

हैदराबाद, दिनांक 17 जनवरी 2014

सं. आर ए पी/धारा 560 (5)/को-83/2014/एफटीई/वी वी आर आर—कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज दिनांक को रजिस्टर में काट दिये गये तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :—

क्र. सं.	फटीई/ईईएस	एस आर एन	सिन	कम्पनी का नाम	कम्पनी को विघटित किया गया दिनांक
01	एफटीई	B40155020	U61200AP2008PTC060928	वी एस पी एल शिपिंग लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
02	एफटीई	B31120868	U80302AP2008PTC060486	वी जे एडयूकेशनल कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
03	एफटीई	B63889992	U01407AP2008PTC061077	श्री सईलजा आगो फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
04	ईईएस1	B04163697	U01119AP2003PTC041364	वी.एस.उदयान प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
05	ईईएस1	B03605771	U92111AP1978PTC002381	जनप्रिया फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
06	एफटीई	B56915499	U65990AP1996PTC025107	श्री शुभप्रिया चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
07	एफटीई	B29124393	U51101AP2009PTC065634	लियोनिस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
08	एफटीई	B29123965	U51909AP2009PTC065629	होममं ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
09	एफटीई	B27156850	U65993AP1999PTC032205	श्री चक्राजमु चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
10	ईईएस1	B11055563	U15142AP1984PTC004506	रामा कोर्टन एण्ड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	08/06/2012
11	एफटीई	B28963429	U72200AP2010PTC068209	पीक टेक अईटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
12	एफटीई	B88190889	U92111AP2002PTC038333	आलया क्रिएशन्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
13	ईईएस1	B04173175	U67120AP2000PTC035763	अयेषा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
14	एफटीई	B67897413	U72200AP2000PTC035419	अईसोला इन्फोटेक (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
15	एफटीई	B68968387	U01119AP2007PTC055328	तक्शन आगो फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014

क्र. स.	फटीई/ ईईएस	एस आर एन	सिन	कम्पनी का नाम	कम्पनी को विघटित किया गया दिनांक
16	एफटीई	B68965532	U64200AP2005PTC045865	टेलिमा ट्रिक्स इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
17	एफटीई	B68981398	U34102AP2006PTC049453	मेदासनी ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
18	एफटीई	B31322704	U74300AP2010PTC068648	गोडिजिटल मीडिया ब्रंड्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
19	एफटीई	B29490877	U14200AP2008PTC057160	माट्रिक्स मैन्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
20	ईईएस1	B04341772	U20219AP2004PTC044272	कोरल मोड्यूलर फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
21	ईईएस1	B04338588	U14200AP2007PTC055370	ग्रानमेक इम्पेक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
22	एफटीई	B57244345	U55101AP2008PTC057058	पीच हॉस्पिटैलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
23	एफटीई	B78079571	U52520AP2002PTC040067	रूबी कस्टोमर केयर प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
24	एफटीई	B42354167	U15209AP2005PTC046137	सैन्टीफिक स्टोरेजेस प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
25	एफटीई	B67487454	U45200AP2007PTC053017	आर के नावा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
26	एफटीई	B77834174	U93000AP2008PTC061580	ए टी जी ऑर्गनैजेशनल प्राइवेट लिमिटेड	24/12/2013
27	एफटीई	B70258579	U16000AP2001PTC038003	प्रवीणा टोबाकोस प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
28	एफटीई	B70003744	U72200AP2007PTC056787	ब्लूनोग सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
29	ईईएस1	B11086527	U21012AP2008PTC057507	जै भवानी बांबू प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	08/06/2012
30	ईईएस1	B11090719	U74999AP2008PTC058082	स्टेकलइन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	08/06/2012
31	एफटीई	B25812470	U85110AP2001PTC038186	क्वालिटी हेल्थ सिटी प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
32	एफटीई	B88006010	U45209AP2008PTC059054	सउथबे पोर्ट अण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
33	ईईएस1	B04422788	U21020AP2001PTC036229	कनहन पैपर्स प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
34	एफटीई	B62208814	U01212AP1996PTC024285	जार आगो फार्मस प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
35	ईईएस1	B03354263	U27109AP1982PLC003623	कपाडिया आईरन अण्ड स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड	03/11/2012
36	एफटीई	B63953467	U31902AP2005PTC048388	एनलईटेन इंडिया इंटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
37	एफटीई	B29802154	U72200AP2008PTC060428	कंजिरा सॉफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
38	एफटीई	B29787769	U24230AP2005PTC045801	मार्कवेल लाब्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
39	एफटीई	B76908797	U45100AP1996PLC025999	उदयम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	10/10/2013
40	एफटीई	B31179666	U74999AP2007PTC054880	पी के डब्लू इंटरप्राइस ग्लू टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014

क्र. स.	फटीई/ ईईएस	एस आर एन	सिन	कम्पनी का नाम	कम्पनी को विघटित किया गया दिनांक
41	एफटीई	B29636925	U52332AP1998PTC028960	कोनार्क रिफ्रिजिरेशन अप्लैएन्सेस प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
42	एफटीई	B24358657	U80102AP2006PTC050783	ए बी सी चिल्ड केयर एण्ड नोलेइस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
43	ई ई ई एस 1	B11086246	U45200AP2006PTC050645	रिसइलेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	08/06/2012
44	एफटीई	B31272743	U55101AP2003PTC041465	बी वी एस पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
45	एफटीई	B40281560	U72200AP2010PTC066854	टकस्मार्ट एलियन्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
46	एफटीई	B38908059	U18109AP2011PTC072717	लानो गारमेंट्स प्राइवेट वालिन्टी-लिमिटेड	04/01/2014
47	ईईएस1	B04289237	U72200AP2004PTC042803	बिजटयून सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
48	एफटीई	B39847710	U74999AP2006PTC050950	एम आर इंटिग्रल ट्रेडिंग एण्ड लोजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
49	एफटीई	B28765048	U72200AP2008PTC058258	बीम बी सी एस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
50	एफटीई	B28549962	U45205AP2008PTC060060	श्रीजा एग्रीइन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
51	ईईएस1	B04407029	U01222AP1997PTC028500	दासाराजू इक्जीम प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
52	एफटीई	B57488140	U74900AP2008PTC062397	जिकराक इंजिनीरिंग एण्ड कोन्ट्रैक्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
53	ईईएस1	B10998953	U55101AP1992PLC014007	पी एस आर होटेल्स प्राइवेट लिमिटेड	08/06/2012
54	एफटीई	B28529220	U24210AP2005PLC047280	मीकिन्स बयोटेक लिमिटेड-	01/01/2014
55	एफटीई	B31200942	U72200AP2001PTC037179	सेंटिलियम सॉफ्टवेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
56	एफटीई	B31140064	U25114AP1995PTC019409	सूपरफैन रिट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
57	एफटीई	B28946200	U29309AP2006PTC048885	अदिला पॉवर इलैक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
58	ईईएस1	B04174678	U29297AP2003PTC040693	पी.वी.के. वाटर टीम प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
59	ईईएस1	B11009925	U45200AP2008PTC058317	रोकेट रैस कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड	08/06/2012
60	एफटीई	B31149743	U65992AP1991PTC012898	धनावृथी चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
61	ईईएस1	B04306593	U65990AP1991PTC013019	सिटिलइन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
62	ईईएस1	B04352746	U25200AP1984PTC004591	लोहिया प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
63	एफटीई	B64266307	U72200AP2007PTC055912	हल्लूसिनेशन इन्सटिट्यूट ऑफ डिजिटल डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
64	ईईएस1	B03517869	U72200AP2000PTC033995	विजडेन सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012

क्र. स.	फटीई/ ईईएस	एस आर एन	सिन	कम्पनी का नाम	कम्पनी को विघटित किया गया दिनांक
65	एफटीई	B67595728	U45200AP2004PTC044896	एस बी पी डायग्नेस्टीक्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
66	ईईएस1	B02848893	U52520AP2004PTC044168	सन सेवेन इलेक्ट्रीकल्स प्राइवेट लिमिटेड	03/11/2012
67	ईईएस1	B11072600	U32204AP1999PTC032180	अग्नी केबुल प्राइवेट लिमिटेड	08/06/2012
68	एफटीई	B57142937	U01403AP2008PTC062211	ए बी आगो प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
69	एफटीई	B38841862	U93000AP2008PTC062132	लीवाना कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
70	एफटीई	B35748375	U45200AP2006PTC051491	श्री भूपती इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
71	एफटीई	B77763092	U74999AP2010PTC070556	इनरटिक्स इंजिनियरिंग सर्वीसेस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	04/12/2013
72	ईईएस1	B11090560	U52520AP2002PTC039409	डिसिजिव मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	08/06/2012
73	एफटीई	B31271661	U65999AP2009PTC065775	वेलपॉइंट मेप इन्वेस्टमेंट्स मेनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
74	एफटीई	B78040284	U65923AP2007PTC052999	हारवेस्ट मेनेजमेंट एण्ड कन्सल्टेंसी सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
75	एफटीई	B57627721	U45203AP2010PTC069704	बी एन इन्फ्राटेक प्राइवेट (.प्र.ऑ) लिमिटेड	04/01/2014
76	एफटीई	B30153936	U41000AP2007PTC053191	श्री वंशी अक्वा प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
77	एफटीई	B67860098	U45200AP2007PTC052620	अनुषा होम्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
78	एफटीई	B68526821	U67110AP2010PTC070544	वाल्यू विशन कैपिटल अडवाजर्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
79	एफटीई	B67641456	U45200AP2009PTC065210	एस एम एन आर एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
80	एफटीई	B88189659	U74120AP2010PTC071353	गायत्री केशव प्रोजेक्ट कन्सल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	04/01/2014
81	एफटीई	B32318925	U72200AP2008PTC058556	घर्मजा इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
82	एफटीई	B25991183	U72200AP2007FTC055858	पेमेंट्स कार्ड प्लाट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	01/01/2014
83		B13143854	U72200AP2001PLC036063	ई आई क्यू नेटवर्क्स लिमिटेड	27/01/2014

वेंकटा रामी रेड्डी वंगा
सहायक कम्पनी पंजीयक
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले

हैदराबाद, दिनांक 18 फरवरी 2014

सं. आर ए पी/एस ई एस-2005/धारा 560 (3)/01-5740/वी वी आर/फरवरी 2009—सूचना दी जाती है कि कम्पनी कार्य मंत्रालय के एस ई एस-2005 आसान कलम स्कीम-2005 दिनांक 28.01.2005 के अनुसरण इस कार्यालय में आवेदन किया है। सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90 दिनों के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिमकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :—

क्रम संख्या	सिन	कम्पनी का नाम
01	U99999AP1985PTC005740	सधर्न फइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
02	U65992AP1993PLC015456	गोरा चिट्स एण्ड फैनान्स लिमिटेड

उक्त दर्शाए कम्पनियों को प्रस्ताव हटाने के बारे में किसी व्यक्ति विशेष से कोई आपत्ति हो तो वे इस तारीख से 3 महीनों के भीतर अपनी शिकायत लिखित रूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरी के पास प्रस्तुत करें अन्यथा प्रस्ताव के अनुसार बिना किसी सूचना के कम्पनियों के नामों को हटाया जाएगा।

वेंकटा रामी रेड्डी वंगा
सहायक कम्पनी पंजीयक
आंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा निम्नलिखित कम्पनियों के मामले

बैंगलूर, दिनांक 17 नवम्बर 2014

सं. ल.सी./560 (5)/एफटीई—कम्पनी अधिनियम, 1956 धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज दिनांक को रजिस्टर में काट दिये गये तथा उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :—

Sl. No	CIN	कंपनी नाम
1	U67100K2012PTC066236	फर्स्टफ्यूचरिस्टिक स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड
2	U31200K1996PTC020243	इंडस इलेक्ट्रो कंट्रोलस प्राइवेट लिमिटेड
3	U74130KA2006PTC041078	स्टडिअ मार्केटिंग एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4	U17222K2010PTC055298	फ्रीमैन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

कीर्ति तेज. एन
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
कर्नाटक

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 12th November 2014

No. DPPERS.I/2014/96/3/117/2014-Pers.I—The President is pleased to appoint Sh. A.S. Tariyal, Inspector, CBI, STF, New Delhi on promotion as Dy.Supt. of Police in Central Bureau of Investigation in the pay scale of Rs.8000-275-13500/- (pre-revised) with effect from 26/10/2009 i.e. the date of promotion of his immediate junior Shri. S.C. Shukla. Sh. A.S. Tariyal has assumed the charge of the post of Dy.SP on 08/10/2014.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir. (Pers.)

The 25th November 2014

No. DP Pers(M)/2014/4390/3/24/2008—The Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri Santosh Kerketta, Crime Assistant to the grant of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 17-06-2014.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir. (Pers.)

No. DP Pers(M)/2014/4391/A-19017/2/2014 —The Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri A.V. Ramana, Crime Assistant to the grant of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 02-07-2014.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir. (Pers.)

No. DP Pers(M)/2014/4393/3/2/99—Shri M.S.S. Sitapati Rao has relinquished charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.05.2014 on attaining the age of retirement on superannuation.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir. (Pers.)

No. DP Pers(M)/2014/4392/3/24/2008—Shri R.K. Gupta has relinquished charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.08.2014 on attaining the age of retirement on superannuation.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir. (Pers.)

No. DP Pers(M)/2014/4401/A-34012/2/2014—The Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri P. Kandaswamy, Crime Assistant to the grant of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 31-12-2013.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir. (Pers.)

No. DP Pers(M)/2014/4402/A-34012/12/2014—Shri Vijay Kumar has relinquished charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 30.11.2013 on attaining the age of retirement on superannuation.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir. (Pers.)

No. DP Pers(M)/2014/4403/A-34012/12/2014—The Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Smt. Aruna Mohan, Crime Assistant to the grant of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 15-09-2014.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir. (Pers.)

No. DP Pers(M)/2014/4404/A-34012/12/2014—The Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri J.C. Goyary, Crime Assistant to the grant of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 01-10-2014.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir. (Pers.)

No. DP Pers(M)/2014/4405/A-34012/12/2014—The Director, Central Bureau of Investigation is pleased to appoint Shri Anand Swaroop, Crime Assistant to the grant of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 20-10-2014.

DEEPIKA SURI
Dy. Dir. (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE,

New Delhi – 110003, the 20th November 2014

No. O.II. 3728/07-Pers-MOs—Consequent on acceptance of his resignation by the competent authority, Dr. Prabhakar Tripathi, Senior Medical Officer (Dy. Comdt.), IRLA-7023 of 93 Bn,CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 07th October, 2014.. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force wef 07.10.2014(AN).

M. C. PANWAR
DIGP(Pers)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110024, the 20th November 2014

No. 4827-GE-I/13-2006—Ms. Swaraj Sharma, Senior Principal Private Secretary has retired on superannuation from Government Service wef 31.10.2014 (AN).

SUDHA RAJAN
Asstt. Comptr. & Auditor General (P)

No. 4824-GE-I/13-2006—The following IA&AS officer have retired on superannuation/resigned from Government service from the date shown against their names :

Sl. No.	Name of the officer and Designation S/Shri/Ms.	Date of Retirement/Resignation
1.	K. Nagarajan, Director, O/o Pr. Director of Audit, Western Railway, Mumbai, Branch Office – Ahmedabad.	31.10.2014 (AN)
2.	Rajesh Kumar, Officer Trainee, O/o Director General, National Academy of Audit & Accounts, Shimla	Technical Resignation wef. 22.10.2014 (AN)

SUDHA RAJAN
Asstt. Comptr. & Auditor General (P)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
LABOUR BUREAU

Shimla-171 004, the 28th November 2014

No. 5/1/2014-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base:2001=100 remained stationary at 253 (two hundred fifty three) for the month of October, 2014.

S. S. NEGI
Dir.

MINISTRY OF TEXTILES

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS

New Delhi, the 12th November 2014

No.19013/2/2014-DCH/Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Anil Raj Kumar, IAS (UP: 2000) as Additional Development Commissioner for Handlooms at the level of Director in the Office of the Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles w.e.f the forenoon of 12th November 2014 for a period upto 31st December 2018 (i.e. the date of his Superannuation), or until further orders, whichever event takes place earlier, in pursuance of Department of Personnel & Training communication No. 10/5/2014-EO (MM II) dated 30th October 2014.

R K SAHU

Additional Development Commissioner (Handlooms)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

HEAVY WATER BOARD

Mumbai - 400 094, the 21st November 2014

No. HWB/R/1(8)-B/2014/ 5467—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Mayura M. Vilankar, Assistant (Pay Band-2, ₹ 9300-34800 + Grade Pay of ₹ 4600), Heavy Water Board, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2, ₹ 9300-34800 with Grade Pay ₹ 4800/- in Heavy Water Plant (Baroda) from the forenoon of 25th September, 2014 until further orders.

K.S. PILLAI

Administrative Officer-III

VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata- 700 064, the 21st November 2014

No.VECC/Prom.(July)/2014/ 3070 —The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (F) in the Pay Band 4, Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 8700/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from the forenoon of July 1, 2014, until further orders :-

Sl.No.	Name	Present post	Pay Band plus Grade Pay
1.	Shri Subrata Chattopadhyay	Scientific Officer (E)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 7600/-
2.	Shri Jedidiah Pradhan	Scientific Officer (E)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 7600/-
3.	Dr. Paritosh Sing Babu	Scientific Officer (E)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 7600/-
4.	Dr. Animesh Goswami	Scientific Officer (E)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 7600/-
5.	Dr.(Smt.) Gayathri N. Banerjee	Scientific Officer (E)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 7600/-
6.	Dr. Gopal Mukherjee	Scientific Officer (E)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 7600/-
7.	Dr. Ayan Ray	Scientific Officer (E)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 7600/-
8.	Shri Aditya Mandal	Scientific Officer (E)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 7600/-
9.	Shri Abanindra Mukherjee	Scientific Officer (E)	PB 3 Rs.15600 -39100 + GP Rs. 7600/-

A. BANERJEE

Administrative Officer-III

The 24th November 2014

No. VECC/Appointment/2013/3083—The President of India is pleased to appoint the undermentioned Trainee Scientific Officers to the post of Scientific Officer (C) in the Pay Band of Rs.15600-39100 (PB-3) + Grade Pay of Rs.5400/-

in Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, 1/AF, Bidhan Nagar, Kolkata – 700 064, with effect from August 01, 2013 (Forenoon), in temporary capacity until further orders :-

Sl.No.	Name
1.	Shri Hitendra Yadav
2.	Shri Pratanu Chakraborty
3.	Shri Santu Manna
4.	Shri Pankaj Kumar

A. BANERJEE
Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad – 500 062, the 27th November 2014

No. NFC/PAR-I/03/58/2415—Chief Executive, Nuclear Fuel Complex appoints Shri M. Ramaiah, Stenographer Gr. I to officiate as Private Secretary (NS) in temporary capacity in the Pay Band 2 of Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4600/- with effect from 18.11.2014 (FN), until further orders.

A. Jaya Krishna
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of following companies

Gwalior-474009, the 27th November 2014

No. ROC-GC/u/s.560(5)/2014/2523—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

Sl.No.	CIN	COMPANY NAME
1	2	3
1	U70102MP2009PTC022679	ENCON INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
2	U04520MP2005PTC017495	ANURADHA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
3	U52590MP2009PTC021801	EAON MARKETING PRIVATE LIMITED
4	U72200MP2010PTC023346	KNOWNMARKET TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	U52590MP2009PTC022256	DREAM STAR CONCEPT MARKETING PRIVATE LIMITED
6	U24294MP1993PTC007853	SHEETAL PHOTO FAST COLOUR LAB PVT LTD
7	U74140MP2009PTC022382	TOTAL LIFE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8	U71110MP2009PTC022182	CALL2HIRE SERVICES PRIVATE LIMITED
9	U24232MP2002PTC015021	GVM HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
10	U45201MP2006PTC019080	AANGAN NIRMAN PRIVATE LIMITED
11	U22110MP1999PTC013776	RATNAKANT PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
12	U72200MP2013PTC031465	OSR TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
13	U72200MP2012PTC029260	MACROSYS SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
14	U40101MP2008PTC021200	RUDRA HYDROPOWER PRIVATE LIMITED
15	U70101MP1995PTC009492	K.M.CROWN CONSTRUCTIONS (INDIA)PVT LTD
16	U45200MP2008PTC021215	AAKARSH BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

1	2	3
17	U45200MP2011PTC026590	ATIVEER CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
18	U24111MP2000PTC014494	LEENOX REMEDIES PRIVATE LIMITED
19	U45201MP2009PTC022629	AMPLE BUILDERS PRIVATE LIMITED
20	U52590MP2010PTC023742	EULO Square Marketing Services Private Limited
21	U24120MP2011PTC026791	SANGAM FERTILIZER PRIVATE LIMITED
22	U45201MP1999PTC013508	MADHVI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
23	U72200MP2011PTC025384	Aroleen Softech & Engineering Private Limited
24	U15310MP2008PTC020835	ASHT VINAYAK FOODS PRIVATE LIMITED
25	U74300MP2011PTC025662	IGBDI ADVERTISEMENT PRIVATE LIMITED
26	U52599MP2011PTC025470	GARIMA MULTITRADE PRIVATE LIMITED
27	U74140MP2007PTC019671	EPHEMERAL CONSULTING PRIVAVTE LIMITED
28	U80302MP2013PTC031642	Sweet Grace Education Private Limited
29	U55209MP2011PTC026351	RESOURCE HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
30	U51310MP2009PTC021870	UNITY FASHIONS AND GARMENTS PRIVATE LIMITED
31	U28993MP2007PTC019850	Square Storage Systems Private Limited
32	U22121MP2001PTC014863	PALAK PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
33	U72900MP2011PTC027151	INFOSPHERE TELECOMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
34	U70100MP2011PTC026481	DIVINE AGRO AND REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
35	U45203MP2004PTC016877	SAMPAT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
36	U50103MP2002PTC015185	VINDHYACHAL MOTORS PRIVATE LIMITED
37	U05259MP2005PTC018088	SRIJAN LINK MARKETING PRIVATE LIMITED
38	U24132MP1994PTC008472	DHANRAJ EXTRUSION PVT LTD
39	U01122MP2007PTC020079	Purple Rain Florescence Private Limited
40	U92413MP2012PTC028354	NETWORK ADVENTURE SPORTS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
41	U74200MP2010PTC023123	GBS RAIL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
42	U55100MP2009PTC022827	KHATRI RESORTS PRIVATE LIMITED
43	U15143MP2010PTC024406	R. H. EXXOILS PRIVATE LIMITED
44	U74900MP2013PTC030899	MARKETVISION RESEARCH AND ADVISORY PRIVATE LIMITED
45	U80300MP2011PTC026371	WONDER EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
46	U80302MP2008PTC020657	WONDER MIND EDUCARE PRIVATE LIMITED
47	U40109MP2006PTC019075	Deepak Construction Private Limited
48	U18101MP2007PTC019360	SERGOVOLO ATTIRE PRIVATE LIMITED
49	U01400MP2013PTC029973	Annant Agri Developers Private Limited
50	U01400MP2013PTC030039	Indotech Agri Farms Private Limited
51	U01400MP2013PTC029971	Mellow Farms Private Limited
52	U01400MP2013PTC030011	Rhythm Agrivikas Private Limited
53	U01400MP2013PTC030037	Ripen Agrifields Private Limited
54	U01400MP2012PTC029682	Niyati Agritech Private Limited

1	2	3
55	U01400MP2012PTC028969	Indore Agritech Pomegranates Private Limited
56	U22300MP2011PTC026091	JAI MAHAKAL MOVIES PRIVATE LIMITED
57	U01403MP2007PTC019294	OSR SUGAR PRIVATE LIMITED
58	U50300MP2012PTC028226	Midland Automobiles Private Limited
59	U51505MP1994PTC008426	N. PARIK CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
60	U70101MP2010PLC024027	OM SAI NATH REAL ESTATE & MARKETING INDIA LIMITED
61	U74900MP2011PTC026763	COLOR DIGITAL AUTOMISSION PRIVATE LIMITED
62	U15313MP2011PTC026783	SHIV FOOD AND OILS PRIVATE LIMITED
63	U25200MP2010PTC024434	SONATA MOULDING PRIVATE LIMITED
64	U52599MP2012PTC029543	RPM Agency Services Private Limited
65	U72200MP2009PTC022187	ROYAL AKS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
66	U45203MP2005PTC017484	JYOTI ROAD CONSTRUCTION AND BUILDERS COMPANY PRIVATE LIMITED
67	U50300MP2010PTC024000	GP TRADELINKS PRIVATE LIMITED
68	U63040MP2011PTC026502	SARVA TOUR & TRAVELS PRIVATE LIMITED
69	U72200MP2008PTC021386	Intelligent Commercial Solutions Private Limited
70	U72200MP2010PTC023521	ARCHANA TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
71	U45201MP2007PTC019896	HI-LINK INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
72	U24120MP2011PTC026110	VIRAT FERTILIZER PRIVATE LIMITED
73	U40200MP2012PTC029152	ASA LPG DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
74	U45200MP2012PTC029729	UNIRARE INFRASTRUCTURE & TRADE PRIVATE LIMITED
75	U24232MP2012PTC029463	MPL PHARMACHEM PRIVATE LIMITED
76	U45201MP2009PTC021579	RAVISH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
77	U72200MP2012PTC029478	BLACK GRAPES SOFTECH PRIVATE LIMITED
78	U01400MP2012PTC029386	Radiant VetLife (India) Private Limited
79	U31503MP2009PTC022664	PENTALUX LIGHTINGS PRIVATE LIMITED
80	U52599MP2011PTC025169	Target Multitrade Private Limited
81	U24233MP2011PTC026821	SAHODAYA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
82	U24100MP2011PTC027048	JAINAAWIN MEGA REMEDIES PRIVATE LIMITED
83	U74210MP2008PTC020991	INNOVATIVE CONSULTANTS ENGINEER & ARCHITECHT PRIVATE LIMITED
84	U15142MP2007PTC019566	KESHAV AGRO EXPORT PRIVATE LIMITED
85	U63040MP2013PTC031263	XPERIO INFOTECH PRIVATE LIMITED
86	U24233MP2011PTC027136	Dr Ayurveda Research Centre Private Limited
87	U74140MP2010PTC023223	GOVINDPURA LEAN CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
88	U50100MP2011PTC026318	Yaadevi Motors Private Limited
89	U34300MP1994PTC008470	ALMIN ENGINEERING PVT LTD
90	U70100MP2011PTC026535	ALMAS REALTY PRIVATE LIMITED

MUKESH KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

KOLKATA, the 1st December 2014

No.ROC/WB/FTE/560/2014—Notices is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 2 Companies have on this day been struck off from the Register and the Companies are dissolved.

Sl. No.	CIN	Name of the Company
1	U74999WB2012PTC181558	TRANSONIC ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2	U74999WB2003PTC096333	SASHA CRAFT SERVICES PRIVATE LIMITED

SAURABH GAUTAM
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of Companies Act, 1956 and of following companies

Pune-4, the 27th November 2014

No. RoCP/FTE/560(5)/2014/2930—Notice hereby given pursuant to sub section 5 of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of following companies has this day been struck off the Register and the said company are dissolved:—

1	U15424PN2009PLC134323	ARUN GHATAGE SUGAR LIMITED
2	U70200PN2013PTC149246	PURE AND BRIGHT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
3	U01403PN2011PTC140373	RAJ GREEN FIELDS PRIVATE LIMITED
4	U28910PN2008PTC131992	SHESHADRI PRECICAST PRIVATE LIMITED
5	U72400PN2009PTC133805	S.B. INFOTECH INDIA PRIVATE LIMITED
6	U15490PN2013PTC147164	DURJA FOODS PRIVATE LIMITED
7	U72200PN2010PTC135876	Precision Compusoft Private Limited
8	U99999MH1947PTC005606	THE SANGAM METAL AND ENGINEERING PVT LTD
9	U51909PN2007PTC129694	Blue Ray Enterprises Private Limited
10	U93000PN2012PTC145515	TwoMangoes Matrimonial & Match Making Private Limited
11	U70101PN2004PTC018874	NIMAN PROPERTIES PRIVATE LIMITED
12	U80903PN2003PTC018404	PATKI COACHING CLASSES PRIVATE LIMITED
13	U29268PN2013PLC146980	IKSHU INDUSTRIES LIMITED
14	U45200PN2009FTC133997	Chunjo Construction India Private Limited
15	U51505PN2008PTC131404	SS DIAGNOSYS & EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
16	U40106PN2013PTC146018	Biofuel Energy Private Limited
17	U52399PN2012PTC142279	R.K. EATABLES PRIVATE LIMITED
18	U72200PN2003PTC017886	INKORUS SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
19	U28999PN2012PTC142517	ATMARAM ENGINEERING PRIVATE LIMITED
20	U28112PN2012PTC142415	SD MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
21	U45201PN2008PTC131394	AVANEESH PROMOTERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
22	U72900PN2007PTC130853	ADJILITY SOFTWARE PRIVATE LIMITED
23	U32109PN1991PTC059706	JIRGE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
24	U72900PN2011PTC139132	EINZIG INFOMATICS PRIVATE LIMITED
25	U51432PN2006PTC128483	BHAVENT CONSTROMATS PRIVATE LIMITED
26	U65992PN2012PTC144130	YOGINI CHITS PRIVATE LIMITED
27	U24230PN2008PTC132116	INTEGRATIVE HEALTH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
28	U40108PN2007PTC130728	KALYANI WIND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
29	U72200PN2008PTC132141	INDIGO IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
30	U51909PN2006PTC022207	SARIPUTTA TRADING PRIVATE LIMITED
31	U74900PN2013PTC146076	Arthatatwa Multitrade Private Limited
32	U45200PN2010PTC137133	SATYAM MULTICON PRIVATE LIMITED
33	U24300PN2010PTC136820	ROLLON FILLERS PRIVATE LIMITED
34	U74999PN2008PTC131448	OATS Funds Management Consultant Private Limited
35	U65993PN2001PTC015945	ASKSHA SHARE-SEC PRIVATE LIMITED

36	U51909PN2007PTC130684	QUICKSTAR MARKETING & SERVICES PRIVATE LIMITED
37	U72200PN2006PTC128458	SPYMEK SOFTWARE PRIVATE LIMITED
38	U01122PN2010PTC137651	GAURAV FARM PRIVATE LIMITED
39	U92413PN2003PTC017975	ALBATROSS SPORTS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
40	U29194PN1998PTC012565	CENTRIFOR INDIA PRIVATE LIMITED
41	U45201PN2004PTC019234	SINHASANE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
42	U51909MH1995PTC088356	SUMO MARKETING PRIVATE LIMITED
43	U45200PN2009PTC135151	DHANTEDAN INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
44	U74900PN2011PTC138153	VIBGROW ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
45	U55101PN1999PTC014171	ESHOSANS HOTEL PRIVATE LIMITED
46	U51909PN2009FTC135053	Unisteel International (South Asia) Private Limited
47	U72200PN2014PTC151546	X-CRYPT SOFTWARE (INDIA) PRIVATE LIMITED
48	U01119PN2003PTC018364	WECANDO AGRO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
49	U72200PN2007PTC130731	IT CHRONICLE . COM PRIVATE LIMITED
50	U50403PN2011PTC140527	YASH AUTOWHEELS PRIVATE LIMITED
51	U24240PN2008PTC132166	AMIT SOAP COMPANY PRIVATE LIMITED
52	U34300PN2012PTC143470	HORIZON PRECISION PRIVATE LIMITED
53	U72900PN2010FTC135753	Icon PCs India Private Limited
54	U72200PN2001PTC016548	TOREL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S. D. PATIL
Asstt. Registrar of Companies
Maharashtra

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

Hyderabad, the 18th July 2012

No. RAP/Section 560(5)/FTE-SCHEME/VSJ/Cos.No.53/2012—Notice is hereby given pursuant to sub/section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved :-

SL. No.	CIN OF THE COMPANY	NAME OF THE COMPANY
1	2	3
01	U45400AP2007PTC056200	SHREE SHUBHAM SHELTERS PRIVATE LIMITED
02	U72400AP2005PTC045500	AGAMI SYSTEMS PRIVATE LIMITED
03	U72200AP2007PTC055635	SUNRIDGE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
04	U74210AP1993PTC016052	DWELWEL ENGINEERS PVT. LTD.
05	U26990AP2007PLC055860	DSC CEMENT LIMITED
06	U74900AP2008PLC060161	VTL PREMIER PYROTECHNICS LIMITED
07	U74999AP2007PTC052340	SANS MARKETING PRIVATE LIMITED
08	U28129AP1995PTC019789	BALAJI VIRAJ CAN AND COMPONENTS PRIVATE LIMITED
09	U45202AP2008PTC060106	NAVODAYA INFRATECH INDIA PRIVATE LIMITED
10	U67120AP1999PTC031551	A.V.R.HOLDINGS PRIVATE LIMITED
11	U72200AP2008PTC058168	PRAKRUTI SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
12	U45200AP2007PTC055464	Vyath Netronics Private Limited
13	U74900AP2008PTC058600	CLEAN ENERGY INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
14	U45200AP2007PTC054214	ABHIJYOTI ESTATE & INFRA PRIVATE LIMITED
15	U45400AP2008PTC059908	MAYFAIR HANSON HOMES PRIVATE LIMITED
16	U85100AP2009PLC066073	MARSAN HOSPITALS LIMITED
17	U65992AP1996PTC025455	GRAND VILLE CHIT FUND PRIVATE LIMITED
18	U72200AP2006PTC048993	MANIK SOFTSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
19	U24239AP2004PTC044719	NED PHARMA PRIVATE LIMITED
20	U92100AP2008PTC061764	ARKA MOTION PICTURES AND STUDIOS PRIVATE LIMITED
21	U66030AP2008PTC060097	MEGAVALUE INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
22	U45400AP2007PTC053681	ABHIRAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
23	U72200AP2007PTC053697	CHADA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
24	U26940AP2008PTC062368	VARSHA CEMENT AND POWER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
25	U60231AP2008PTC057424	PERITUS LOGISTIC SOLUTIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITED

1	2	3
26	U72200AP2008PTC058878	UIBI Innovations Private Limited
27	U80301AP2008PTC061048	K U EDUCATIONS PRIVATE LIMITED
28	U24110AP2009PTC066174	EUROPEAN FORMULA BUILDING ADHESIVES PRIVATE LIMITED
29	U72200AP2007PTC054234	ATLAS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
30	U72200AP2006PTC050811	YASASVI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
31	U74999AP2007PTC055512	VARMA IMPEX PRIVATE LIMITED
32	U01119AP1994PTC018322	RANIT AGRO PRIVATE LIMITED
33	U72200AP2005PTC047994	CADENA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
34	U33203AP2006PTC050263	OPTECH VISUAL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
35	U40101AP2010PTC068216	GNK POWER PRIVATE LIMITED
36	U40102AP2010PTC067533	HELIOS POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
37	U24239AP2004PTC042510	INDICUS PHARMA PRIVATE LIMITED
38	U10200AP2009PTC064478	SRI VINAYAKA DISTILLERY AND MARKETING PRIVATE LIMITED
39	U10200AP2009PTC064478	Jord Minerals Private Limited
40	U45209AP2007PTC056773	DREAM SCAPES INFRATECH PRIVATE LIMITED
41	U67100AP2009PTC065878	Lastaki Investment Advisory Services Private Limited
42	U40102AP2008PTC060341	VSS SHREE ENERGY PROJECTS PRIVATE LIMITED
43	U85100AP2009PTC066409	YKM SRINIVASA HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
44	U72200AP2008PTC059732	Emarket Innovations Soft Private Limited
45	U24239AP2004PTC043225	LAXAI (INDIA) PRIVATE LIMITED
46	U74900AP2008PTC059519	RUBICON TECHSOL PRIVATE LIMITED
47	U72200AP2008PTC062187	Reckon Software Solutions Private Limited
48	U74900AP2008PTC059648	ASTRA TECHSERVE PRIVATE LIMITED
49	U23209AP2008PTC061170	RAHUL PETROCHEMICAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
50	U63022AP1995PTC020967	PARAMESHWARI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
51	U45203AP2010PLC068691	HKR TOLLWAYS LIMITED
52	U24239AP2003PTC042331	RALPH HARRIS MEDICARE PRIVATE LIMITED
53	U63040AP2004PTC043369	VIRTUAL FUNCTION HALLS PRIVATE LIMITED

V. SANTOSHI JAGIRDAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of Companies Act, 1956 and of following Companies

Hyderabad, the 10th January 2013

No. RAP/Section 560(5)/Cos.86/2013/VSJ/2013 – Notice is hereby given pursuant to sub/section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved :-

S.NO	CIN OF THE COMPANY	NAME OF THE COMPANY
1	2	3
1	U21012AP1991PTC013215	INDO GULF PAPER BOARD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2	U33119AP2004PTC043990	STAR TRENDS IN ANALYTICAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
3	U55100AP1996PTC024193	AGRA-WALA (INDIA) PRIVATE LIMITED
4	U40108AP2010PTC067338	NEOSOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
5	U15419AP2002PLC039028	ANJANI BAKERY PRODUCTS LIMITED
6	U65993AP1981PTC002963	AHALYA ESTATES PRIVATE LIMITED
7	U18109AP2008PTC061869	ICON TRIMS PRIVATE LIMITED
8	U85110AP2002PTC040092	GVR HOSPITALS PRIVATE LIMITED
9	U70102AP2007PLC052434	CHAMATKAR HOMES LIMITED
10	U74900AP2009PTC065262	JOBHIKE RECRUITMENTS PRIVATE LIMITED
11	U85100AP2010PTC066568	AJ MEDSOFT PRIVATE LIMITED
12	U25200AP1998PLC029518	PRANAVANAGHA PLASTIC MACHINES LIMITED
13	U70102AP1997PTC028122	SKL PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
14	U72200AP1997PTC027108	MATRIX MINDWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED

1	2	3
15	U51909AP2008PTC058593	ARCHIES MINERALS IMPEX PRIVATE LIMITED
16	U01119AP2005PTC046466	AVANTI POWER & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
17	U40102AP2008PTC057316	SCL POWER & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
18	U65992AP2000PTC034260	USHA KRISHNA'S CHITS PRIVATE LIMITED
19	U70102AP2007PTC055802	DHATHRI INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
20	U17200AP2009PTC066315	GSR SPINTEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
21	U65992AP1996PTC023404	SWARNA SAKTHI FINANCE AND CHITS PRIVATE LIMITED
22	U29190AP2001PTC037173	SANSREEK ENGINEERS PRIVATE LIMITED
23	U72200AP2006PTC050792	GDES TECH PRIVATE LIMITED
24	U74999AP2010PTC066759	RDP CATALYST PRIVATE LIMITED
25	U72909AP2011PTC075235	ECO START ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED
26	U70100AP1998PTC028957	SARWAGNA NIRMAN PRIVATE LIMITED
27	U65992AP1985PTC005889	RECHARLA CHIT FUND PVT LTD
28	U22110AP1989PTC009936	NEWSBANK INFORMATION SERVICES PVT LTD.
29	U24239AP1983PTC004034	FAIRCHILD LABORATORIES PVT LTD
30	U74900AP2008PTC061546	TAAPEX EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
31	U45200AP2007PLC052800	PRAJAY RESORTS & AMUSEMENT PARKS LIMITED
32	U40104AP2008PTC058853	MANIRAM POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
33	U72100AP2006PTC050401	COE SECURITY PRIVATE LIMITED
34	U29219AP2010PTC070782	DELTA TECHNOBIZ INDIA PRIVATE LIMITED
35	U74120AP2007PTC054840	MAX5 MARKETING PRIVATE LIMITED
36	U72200AP2011PTC077897	AISWARYA INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
37	U92112AP2004PTC044348	EMEDIARAJ ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
38	U24297AP2006PTC050862	SALIPOL BIOCIDES PRIVATE LIMITED
39	U11100AP2010PTC067219	OCTAD PETROLEUM AND ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
40	U92120AP2009PTC065905	SHUNYA DESIGN PRIVATE LIMITED
41	U72200AP2008PTC057024	CAUSEWAY SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
42	U72200AP2000PTC034658	INFO DIMENSIONS BUSINESS ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
43	U52520AP1982PTC003626	NANDURY MARKETING PRIVATE LIMITED
44	U74993AP1970PTC001332	SAMANTO LAMINATES PVT LTD
45	U72200AP2009PTC066482	AH IT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
46	U85110AP2008PTC058998	SATYAVANI GLOBAL HEALTH SPRINGS PRIVATE LIMITED
47	U45200AP2008PTC059718	SATYAVANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
48	U72100AP1993PTC016400	SNS COMPUTERS PVT LTD
49	U72900AP2008PTC060963	VIRTUALVISION TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
50	U15326AP2008PTC061264	AWA SPECIALTY FATS INDIA PRIVATE LIMITED
51	U85110AP1987PTC007928	BHARADWAJ HOSPITALS PVT LTD
52	U85100AP2012PTC079408	OCUCARE MEDICAL CENTERS PRIVATE LIMITED
53	U85110AP2012PTC080672	OCUCARE MEDICAL CENTRE HYDERABAD PRIVATE LIMITED
54	U50300AP1985PTC005264	CHELLANI ENGINEERING ENTERPRISES PVT LTD
55	U72900AP2002PTC039117	P.E.S. INFOTECH PRIVATE LIMITED
56	U14102AP1990PLC011621	MUMAL GRANITES LTD.
57	U21000AP2008PTC059030	NEONATE PAPERS PRIVATE LIMITED
58	U01119AP2010PTC067888	LAKSHMI NARASIMHA HATCHERIES PRIVATE LIMITED
59	U72900AP2009PTC062627	RABROSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
60	U05005AP1989PTC010089	PRIYANSH SEAFOODS PVT. LTD.
61	U40102AP2007PTC053307	KRC POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
62	U13209AP2009PTC064894	HARSHA MINES AND MINERALS INDIA PRIVATE LIMITED

1	2	3
63	U13100AP2010PLC071806	KADALI MINES AND MINERALS LIMITED
64	U72900AP2008PTC059035	BUDDIBOT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
65	U40109AP2008PTC061017	ASHTALAKSHMI POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
66	U92132AP2002PTC039586	DIGITAL CABLE TELEVISION PRIVATE LIMITED
67	U72200AP2008PTC059045	LEEL SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
68	U01112AP2007PTC052334	VIKKY'S BIOFUELS PRIVATE LIMITED
69	U72200AP2012PTC082647	AASHRITHA SOFTMATICS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
70	U65992AP1988PTC009413	SWAYAM SIDDHA CHIT FUND PVT LTD
71	U72200AP1991PTC013116	REDTECH BIOMEDICAL PRIVATE LIMITED
72	U33111AP2005PTC046506	REDTECH MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
73	U40107AP2010PTC070001	VASAVI PEETAMBARA GAS POWER PLANT PRIVATE LIMITED
74	U17120AP2010PTC070393	BOINAPALLY GINNING & PRESSING PRIVATE LIMITED
75	U74900AP2008PTC062206	BITSECURE LABS PRIVATE LIMITED
76	U72200AP2006PTC051451	SRIKIRAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
77	U29309AP1991PTC012481	MEGA ELECTRONICS PVT.LTD.
78	U72200AP2009PTC062843	TAPAAL SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
79	U13200AP2008PTC062150	AKHILANDA MINERALS PRIVATE LIMITED
80	U40105AP2010PTC069999	VASAVI PITHAMPUR GAS POWER PLANT PRIVATE LIMITED
81	U40105AP2010PTC070101	VASAVI MORENA GAS POWER PLANT PRIVATE LIMITED
82	U70102AP2009PTC062630	HYDERABAD FINANCIAL CITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
83	U85100AP2009PTC062453	HYDERABAD HEALTH CITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
84	U29309AP2008PTC056967	SADASIVA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
85	U29297AP2007PLC053402	INFLON CHEMICAL EQUIPMENTS LIMITED
86	U01222AP1990PTC011742	GAYATHRI POULTRY AND AGRICULTURAL FARMS PRIVATE LIMITED

V. SANTOSHI JAGIRDAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of Companies Act 1956, and of following companies

Hyderabad, the 18th March 2013

No. RAP/Section 560(5)/Cos.1775/SR.DARA/2013– Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved: -

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U72900AP2002PTC038559	ITALYSIS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
2	U40101AP2001PTC037746	MANGALAM ENERGY PRIVATE LIMITED
3	U15142AP2003PTC040606	PAVANSAI AGRO REFINERIES PRIVATE LIMITED
4	U92114AP2003PTC040807	KANAKA RATHNA MOVIES PRIVATE LIMITED
5	U92111AP2002PTC040143	SRI UMAMAHESHWARA MOVIES PRIVATE LIMITED
6	U65993AP1983PTC003786	CHAITANYA LAKSHMI FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
7	U14102AP1999PLC033011	SAI SAPTA GIRI GRANITES LIMITED
8	U25209AP1998PTC030028	L. N. POLY PACKS PRIVATE LIMITED
9	U51909AP2003PTC041312	YUKTA HANDICRAFTS PRIVATE LIMITED
10	U72200AP2001PTC038057	SIVNEY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
11	U74140AP2001PTC036343	GLOBAL CALL CENTRE PRIVATE LIMITED
12	U72200AP2005PTC046835	IPTOUCH SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
13	U72200AP2005PTC046267	VISHIST SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
14	U65993AP1989PTC010322	ORAC LEASING AND HIRE PURCHASE PVT. LTD.
15	U51909AP2002PTC038768	TRIUMPH HOME APPLIANCES PRIVATE LIMITED
16	U72200AP1995PTC019170	HYDERABAD COMMUNICATION NETWORK PRIVATE LIMITED
17	U64203AP1995PTC019880	ELURU COMMUNICATION NETWORK PRIVATE LIMITED
18	U45200AP2006PTC050575	DECCAN VILLA HOME DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
19	U72200AP2007PTC053968	SRI DATTATREYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
20	U65992AP1996PTC023557	DAAMINEE CHITS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
21	U65032AP1997PTC027023	S D S EXPORTS PRIVATE LIMITED
22	U50403AP2000PTC035095	AUTOFIN IMPORT AND EXPORT PRIVATE LIMITED
23	U63023AP2002PTC038953	SRI RAGHAVENDRA WAREHOUSING PRIVATE LIMITED
24	U92111AP2006PTC051919	MYTRI FILMS PRIVATE LIMITED
25	U74120AP2007PTC054934	NIKHIL CEMENTS PRIVATE LIMITED
26	U45200AP1997PTC027704	SECUNDERABAD CRYO SERVICES PRIVATE LIMITED
27	U63022AP1997PTC027196	SAI WEATHER SYSTEM PRIVATE LIMITED
28	U65910AP1992PTC014510	L.B.FINANCE PRIVATE LIMITED
29	U18202AP1995PTC019136	UJWAL LEATHERS PRIVATE LIMITED
30	U01119AP2006PTC052143	JUKO AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
31	U01122AP2006PTC051417	JAMPANA KRISHNAM RAJU AGRI PROJECTS PRIVATE LIMITED
32	U11100AP2007PTC054997	ADVENT BIO FUELS PRIVATE LIMITED
33	U16002AP1977PLC002167	G.B.BROTHERS AND KONDA RAJA GOPAL CHETTY BEEDI FACTORY LTD
34	U21014AP1971PLC001409	INDUSTRIAL PACKAGING PRODUCTS LTD
35	U32104AP1993PTC015845	FLOW LINE CIRCUITS PVT LTD
36	U40109AP1990PTC011700	UNIQUE POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
37	U45201AP1997PTC028415	SRI KALPARAKSHITHA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
38	U24110AP1997PTC028170	SRI KALPATHARU HERBAL CHEM PRIVATE LIMITED
39	U22110AP1997PLC027930	DEVULAPALLI PUBLICATIONS LIMITED
40	U45201AP2001PTC036062	SRI KALPATARU HOUSING ESTATES PRIVATE LIMITED
41	U55103AP2001PTC036061	SRI KALPATARU RESORTCLUB PRIVATE LIMITED
42	U72900AP2003PTC041595	JU CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
43	U74140AP2004PTC044649	BISMARCK MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
44	U25202AP1985PTC005378	SVEC POLY-PACK PVT LTD
45	U01135AP1995PLC020567	RAGHAVA FLOREX LIMITED
46	U24230AP1998PTC030531	JEEVAN REMEDIES PRIVATE LIMITED
47	U92100AP1998PTC029161	GLOBAL INFOMED SERVICES PRIVATE LIMITED
48	U72200AP2003PTC042078	V.I. INFOTECH PRIVATE LIMITED
49	U92120AP2003PTC041403	MATCHLINE STUDIOS PRIVATE LIMITED
50	U64201AP2002PTC040049	TELETEL COMMUNICATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
51	U65910AP1994PTC017771	SIRI MALLE FINANCE PRIVATE LIMITED
52	U72200AP2000PLC033962	AMR FUTURISTICS LIMITED
53	U72200AP2000PTC034314	ARUN TECHSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
54	U15424AP2003PLC040217	MADHURI SUGAR AND POWERGEN LIMITED
55	U52100AP1995PTC020638	SRI SAI SURYA AGENCIES PRIVATE LIMITED
56	U13209AP1998PTC030629	ACHYUTA CABLES AND CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
57	U30007AP1999PTC032972	RANK EQUIPMENT PRIVATE LIMITED
58	U45200AP2003PTC040587	VNV ESTATES PRIVATE LIMITED
59	U74300AP2004PTC044291	COMMERCIAL INFO ADS INDIA PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
60	U65991AP2008PTC058067	S K WEALTH CREATORS PRIVATE LIMITED
61	U17299AP2006PLC051172	PARIGI HI-TECH TEXTILE PARK LIMITED
62	U72200AP1998PLC030452	AMR SOFTECH LIMITED
63	U55101AP2006PTC050308	GRAND VILLE INNS PRIVATE LIMITED
64	U70102AP2005PTC047380	GRAND VILLE HOMES AND PROPERTY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
65	U72200AP2006PTC049789	WIZON INFOTECH PRIVATE LIMITED
66	U72200AP2000PTC035656	PIONEER MULTITECH PRIVATE LIMITED
67	U65990AP1996PTC024569	MAXI MAX FINANCE PRIVATE LIMITED
68	U72200AP2002PTC039707	BOOSA MULTI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
69	U80301AP2002PTC039539	EDUCATION AND IMMIGRATION CONSULTING PRIVATE LIMITED
70	U72200AP2001PTC037983	CREDO TECHNO SPHERE PRIVATE LIMITED
71	U74140AP2005PTC047353	DARWIN EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
72	U72200AP2005PTC046654	ZEST INFO PRIVATE LIMITED
73	U01119AP2005PTC045097	SRI PAVANI AGRI TECH PRIVATE LIMITED
74	U72200AP2004PTC044261	MCKENEZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
75	U72200AP2000PTC035356	ECRM LABS PRIVATE LIMITED
76	U72200AP2005PTC048600	APEIRON SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
77	U29100AP1981PTC003340	MACHINES AND MACHINE TOOLS PVT LTD
78	U15209AP1995PTC019364	MASQUATI DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
79	U22210AP1993PTC016263	EXPRESS COLOUR GRAPHICS PVT LTD
80	U45203AP2003PLC041789	KRISHNAPATNAM RAIL ROAD CORPORATION LIMITED
81	U65921AP1986PLC006313	VEERABHADRA ESTATES LTD
82	U72200AP1998PTC030470	WORLD WIDE WEB INSTITUTE (INDIA) PRIVATE LIMITED
83	U51909AP1998PTC030281	VIBHAHVARI EXIM PRIVATE LIMITED
84	U74200AP1998PTC030279	VIBHAVARI CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
85	U70100AP1998PTC029557	VIBHAVARI CONSTRUCTIONS COMPANY PRIVATE LIMITED
86	U70100AP1998PTC029402	VIBHAVARI HOUSING AND PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
87	U72200AP2000PLC035429	MYTRI SOFT LIMITED
88	U74140AP1985PTC005858	FOURTH GENERATION ENGINEERS PVT LTD
89	U01222AP1989PTC010587	KHURANA BREEDING FARMS PVT LTD
90	U51909AP1995PTC022490	PALLAVI CERAMICS PRIVATE LIMITED
91	U65992AP1997PTC027732	KARSHAK CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
92	U63010AP1996PTC023844	SAI SEKHAR TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
93	U40200AP1996PTC025101	SAI CHANDRA POWER TECH AND ENGINEERING PRIVATE LIMITED
94	U40101AP2001PTC036287	VEDA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
95	U45203AP2007PLC053313	ACHIEVE INFRASTRUCTURE LIMITED
96	U85120AP1996PTC025960	SAI BHARGAVI EYE HOSPITAL AND EXCIMER LASER CENTRE PVT.LTD
97	U01120AP1996PTC023502	CHAITANYA MARUTHI PLANTATIONS AND REAL ESTATES PRIVATE LTD.
98	U74200AP2005PTC045259	POTENT SOFTWARE PRIVATE LIMITED
99	U66010AP2004PTC043062	SHAAN COMMUNICATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
100	U40109AP2004PTC042780	SRI GOWRIDEVI POWER PRIVATE LIMITED
101	U14297AP2003PTC040915	S L S SILICA PRIVATE LIMITED
102	U51909AP2005PTC048413	S L S EXIM (INDIA) PRIVATE LIMITED
103	U40105AP2007PTC053104	SRAVANI MINI HYDRO POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
104	U72200AP2007PTC054951	ZILOT SOFTWARE PRIVATE LIMITED
105	U28113AP2002PTC039659	SHARP SCRIBES SEMICONDUCTOR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
106	U72200AP2007PTC054185	IMP SYS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
107	U65993AP1989PLC009885	GUARDIAN LEASING AND FINANCE LTD.
108	U65910AP1994PLC017869	LUCKSHMI SAHASRA FINANCES LTD.
109	U72200AP2004PTC044146	OBJECTSMITHS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
110	U45200AP2007PTC056264	TITANIUM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
111	U45400AP2007PTC056216	KALPAVRUKSHA BUILDINGS PRIVATE LIMITED
112	U70102AP2007PTC056241	FRESCO VISTA BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
113	U27109AP1979PTC002531	BHAGYANAGAR TIN ALLOYS PVT LTD
114	U72200AP2000PTC033527	BANDHU INFOTECH PRIVATE LIMITED
115	U72200AP2007PTC052883	INFOSENSE BUSINESS PROCESS AUTOMATION PRIVATE LIMITED
116	U72200AP1998PTC029307	SYMBIOSIS INFOTECH PRIVATE LIMITED
117	U45201AP2007PLC053230	NATUROL DESIGN AND ENGINEERING SERVICES LIMITED
118	U15209AP1985PTC005321	AMPRO CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED
119	U74999AP1982PTC003358	EMJAK TRUSTEES PVT LTD
120	U65993AP1981PTC003120	M J RAO INVESTMENTS PVT LTD
121	U21012AP1994PLC017942	AMBICA ROTOPACK LTD,
122	U51909AP1993PTC016058	JUBILEE EXIM PVT. LTD.
123	U45206AP1999PTC033019	PEARL ERECTORS PRIVATE LIMITED
124	U72200AP2004PTC043443	CAREER OVERSEAS (UK) PVT LIMITED
125	U72200AP2000PLC034474	E-PHASE TECHNOLOGIES LIMITED
126	U73100AP2007PLC052911	NATUROL BIOSCIENCES LIMITED
127	U64202AP1986PLC006497	BHARATHI MOBILTEL LIMITED
128	U67120AP1998PTC029149	AVULA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
129	U74220AP2004PTC042785	TSR SCIENTIFICS AND ANALYTICS PRIVATE LIMITED
130	U15139AP2005PTC047762	LARS FOODS PRIVATE LIMITED
131	U70102AP2007PTC054553	VISION ONE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
132	U99999AP1994PTC016961	KELTON GRAPHICS [INDIA] PVT LTD
133	U72200AP1997PTC027399	SUMEE INFORMATICS PRIVATE LIMITED
134	U15420AP1997PTC026960	RAMESH MAGNUM PRIVATE LIMITED
135	U72200AP1997PTC026958	AICRA INFO MATES PRIVATE LIMITED
136	U63011AP2003PTC040953	ARPM LOGISTICS PRIVATE LIMITED
137	U15136AP2002PTC039547	RAJASA FOODS PRIVATE LIMITED
138	U72200AP2007PTC055347	RASSAR SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
139	U74999AP2008PTC057371	HONGDA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
140	U24230AP1989PTC010698	NARAYANI ORGANICS PRIVATE LIMITED
141	U74999AP1996PTC025556	AVATAR POONJINIVESH PRIVATE LIMITED
142	U65990AP1996PTC024398	SIKA SECURITIES PRIVATE LIMITED
143	U24230AP1996PTC024011	VMRL INFOTEK PRIVATE LIMITED
144	U65993AP1995PTC020868	GIRIDHARI AUTO FINANCE PRIVATE LIMITED
145	U67120AP1998PTC030665	BURLE SECURITIES PRIVATE LIMITED
146	U67120AP1998PTC029407	SVL SECURITIES PRIVATE LIMITED
147	U74999AP1996PTC025557	PARINDA POONJINIVESH PRIVATE LIMITED
148	U72200AP2003PTC041963	SUHASINI INFOTECH PRIVATE LIMITED
149	U50404AP2000PTC034174	KATAKAM TRACTORS PRIVATE LIMITED
150	U70102AP2006PTC049059	METASUN FARMS PVT LTD
151	U45200AP2006PTC048840	SLMI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
152	U24232AP2006PTC051955	NAVYA BIOTEC LABS INDIA PRIVATE LIMITED
153	U14292AP2007PTC052611	VADDE MINES PRIVATE LIMITED
154	U72200AP2006PTC051907	CAVAYA INFORMATION TECHNOLOGIES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
155	U92412AP1996PLC024671	SAVVY GREENS GAME PARKS LIMITED
156	U45200AP2007PTC053882	RAJLOK PROJECTS PRIVATE LIMITED
157	U67120AP2007PLC054959	M.A.G. SECURITIES LIMITED
158	U74210AP1988PLC009264	VANTECH ENGINEERING ENTERPRISE LIMITED
159	U65992AP1996PTC025414	YUKTA CHITS PRIVATE LIMITED
160	U67120AP2000PTC033936	SUBASH SECURITIES PRIVATE LIMITED
161	U92132AP2001PTC036894	CRITIQA MEDIA CONSULTING PRIVATE LIMITED
162	U18101AP2006PTC049757	MADHUHA DESIGNER WEAR PRIVATE LIMITED
163	U72200AP1994PTC017262	SWARNA SYSTEMS PVT LTD
164	U51909AP2002PTC039965	MESWIN MARKETING PRIVATE LIMITED
165	U65910AP1989PLC010794	SAPHIRE LEASING LIMITED
166	U85195AP2001PTC038107	DELTA C.T. SCAN CENTRE PRIVATE LIMITED
167	U18101AP2005PTC046450	SOLE EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
168	U72200AP2006PTC048965	SOLE IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
169	U24110AP1987PTC007648	PEE ENN METCHEM PRIVATE LIMITED
170	U65910AP1995PLC022554	SRI RAMANA FINANCIAL SERVICES LIMITED
171	U63011AP2005PTC047183	MAHESHWARI PARAMESHWARI ROAD LINES INDIA) PRIVATE LIMITED
172	U45200AP2002PTC040183	CONFIANZA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
173	U63040AP2006PTC049800	JSM TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
174	U74140AP2007PLC053319	IDELF MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED
175	U45200AP1990PTC011539	MARUTHI BUILDERS PVT.LTD.
176	U72200AP2000PLC035257	PRATHYUSHA INFOTECH LIMITED
177	U85110AP1991PTC012973	KRISHNA MEDICARE PRIVATE LIMITED
178	U85110AP1988PLC009099	BOLLINENI KRISHNAIAH HOSPITALS AND RESEARCH LIMITED
179	U70102AP2007PLC052613	BSCPL REALTY LIMITED
180	U45200AP2007PTC052879	YAMUNA HOUSING PRIVATE LIMITED
181	U70102AP2007PTC052600	HEMA HOMES PRIVATE LIMITED
182	U45200AP2007PTC052601	MADHAVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
183	U45200AP2007PTC052886	SEENAIAH HOME FIELDS PRIVATE LIMITED
184	U45200AP2007PTC052891	HARINI HOUSING PRIVATE LIMITED
185	U70102AP2007PTC054174	BRN HOUSING PRIVATE LIMITED
186	U70102AP2007PTC053880	DEEYES DREAMLANDS PRIVATE LIMITED
187	U45200AP2007PTC053874	DVN DREAMLANDS PRIVATE LIMITED
188	U45200AP2007PTC053876	DVN HOME FIELDS PRIVATE LIMITED
189	U45200AP2007PTC053877	DVN AVENUES PRIVATE LIMITED
190	U70102AP2007PTC053878	APARNA AVENUES PRIVATE LIMITED
191	U70102AP2007PTC053642	BRN AVENUES PRIVATE LIMITED
192	U70102AP2007PTC053640	BEEYES AVENUES PRIVATE LIMITED
193	U70102AP2007PTC053895	BEEYES DREAMLANDS PRIVATE LIMITED
194	U70102AP2007PTC053657	SEENAIAH DREAMLANDS PRIVATE LIMITED
195	U70102AP2007PTC053951	DNN HOME FIELDS PRIVATE LIMITED
196	U72200AP2000PTC034026	SAIBER SOFTECH PRIVATE LIMITED
197	U72200AP2000PTC033971	PRISTINE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
198	U27109AP1992PLC013965	MERKEL STEELS LIMITED
199	U01111AP1997PLC026953	SUNGOLD AGRI FARMS AND EXPORTS LIMITED
200	U72200AP2000PLC033710	NAVBHARAT INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED
201	U72200AP2000PLC033560	GIBCA SOFTWARE EXPORTS LIMITED
202	U32204AP2000PLC033343	LOVENTILA INFORMATION SYSTEMS LIMITED
203	U72200AP2003PLC040949	HAVAN INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED
204	U70102AP2005PTC048056	FORTUNE AVENUES PRIVATE LIMITED
205	U27106AP2006PTC051166	COILKRAFT INDIA PRIVATE LIMITED
206	U72200AP2007PTC055315	MANI ZEN TECHNOLOGIES SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
207	U52520AP2008PTC057465	WINWIN MULTISHOPPING (AP) PRIVATE LIMITED
208	U70101AP1997PTC027027	MAHAVIR SHELTERS PRIVATE LIMITED
209	U72200AP2001PTC036179	RAZOR TECH PRIVATE LIMITED
210	U22120AP2005PTC045748	CERTMARK PUBLISHING PRIVATE LIMITED
211	U01407AP2002PTC039398	SPADES AGRO EXTENSION SERVICES PRIVATE LIMITED
212	U45400AP2007PTC055509	MAHAVIR PRIME URBAN DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
213	U45400AP2007PTC055344	MAHAVIR AESTHETIC BUILDERS PRIVATE LIMITED
214	U14102AP1989PLC009787	SRI RAMA MANORAMA TILES LTD.
215	U51909AP1993PTC016342	VASAVI INTEGRATED SERVICES COMPANY PVT LTD
216	U40103AP2005PTC048345	SYNERGY POWER GENERATION (INDIA) PRIVATE LIMITED
217	U93090AP2006PTC052182	HARMONIC ADMINISTRATION SERVICES HYDERABAD PRIVATE LIMITED
218	U24232AP2007PTC055766	QUALEX CHEM ORGANICS PRIVATE LIMITED
219	U31300AP1988PTC008767	THERMAL VIDYUT CONDUCTORS PRIVATE LIMITED
220	U74140AP2006PTC049712	BPC SEKURIT BRAND PROTECTION CELL PRIVATE LIMITED
221	U74140AP2006PTC050118	PLAY CAREER CONSULTING PRIVATE LIMITED
222	U72200AP1987PTC007751	V.V.S. SYSTEMS PVT LTD
223	U74140AP1983PTC003996	ZUCKERTEK SERVICES PVT LTD
224	U67120AP1991PTC012233	HYDERABAD ENGINEERS AND CONSULTANCY SERVICES PVT.LTD.
225	U14102AP1990PTC011993	ILLAM GRANITE TILES PVT.LTD.
226	U24239AP2003PTC040913	KOKANEE PHARMACY PRIVATE LIMITED
227	U11200AP2002PTC039496	FRONTIER DRILLING (INDIA) PRIVATE LIMITED
228	U70102AP2005PTC048073	HALCYON HOMES PRIVATE LIMITED
229	U72400AP2005PTC046016	ESSENTIS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
230	U72200AP2000PTC034766	APPLABS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
231	U01120AP1999PTC032012	BVR SEEDS PRIVATE LIMITED
232	U74999AP2007PTC053373	SHIRDI SAI IMPORTERS & EXPORTERS PRIVATE LIMITED
233	U72200AP2006PTC049831	MAGICCLOUD SOFTWARE CONSULTING PRIVATE LIMITED
234	U01119AP1982PTC003482	ML SOFTWARE PARKS PRIVATE LIMITED
235	U55101AP1981PTC003184	KALLAM HOTELS PVT LTD
236	U65920AP1994PLC018846	M L FINANCIAL SERVICES LIMITED
237	U65992AP1992PTC013949	SRI RANJITHA CHITS PRIVATE LIMITED
238	U65992AP1996PTC025453	SRI PADMANABHA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
239	U85110AP1999PTC030909	SURAKSHITA MEDICARE PRIVATE LIMITED
240	U18100AP1998PTC030197	KALLAM EXPORTS PRIVATE LIMITED
241	U40109AP1998PTC030196	KALLAM POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
242	U17232AP2003PTC040585	KANCHERLA SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
243	U01119AP2002PTC039110	KAVURI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
244	U66010AP2005PTC045217	NCV CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
245	U01222AP2004PTC045013	SIRI POULTRY FARM PRIVATE LIMITED
246	U01119AP2004PTC044825	SHAIK HASSAN ESTATES PRIVATE LIMITED
247	U17119AP1999PTC031908	P V POWER SPINNERS PRIVATE LIMITED
248	U18100AP2006PTC049270	SRIPATHI SPINNERS PRIVATE LTD
249	U72300AP2006PTC050676	NELTECH DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
250	U70102AP2006PTC051424	HB LANDS PRIVATE LIMITED
251	U34100AP2008PTC057765	RAYANI MOTORS PRIVATE LIMITED
252	U72900AP2008PTC058311	CYBER STREAM INDIA PRIVATE LIMITED
253	U21014AP1997PTC026859	VEGA PACKAGING EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
254	U45200AP2006PTC048758	VINIRMAA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
255	U65910AP1997PTC026871	MINI MERCHANTS BYANCO FINANCIERS PRIVATE LIMITED
256	U52520AP2002PTC038487	ANDHRA PRADESH EXPOSITIONS PRIVATE LIMITED
257	U65993AP2006PTC048667	LANFIN TRUSTEE PRIVATE LIMITED
258	U67120AP1996PTC024677	IKR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
259	U67120AP1996PTC024672	IJR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
260	U70101AP2006PTC050545	SIDDHARTH VILLAS PRIVATE LIMTIED
261	U70102AP2007PTC053167	BLUECITY INFRA PRIVATE LIMITED
262	U74999AP2008PTC057531	VENSAR PUBLICITIES PRIVATE LIMITED
263	U45400AP2008PTC057508	VENSAR TRADE CENTRE PRIVATE LIMITED
264	U29150AP2001PTC036293	SAN ENGINEERS PRIVATE LIMITED
265	U15134AP2004PTC044085	POTHINA PULP PRIVATE LIMITED
266	U45200AP2003PTC041152	RCM KONDAIAH INFRACON PRIVATE LIMITED
267	U72200AP2007PTC054208	BIZZBYTE SOFTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
268	U72200AP2007PTC053411	INTEGLAU SOFTWARE PRIVATE LIMITED
269	U74900AP2007PTC055181	KRUEGER INDIA PRIVATE LIMITED
270	U72200AP2008PTC058446	3RD ROCK IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
271	U92111AP2002PTC039360	E.V.V. CINEMA PRIVATE LIMITED
272	U27203AP1990PLC011834	ENNAAR ALUMINIUM LIMITED
273	U74994AP2004PTC044072	MADDETI COATINGS PRIVATE LIMITED
274	U72200AP2005PTC046795	MELONIC INFO TECH PRIVATE LIMITED
275	U63011AP1995PTC022630	PRADEEP ROADWAYS PRIVATE LIMITED
276	U65921AP2000PTC033881	CHINMUDRA DHARI SECURITIES PRIVATE LIMITED
277	U14200AP2007PTC056821	DHARTHI CRUSHERS PRIVATE LIMITED
278	U74140AP2004PTC043799	IQRA OVERSEAS EDUCATIONAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
279	U72200AP2001PTC035954	WEBDOT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
280	U72200AP1999PTC031246	SAJANI INFO-EDUCATION PRIVATE LIMITED
281	U74920AP2004PTC043933	SQUAD 99 SECURITY PRIVATE LIMITED
282	U74210AP2004PTC043089	SHANTANU CHAUDHARI DESIGNERS PRIVATE LIMITED
283	U65920AP1994PTC019022	GSY INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
284	U72200AP2007PTC054506	SWIFT PREMIER IT SERVICES PRIVATE LIMITED
285	U65992AP1991PTC013492	DHANADATA CHITFUNDS PRIVATE LIMITED
286	U29309AP1993PTC016791	INDICON ELECTRONICS PVT LTD
287	U74940AP1999PTC032900	POLYCOAT LAMINATION AUTO COATS PRIVATE LIMITED
288	U72200AP2005PTC046599	JADE VIRTUSA SOLUTIONS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
289	U74200AP2004PTC044955	GLOBALWAYS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
290	U52339AP2006PTC051789	NARGAN TRADING PRIVATE LIMITED
291	U67120AP2006PTC051903	MBV CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
292	U72200AP2006PTC051790	NARGAN CORPORATE ADVISORY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
293	U72200AP2007PTC056610	BAY DIGITAL NETWORKS PRIVATE LIMITED
294	U67120AP1997PTC027508	S.G.C. SECURITIES PRIVATE LIMITED
295	U65992AP2004PTC043918	SRI MAHANIDHI CHITS PRIVATE LIMITED
296	U33110AP1986PTC006927	COASTAL FEED PRODUCTS PVT. LTD.
297	U15490AP1996PTC025780	GLORY MARINE LOGISTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
298	U14102AP1996PTC024383	VENGAMAMBA GRANITES PRIVATE LIMITED
299	U24134AP1995PTC021042	SRI RAMAKRISHNA PLASTICS PRIVATE LIMITED
300	U72200AP1999PTC031711	SUBHADRA COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
301	U67120AP1997PLC027684	SRI MARG ENTERPRISES LIMITED
302	U22100AP2001PTC037129	M.V.R. PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
303	U45200AP2004PTC042921	M. VENKATA RAO PROJECTS PRIVATE LIMITED
304	U65993AP1988PTC008555	D.C.V.INVESTMENT PVT LTD
305	U67120AP1990PTC011181	RAAVELA INVESTMENTS PVT LTD
306	U40100AP1995PLC021342	R R BIO-ENERGIES LIMITED
307	U01122AP1994PLC018004	NAVA BHARAT FLORICULTURE LIMITED
308	U64203AP2000PTC034357	SKYLARK POWER GENERATION PRIVATE LIMITED
309	U29308AP2004PTC043973	ACME HOME SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
310	U01117AP2003PTC041557	ASTER NATURALS PRIVATE LIMITED
311	U72900AP2003PTC040618	LIGHTNING INSTRUMENTATION PRIVATE LIMITED
312	U40109AP2002PTC039359	RAMALAKSHMI BIO-ENERGY PRIVATE LIMITED
313	U40100AP2005PTC045800	H2O POWERGEN INDIA PRIVATE LIMITED
314	U40105AP2006PTC048736	DCS TURBINE SERVICES PRIVATE LIMITED
315	U45101AP2006PTC050388	GLANCE INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
316	U72300AP2007PTC053463	INFRAVISION CONSULTING PRIVATE LIMITED
317	U55101AP2005PTC047869	SOUTHERN SPICE FOOD LOUNGES PRIVATE LIMITED
318	U27203AP1996PLC024048	JVS PURE INTERIORS LIMITED
319	U25209AP2003PTC041382	ALLEN ABLATIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
320	U27203AP2002PTC039541	JVS ALUMINIUM ARCHITECTURALS PRIVATE LIMITED
321	U29150AP2001PTC038030	JVS-WERNER LADDERS AND CLIMBING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
322	U92199AP2001PLC037168	SRINIVASA ENTERTAINMENTS LIMITED
323	U67200AP2001PTC037134	JVS INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
324	U92132AP2005PTC045922	SURYAM VISUALS PRIVATE LIMITED
325	U24239AP2004PTC043127	GENOVA BIO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
326	U40101AP2007PTC053069	D V N POWER PRIVATE LIMITED
327	U17119AP1987PLC007085	DCL SYNTHETICS AND CHEMICALS LTD
328	U74140AP1991PTC013510	PINISETTI ENGINEERS PRIVATE LIMITED
329	U67120AP1995PTC020782	EMERGING FINANCIAL AND CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
330	U72200AP2000PTC033792	VIJAYADURGA SOFTWARE AND MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED
331	U72200AP1998PTC029369	MOSAIC SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
332	U51311AP2005PTC045099	P4U MARKETING PRIVATE LIMITED
333	U72200AP2004PTC043389	INCHI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
334	U70101AP2006PTC050376	VISAKHA BEACH HOMES PRIVATE LIMITED
335	U31300AP1998PTC030194	CHARMINAR WIRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
336	U29305AP1998PTC030191	SWAN COATED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
337	U72200AP1997PTC027345	SHELL NETWORKS PRIVATE LIMITED
338	U74200AP2005PTC045857	SHELL DIGINET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
339	U40105AP2003PTC041178	ARIES WINDTECH PRIVATE LIMITED
340	U51909AP1984PTC004402	PIONEER ENTERPRISES AND EXPORTS PVT LTD
341	U92111AP1983PTC004236	V.S.R.P.FILMS PVT LTD
342	U70102AP1980PTC002676	VEE-KAY REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
343	U51494AP2002PTC039972	APARNA'S COTTON INDIA PRIVATE LIMITED
344	U24239AP1988PTC008307	BE PHARMA PVT LTD
345	U45200AP1999PLC031056	THEJ PROJECTS LIMITED
346	U74140AP2004PTC043320	ORIGIN MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
347	U51909AP1991PLC012477	R C INTERNATIONAL LIMITED
348	U72200AP1990PTC011247	ALLURI CHIT FUNDS PVT LTD
349	U72200AP2000PLC033202	ESSKAY SOLUTIONS LIMITED
350	U72200AP2005PTC046411	TUHIN INFOTECH PRIVATE LIMITED
351	U72200AP2000PTC035054	GINA SOFT PRIVATE LIMITED
352	U72200AP2007PTC054800	ALL NEW IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
353	U72200AP2005PTC047382	SANKAY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
354	U26914AP2005PTC046791	RAJ MONOLITHICS PRIVATE LIMITED
355	U65990AP1986PTC006351	TIBREWALA LEASING AND INVESTMENTS PVT LTD
356	U65993AP1991PTC012859	MEGA SHARE AGENCIES PRIVATE LIMITED
357	U15499AP1995PTC021104	DISHA EXPORTS PRIVATE LIMITED
358	U52520AP1999PTC031193	PLOVER MARKETING PRIVATE LIMITED
359	U65992AP1994PTC016922	DHANA PRASIDHI CHIT FUNDS PVT LTD
360	U65910AP1994PTC018083	VSL FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
361	U74140AP1992PTC014948	NARVEN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
362	U52334AP1999PTC031782	SUKETU COMPONENTS PRIVATE LIMITED
363	U51909AP2001PTC037978	DGP IMPEX PRIVATE LIMITED
364	U72200AP2001PLC036808	RIDGEWAY IMPEX LIMITED
365	U70102AP1990PLC012123	RANISHA REAL ESTATE DEVELOPERS LIMITED
366	U65910AP1996PTC024399	RUDRARAJU INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
367	U72200AP1997PLC027987	RANISHA INFO SOLUTIONS LIMITED
368	U72200AP2005PTC045127	DECCO EXIM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
369	U29297AP2006PTC051011	METTLE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
370	U65992AP1992PLC013785	KURNOOL LEASING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED
371	U29309AP1976PTC002076	HEMSON ELECTRONICS INDUSTRIES PVT LTD
372	U52520AP1996PTC022758	VEERESH TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
373	U24230AP1995PLC020551	KAYES CHEMINT LIMITED
374	U52334AP1999PLC030931	DEV AUTOMATION EQUIPMENTS LIMITED
375	U13209AP2006PTC050443	LAILA MINING AND MINERALS (P) LTD
376	U16003AP2003PTC040764	INTER TOBACCO (INDIA) PRIVATE LIMITED
377	U74140AP1992PTC013776	NIPUM HITECH ATLENTIC SERVICES PRIVATE LIMITED
378	U24230AP1998PTC030415	SCRIBS MARKETING PRIVATE LIMITED
379	U65921AP1994PTC019044	KAMAL LEAFIN PRIVATE LIMITED
380	U74910AP2002PTC039119	I 2 M MANPOWER RESOURCES PRIVATE LIMITED
381	U51109AP1994PTC019079	MANIHAR EXIM WORLD PRIVATE LIMITED
382	U29219AP1993PTC016441	ISC ENGINEERING PVT LTD
383	U65992AP1966PTC001137	S L CHIT FUNDS PVT LTD
384	U25199AP1991PTC013098	TREADWELL RUBBER PRIVATE LIMITED
385	U64200AP2007PTC054103	PURE THOUGHTS COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
386	U01403AP2007PTC054740	SURA AGRITECH PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
387	U24230AP1987PTC008125	SURYA DRUGS PVT.LTD.
388	U72200AP2004PTC043913	SUCHITHRA SYSTUM PRIVATE LIMITED
389	U45200AP2002PTC039691	SAI ROJA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
390	U72200AP2001PTC038200	SARVANI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
391	U92111AP2000PLC034978	AASHRITHA CREATIONS LIMITED
392	U72300AP2007PTC053192	DYUTIIM SYSTEM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
393	U65990AP1996PTC025760	BIGWIG INVESMTNETS PRIVATE LIMITED
394	U74140AP1996PTC025675	TRYST MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
395	U65990AP1996PTC024361	SAVVY CAPITALS PRIVATE LIMITED
396	U01110AP1996PLC024141	SAVVY GREEN AGRO-FARMS LIMITED
397	U35111AP1998PLC030797	ANDHRA SEA PORTS LIMITED
398	U10200AP2004PTC044818	VIKRAM MINING PRIVATE LIMITED
399	U74200AP2005PTC045520	DR. JMR CONSULTING PRIVATE LIMITED
400	U65993AP2007PTC054125	MADHU NIVAS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
401	U93000AP1947PLC000669	MARWADI PRESS LIMITED
402	U52395AP1997PTC026691	ABHITEJA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
403	U63040AP1987PTC007335	AL-HARAMAIN PRIVATE LIMITED
404	U55101AP1982PTC003426	GOLCONDA HOTELS PVT LTD
405	U51909AP1974PTC001707	RIFAH EXPORTS PRIVATE LIMITED
406	U55101AP1973PTC001656	RIFAR HOTELS PVT LTD
407	U92410AP1995PTC021936	PORT BALIR UNDER WATER SPORTS PRIVATE LIMITED
408	U01122AP1994PTC017123	TROPEX SEEDS AND PLANTS PRIVATE LIMITED
409	U55101AP1992PTC014954	HYDERABAD RESORTS PVT.LTD.
410	U67120AP1997PTC028556	N. RAMA RAO SECURITIES PRIVATE LIMITED
411	U92112AP2003PTC040238	SELEBRITYACCESS MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
412	U65993AP1984PTC005037	CHORAVILLA INVESTMENTS AND HOTELS PVT LTD
413	U93000AP2007PTC056594	VLN CONSULTING PRIVATE LIMITED
414	U72200AP1999PTC031461	MONDIAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
415	U24239AP2005PTC047011	CHARY LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
416	U30007AP2000PTC033409	MILLISOFT PRIVATE LIMITED
417	U01403AP2007PTC054902	PRAGATHI AGRI-INPUTS PRIVATE LIMITED
418	U72400AP2004PTC044463	AVARON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
419	U33201AP2001PLC036055	SRIKANTH OPTIC SYSTEMS LIMITED
420	U72200AP2000PTC035821	MESASOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
421	U74999AP2005PTC048410	BILLA GIFT SERVICES PVT LTD
422	U21019AP2005PTC045381	SIRI BIO MEDICAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
423	U15209AP2003PTC041861	HYDAM FOODSPECIALITIES PRIVATE LIMITED
424	U72200AP2004PTC044882	OAK NET PRIVATE LIMITED
425	U72200AP2003PTC040696	PROMENOS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
426	U24130AP1989PTC009455	DURAFLO ENGINEERING PVT LTD.
427	U29309AP2005PTC046933	TECHNOVA INSPECTIONS SERVICES PRIVATE LIMITED
428	U72200AP2005PTC045614	WEITEX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
429	U74999AP2008PTC057626	TESLA LEARNING PRIVATE LIMITED
430	U24239AP2002PTC038312	GENHELIC BIOINFORMATICS PRIVATE LIMITED
431	U74140AP2002PTC040037	SOLSTICE CONSULTING PRIVATE LIMITED
432	U45202AP2006PTC050486	LANDMARK VILLAS PRIVATE LIMITED
433	U26913AP1986PLC006345	REGENCY CERAMIC TILES LIMITED
434	U52110AP1991PLC013407	REGENCY OVERSEAS LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
435	U45200AP1994PTC016921	REGENCY HOMES PVT LTD
436	U29130AP2005PLC048443	SGC BEARINGS LIMITED
437	U27101AP1986PTC006975	SANMAT IRON AND STEEL INDUSTRIES PVT. LTD.
438	U52334AP1986PLC006939	REVELAIRY INDUSTRIES LIMITED
439	U01222AP1995PTC020147	DHANA LAKSHMI FARMS PRIVATE LIMITED
440	U24239AP2002PTC038661	GENEMEDIX CABLES PRIVATE LIMITED
441	U74140AP2005PTC045900	YS CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
442	U85194AP2004PTC044009	NEON NURSING NETWORK PRIVATE LIMITED
443	U70102AP2002PLC039283	J.R. AUTOMOBILES LIMITED
444	U70109AP2006PTC050897	AMSRI PARTRIDGE REALTY PRIVATE LIMITED
445	U45200AP1996PTC023426	GUDIPUTI ESTATES PRIVATE LIMITED
446	U70100AP1999PTC033035	HOYASALA ESTATES PRIVATE LIMITED
447	U72200AP2000PTC033291	HARVINSHAA I.T. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
448	U74140AP1999PTC031329	CASCADE MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
449	U55101AP1999PTC030842	RUKMINI KALYAN MOTELS PRIVATE LIMITED
450	U31400AP1997PLC027109	HYLEAD ACCUMULATORS LIMITED
451	U52520AP2004PTC042924	VIMAL VIKAS INTEGRATED SERVICES (INDIA) PVT LIMITED
452	U92490AP2002PTC038644	LAKSHMI ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
453	U72200AP2005PTC047612	XP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
454	U24111AP1995PTC019957	SRI DIVYA SAI LPG DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
455	U01119AP2003PTC041897	GRANATE AGRO SERVICES PRIVATE LIMITED
456	U15499AP2002PTC039817	SESHANJALI FOOD AND BEVARAGES PRIVATE LIMITED
457	U05005AP1994PTC017700	VIJAYA ACQUA FEEDS PVT LTD,
458	U65993AP1990PTC011062	PRAVILA INVESTMENTS PVT LTD
459	U23899AP2000PTC033426	RAMCOR FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
460	U65992AP1997PTC028067	GANDIKOTA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
461	U85110AP1997PTC027676	RAVI ACHYUTA HEALTH MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
462	U99999AP1996PTC025481	SAI SURYA HOUSING AND ESTATES PRIVATE LIMITED
463	U01112AP1995PTC022632	CHICK `N` CHICK POULTRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
464	U51397AP2002PTC038821	SRI RAMANANDA EXPORTS PRIVATE LIMITED
465	U45200AP2005PTC046021	SKYROCK BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
466	U51909AP2003PTC042061	M S S R IMPEX PRIVATE LIMITED
467	U45200AP2003PTC040830	SRI SUBHAKARA HOUSING PRIVATE LIMITED
468	U51909AP2003PTC041594	REDDISUN IMPEX PRIVATE LIMITED
469	U40109AP2006PTC048690	BOSTONBLU POWER (INDIA) PRIVATE LIMITED
470	U31909AP2003PTC041938	SEYO MECHATRONIKS PRIVATE LIMITED
471	U27109AP1998PLC028963	THIMMA STEELS LIMITED
472	U55101AP1985PTC005608	DEEPTHI HOTELS PRIVATE LIMITED
473	U65992AP1974PTC001692	SAPTHAGIRI CHIT FUND AND BUILDERS PVT LTD
474	U51109AP1995PLC021050	PALAYPU CROSS BORDERS LIMITED
475	U74110AP2000PTC034553	DAGA ADVISORS PRIVATE LIMITED
476	U65993AP1997PTC027329	SNH FINANCE PRIVATE LIMITED
477	U65910AP1996PTC024223	MAHESHWARI SHARE AND STOCKS PRIVATE LIMITED
478	U15131AP1986PTC007013	INDIAN BOTTLERS PRIVATE LIMITED
479	U63040AP2006PTC050119	PARAS COMMBINES TRAVELS PRIVATE LIMITED
480	U45200AP2006PTC051841	VISHWA TEJA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
481	U40108AP2007PLC052248	ABHISHEK THERMAL POWER INDIA LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
482	U40107AP2007PLC052273	YASH THERMAL POWER PROJECTS LIMITED
483	U91990AP2001PTC036420	SAI BIO ASSAY PRIVATE LIMITED
484	U51909AP2004PTC044042	JAKKAM IMPEX PRIVATE LIMITED
485	U72900AP2003PTC040475	BALAJI EDSOFT PRIVATE LIMITED
486	U15499AP2002PLC038308	EXTREME FOODS LIMITED
487	U55100AP2005PTC045595	MKR IMPEX PRIVATE LIMITED
488	U72200AP1999PTC033087	ADEPSOFT BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
489	U14292AP2007PTC055871	R.R. GLOBAL MINERAL IMPEX PRIVATE LIMITED
490	U74999AP1985PTC005258	SRI G S R DHAL MILLS PVT LTD
491	U65920AP1996PTC023311	REDDY AND REDDY FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
492	U70102AP1995PTC022709	SURYA JYOTHI REALTORS PRIVATE LIMITED
493	U65910AP1995PTC021777	DLS FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
494	U65921AP1995PTC021649	KUSUMAHARA FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
495	U65993AP1994PLC018278	SARITA FINANCE LTD
496	U67120AP1998PLC029490	BENGAL VASAVI CORPORATION LIMITED
497	U17100AP1998PTC029185	SURYANARAYANA TEXTILES PRIVATE LIMITED
498	U72200AP1997PTC027948	IVY INFOTECH PRIVATE LIMITED
499	U40109AP1997PLC027298	KENAF POWER AND INDUSTRIES LIMITED
500	U18100AP2000PTC035331	HANUMAN GINNING PRIVATE LIMITED
501	U24230AP1999PTC032949	KCK ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
502	U27109AP1999PTC032628	ESWARA WIRE AND INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
503	U40109AP1999PTC031663	SARITA POWER AND INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
504	U27100AP2007PTC056722	BIO HAZARD MANAGEMENT TECH PRIVATE LIMITED
505	U40107AP2006PTC051634	ALAMPARATHODU HYDRO POWER PROJECT PRIVATE LIMITED
506	U40109AP2006PTC051777	MUKKUTTATHODE HYDRO POWER PROJECT PRIVATE LIMITED
507	U65993AP2002PTC027077	SRI GANAPATHI VENKATESWARA EXTRACTIONS PRIVATE LIMITED
508	U15143AP2007PTC056514	SRI VASAVI VEGETABLE OILS PRIVATE LIMITED
509	U27200AP1996PTC023750	SAPTAGIRI FASTNERS PRIVATE LIMITED
510	U92111AP2002PTC038612	VADDE TELEFILMS PRIVATE LIMITED
511	U72200AP2000PTC034496	NSK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
512	U40109AP2004PTC044757	NSK POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
513	U14102AP2004PTC044657	NSK EXPORTS PRIVATE LIMITED
514	U72200AP2003PTC041913	SNS CYBERTECH PRIVATE LIMITED
515	U72200AP2003PTC041446	NISAI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
516	U45200AP1997PTC027101	SANAGAPALLI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
517	U55101AP1992PTC013894	RAMHITA E-STORAGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
518	U14102AP1988PTC008282	SRI RAGH DEEP STONE CRUSING PVT LTD
519	U24295AP1981PTC002968	DECCAN GELATINES PVT LTD
520	U74999AP1956PTC000568	WELCOME PRESS PVT LTD
521	U24231AP2002PLC038831	A1 BIO WONDERS LIMITED
522	U24110AP1999PTC031672	NATCO DRUGS AND FINE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
523	U72200AP2003PTC042122	SRIROHIN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
524	U45200AP2007PTC054212	WATERMARKE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
525	U70102AP2007PTC054243	WATERMARKE REALTY PRIVATE LIMITED
526	U65992AP1995PTC022583	RABADI CHIT FUND AND FINANCE PRIVATE LIMITED
527	U52520AP1998PTC030005	MATCHLESS NETWORK MARKETING (INDIA) PRIVATE LIMITED
528	U15209AP2000PTC033207	VENKATA RAMANA AGROTECH PRIVATE LIMITED
529	U24110AP1989PTC009800	LFM ENGINEERING PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
530	U92110AP2000PTC033742	TELUGU TALKIES.COM PRIVATE LIMITED
531	U72200AP2000PTC033613	CHEMVALUE .COM PRIVATE LIMITED
532	U72900AP2004PTC043130	DATALEXICON INFOSERVICES PRIVATE LIMITED
533	U72200AP1993PLC016779	MORSOFT INFOQUEST LIMITED
534	U65993AP1983PTC003930	TRITHANKAR INVESTMENTS PVT LTD
535	U52110AP1992PTC013696	SAHUWALA TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
536	U24239AP2005PTC048158	TRANS MEDIGEN PRIVATE LIMITED
537	U18100AP1997PLC027711	SREE SATYANARAYANA FABRICS LIMITED
538	U65993AP1992PTC014268	PRIKAL LEASING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
539	U72200AP2005PTC048317	GCG TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
540	U72400AP2005PTC045966	ORBIENT IMAGE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
541	U72900AP2004PTC044193	GRATUS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
542	U14102AP2006PTC049627	LOH MINERALS EXPORTS PRIVATE LIMITED
543	U74140AP1991PTC012913	N.V.P.ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
544	U72200AP1997PTC027545	SDB ADVANCED ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
545	U24230AP1995PTC020606	HY-PRO HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
546	U72900AP2003PTC041657	VISHWAM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
547	U45200AP2003PTC041076	AGASTYA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
548	U27109AP2004PTC044570	ANANDI STEELS PRIVATE LIMITED
549	U72200AP2006PTC050326	KONE SOFT PRIVATE LIMITED
550	U72200AP2000PLC035697	BALAJI INFORMATICS LIMITED
551	U24110AP1992PLC013758	PANDIT ALUUMINIUM COMPANY LIMITED
552	U74140AP1991PTC012880	DYCON CONSULTING ENGINEERS PRIVATE LIMITED
553	U01210AP1996PTC023684	SIVANI AGRO FARMS AND ESTATES PRIVATE LIMITED
554	U29219AP1998PTC029913	SRI RAMA KRISHNA TECHNO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
555	U21011AP1998PTC028851	L.B.P.R. ABRASIEVES PRIVATE LIMITED
556	U52520AP2003PTC041424	MOTHER INDIA NETWORK CONCEPTS PRIVATE LIMITED
557	U05005AP1991PTC013356	SEAWELL MARINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
558	U72200AP2000PTC034249	WONDER WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
559	U15201AP2002PTC039689	STYLUS FOODS PRIVATE LIMITED
560	U72900AP2002PTC038867	CORMIC SOFTWARE PRIVATE LIMITED
561	U24232AP2007PTC055074	ZANTHERA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
562	U73100AP2007PTC055997	GARC RESEARCH FOUNDATION PRIVATE LIMITED
563	U72200AP2007PTC053286	VISTA IT SERVICES PRIVATE LIMITED
564	U65910AP1986PLC006658	PHOENIX FINANCE AND LEASING LIMITED.
565	U26942AP1991PTC013542	VISAKHAPATNAM CEMENTS PRIVATE LIMITED
566	U72200AP2000PTC033384	BID INDIA.COM PRIVATE LIMITED
567	U92199AP1997PTC026532	FIVE MANDT TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
568	U72200AP2002PTC038596	3B TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
569	U72200AP2001PTC036847	FIVE M AND T MANAGEMENT AND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
570	U73100AP2005PTC047398	HYDERABAD SCIENTIFIC RESEARCH PRIVATE LIMITED
571	U92132AP2003PTC041526	EYE-MEDIA ANIMATION GRAPHICS PRIVATE LIMITED
572	U70109AP2007PTC054173	VVS REALTORS PRIVATE LIMITED
573	U80212AP1996PTC023176	NOUVELLE SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
574	U25200AP1996PLC024370	L-PACK POLYMERS LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
575	U72200AP1998PTC029082	DHARANA MONEY & TRAVELS PRIVATE LIMITED
576	U72200AP2001PTC036488	CALIBER TECHNOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
577	U74999AP1997PTC027355	VISWAJIT CASTINGS AND FABRICATIONS WORKS PRIVATE LIMITED
578	U65991AP1989PLC010682	NIRANTHARA ANNANYA SAHAYATA NIDHI LIMITED
579	U72200AP2004PTC044373	LIQUITH INFOTECH PRIVATE LIMITED
580	U72200AP2006PTC051211	TACME ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
581	U72200AP2007PTC054268	PANAX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
582	U65993AP1990PTC011038	ANISH AND ANISH CAPITAL INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICES PVT LTD
583	U24110AP2005PTC046973	PREMIER PROTOZYMES PRIVATE LIMITED
584	U65929AP1995PTC019296	TANDRA FINANCES PRIVATE LIMITED
585	U65999AP2006PTC051868	GIKR LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
586	U45200AP1993PTC015682	SUN SHINE PROPERTIES PVT LTD
587	U64203AP1998PTC030765	ESOTERIC SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
588	U70102AP2006PTC051922	SHSB LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
589	U70102AP2006PTC051905	SBSR LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
590	U70102AP2006PTC051853	IKR LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
591	U70102AP2006PTC051851	KRGV LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
592	U65999AP2006PTC051878	GSR LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
593	U17111AP2007PTC053115	SAPTHA SHIKHARA COTSPIN PRIVATE LIMITED
594	U55101AP1997PTC028610	THONDAMANATI RESORTS AND HOTELS PRIVATE LIMITED
595	U01110AP1996PTC023128	MANJALI AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
596	U72900AP2002PTC039069	C.V.J. CYBER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
597	U45200AP1988PTC008257	SANTOSHI CONSTRUCTIONS PVT LTD
598	U34300AP1998PTC029035	IMPERIAL MOTORS PRIVATE LIMITED
599	U01119AP2005PTC046251	TERA ORGANICS PRIVATE LIMITED
600	U31909AP1990PTC011664	A.R.CIRCUIT SYSTEMS PVT.LTD.
601	U72200AP2004PTC044676	VL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
602	U74999AP2007PTC054691	GHAR DECOR INDIA PRIVATE LIMITED
603	U72200AP2000PTC035042	MKG INFO SERVICES PRIVATE LIMITED
604	U85110AP2004PTC042379	KOUSALYA MEMORIAL HOSPITALS PRIVATE LIMITED
605	U24239AP2003PTC040504	MANIKANTA PHARMA PRIVATE LIMITED
606	U92111AP2006PTC049221	PIPAL TREE PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
607	U74210AP1997PTC028214	GARLAPATI ENGINEERS NIRMAAN PRIVATE LIMITED
608	U45201AP2001PTC036198	SANJANA HOUSING PRIVATE LIMITED
609	U74999AP2000PTC035778	WOLKEM ANDHRA MINING PRIVATE LIMITED
610	U40108AP2003PTC041582	RAIPUR THERMAL POWER PRIVATE LIMITED
611	U80101AP1996PTC023092	KABSONS TECHNOLOGY CENTRE PRIVATE LIMITED
612	U72200AP2005PTC045701	SVR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
613	U74200AP1997PTC044766	METRIKUS INDIA PRIVATE LIMITED
614	U05005AP2000PTC034065	MILLENIUM SEA FOODS PRIVATE LIMITED
615	U51909AP2004PTC044648	YATT EXPORTS PRIVATE LIMITED
616	U45201AP2006PTC050448	POSANI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
617	U74999AP2001PTC038067	RAMAKANTH ANIMATION PRIVATE LIMITED
618	U01111AP2001PTC036368	BASAVA AGRI-TECH PRIVATE LIMITED
619	U72900AP2003PTC041242	INTELLI QUEST SYSTEMS PRIVATE LIMITED
620	U65993AP2006PTC051207	OCIMUM SECURITIES PRIVATE LIMITED
621	U65921AP1993PLC016756	KOMANDOOR HIRE PURCHASE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
622	U15544AP1999PTC031268	HYDERABAD FRESH DESERT PRIVATE LIMITED
623	U65910AP1994PTC017504	NATH PETERS FINANCE PRIVATE LIMITED
624	U63040AP1991PTC013536	RONGALA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
625	U51225AP1998PTC030469	CPB SRIKAKULAM OIL MILLS PRIVATE LIMITED
626	U15499AP1983PTC004289	TASTY FOODS PVT LTD
627	U05005AP1986PLC004129	KAZA SEA FOODS LIMITED
628	U45200AP1989PTC009629	KEERTHI CONSTRUCTIONS PVT LTD.
629	U55101AP1988PTC009001	KAY-ARR-VEE-HOTELS PRIVATE LIMITED.
630	U99999AP1988PTC008359	PRANAVA TYPE SYSTEMS PVT LTD
631	U22110AP1985PTC005742	LAW SALES CO PVT LTD
632	U65910AP1996PTC023632	SURABHI BANSWADA LEAFINN PRIVATE LIMITED
633	U01110AP1995PTC022115	GODAVARI HYBRID BEEJ PRIVATE LIMITED
634	U01119AP1995PTC020384	ARIES AGRI TECH PRIVATE LIMITED
635	U65991AP1995PLC019846	VAASISTA PERMANENT FUND LIMITED
636	U10200AP1995PTC018574	MERICLONE BIOLUK PRIVATE LIMITED
637	U99999AP1994PTC018461	BHIMAS GUEST HOUSES PRIVATE LIMITED
638	U67120AP1994PTC017690	SURABHI HOLDINGS PVT LTD
639	U72900AP2001PTC036039	HUMMUS INFOWAY PRIVATE LIMITED
640	U72200AP2000PTC033975	VERNE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
641	U72200AP2000PTC033389	APARNA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
642	U45200AP1999PTC032468	PRAJNANPAD CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
643	U45200AP2006PTC048668	PRANAV HOMES PRIVATE LIMITED
644	U74999AP2006PTC051529	METRO PARKING INDIA PRIVATE LIMITED
645	U45400AP2007PLC055250	EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE INDIA LIMITED
646	U27104AP1991PTC012629	IMPRESSIVE METAL TOPS PRIVATE LIMITED
647	U15511AP2001PTC037894	ASHOK BIOTECH PRIVATE LIMITED
648	U72200AP2000PTC035330	EMERGENT INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED
649	U01119AP2005PTC046276	SURAKSHITA AGRO OIL PRIVATE LIMITED
650	U74140AP2005PTC047105	JAIPURIA BREAKTHROUGH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
651	U15142AP1999PTC032097	SRI SRINVIASA SEEDS PRIVATE LIMITED
652	U01122AP1980PLC002772	MULBERRY PLANTATIONS LTD
653	U32105AP1994PTC017275	KALIPATNAM TECHNOLOGY VENTURES PRIVATE LIMITED
654	U65910AP1996PTC023605	R.V. LEAFIN SERVICES PRIVATE LIMITED
655	U67200AP1995PTC021831	HARSHA PRANAV SECURITIES PRIVATE LIMITED
656	U27109AP2005PTC047309	LAKSHMINARASIMHA IRON AND STEELS PRIVATE LIMITED
657	U24123AP2004PTC043523	PADMAJA BIO SCIENCES AND ENERGY PRIVATE LIMITED
658	U72200AP2000PTC033410	HELP REQUEST.COM PRIVATE LIMITED
659	U45200AP2004PLC042769	GELIVII CONSTRUCTIONS LIMITED
660	U24219AP1998PTC028870	OSC AGRIGERM PRODUCTS PRIVATE LIMITED
661	U24219AP2004PTC043222	RAVA AGRO SERVICES PRIVATE LIMITED
662	U27109AP1990PTC011699	VARDHAN STEELS PRIVATE LIMITED
663	U63023AP2002PTC038932	AMARESHWARA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
664	U63022AP1992PLC014467	N.D.R.WARE HOUSING (INDIA) LIMITED
665	U72200AP1991PTC013367	ANI AND ABI COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
666	U29309AP1989PTC010247	ELLANTI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
667	U72200AP1996PTC025919	CMG SOFTWARE AND TRAINING PRIVATE LIMITED
668	U99999AP1996PTC025599	PROSPECTIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
669	U65910AP1996PTC024853	INODAYA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
670	U63023AP2002PTC038952	S.K.R. WAREHOUSING CO PRIVATE LIMITED
671	U63023AP2002PTC038950	BADRADRI WAREHOUSE MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
672	U63023AP2002PTC038948	SRI NEELAKANTESHWARA WAREHOUSING PRIVATE LIMITED
673	U63023AP2002PTC038933	COCONADA WAREHOUSING PRIVATE LIMITED
674	U45200AP1994PTC017252	A.K.BROTHERS ENGINEERING CONSTRUCTION PVT LTD
675	U24110AP1991PTC013484	NEBULAR ORGANICS PRIVATE LIMITED
676	U15209AP2001PTC036385	SHARATHCHANDRA FOODS PRIVATE LIMITED
677	U24232AP2006PTC051563	ADARSH FINECHEM INDIA PRIVATE LIMITED
678	U14100AP2005PTC048596	MALKUD STONE EXPORTERS PRIVATE LIMITED
679	U72200AP1999PTC031139	INTEGRATED ACCOUNTING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
680	U32106AP2007PTC054280	GADDE ELECTRONICS & COMPUTERS PRIVATE LIMITED
681	U74140AP2008PTC056979	RAMA KRISHNA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
682	U72400AP2005PTC046043	MANUMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
683	U63023AP2002PTC038951	SRI KANAKADURGA WAREHOUSING CO-ORDINATION AGENCIES PVT. LTD
684	U72900AP2008PTC058194	DAWN SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
685	U63022AP2004PTC043671	SAI RANGA COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
686	U72200AP2003PTC041013	LORION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
687	U24110AP1993PTC015621	SRI DARAPANENI CHEMICALS PVT LTD
688	U92111AP2001PTC037779	PVR DIGITAL AUDIO LABS PRIVATE LIMITED
689	U65992AP1983PTC003896	MAHANANDI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
690	U65993AP1981PTC003231	L H JEWELLERS PRIVATE LIMITED
691	U01120AP1986PTC006968	VIDYA AGRO FARMS PVT. LTD.
692	U70102AP1995PTC021355	LABHAM ESTATES PRIVATE LIMITED
693	U45201AP1995PTC019786	STONY CARTER CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
694	U51398AP1997PTC028389	K.S.ORNAMENT EXPORTS PRIVATE LIMITED
695	U65992AP1996PLC026039	PADMAJYOTHI FINANCE AND CHIT FUND LIMITED
696	U72900AP2002FTC039670	APPIQ TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
697	U72900AP2002PTC039073	PROTEOMIC SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
698	U45200AP2005PTC047259	VISWANATH BUILDING MATERIALS PRIVATE LIMITED
699	U65993AP1995PTC019284	SINDOL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
700	U52520AP2006PTC049157	RRR MEGA SECURITY PRIVATE LIMITED
701	U55101AP2006PTC050216	LAHIRI SERVICES PRIVATE LIMITED
702	U72300AP2007PTC053138	GEOINTELLIGENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
703	U72200AP2008PTC057452	SERVICEBYTE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
704	U80301AP1992PLC013910	PATHANJALI GURUKULAM LIMITED
705	U01222AP2003PTC042026	RAMPRASAD POULTRIES PRIVATE LIMITED
706	U64201AP2001PTC038018	FLAIR COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
707	U74999AP2004PTC044836	ANANTH IMPEX PRIVATE LIMITED
708	U74140AP1999PTC032189	VENKEE TECHNO COMMERCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
709	U45200AP2001PTC036842	K.G.R. PROJECTS PRIVATE LIMITED
710	U45400AP2007PTC054110	HARINI AVENUES PRIVATE LIMITED
711	U72200AP2000PLC034887	ARJ DOTCOM TECHNOLOGIES LIMITED
712	U01110AP1996PTC023256	TAPARIA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
713	U52339AP2005PTC048384	VERSA HEALTHCOOKSYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
714	U55209AP2007PTC052927	ASHTA VINAYAK RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
715	U18100AP1994PLC017793	VISA TEXPORTS LTD,

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
716	U72200AP2007PTC054030	SCIONTECH ITES PRIVATE LIMITED
717	U74999AP2006PTC050334	GM SCIGEN INDIA PRIVATE LIMITED
718	U65993AP1992PTC014866	PSR FINANCE AND INVESTMENT PVT. LTD.
719	U67190AP2007PTC056779	BEACON WEALTH ADVISORS PRIVATE LIMITED
720	U29299AP1995PTC019193	SHETTY'S PROCESS EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
721	U13209AP2002PTC038618	NEPHTECH MINERALS PRIVATE LIMITED
722	U65910AP1986PTC006199	MUSADDILAL LEASING AND INVESTMENTS PVT LTD
723	U65993AP2000PTC035884	BAGYA LAXMI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
724	U36911AP2004PLC044864	ANDHRA PRADESH GEMS AND JEWELLERY EXPORTS LIMITED
725	U45200AP2007PTC053909	SRI LAKSHMI TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
726	U01119AP2005PTC047894	VVT AGRITECH PRIVATE LIMITED
727	U85110AP2003PTC040864	SYNAPSE CARE HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
728	U72200AP2007PTC053908	SAKYA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
729	U72200AP2007PTC055739	AGILE TECHNOLOGIESPRIVATE LIMITED
730	U40109AP1999PTC032023	CRST POWERGEN PRIVATE LIMITED
731	U10102AP2004PTC044592	SRIPARNA FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED
732	U15429AP2003PTC042304	NIZAMABAD BIO INDUSTRIES PVT LIMITED
733	U51398AP2003PTC041460	RATNARAJ BULLIONS PRIVATE LIMITED
734	U72200AP2002PTC039959	AGARA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
735	U72200AP2007PTC052778	G.D. CYBER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
736	U45200AP2007PTC055013	NAASTITHA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
737	U85110AP2000PTC034799	DR'S HEALTHWAVE PRIVATE LIMITED
738	U27109AP1994PTC016967	VAMSI ENTERPRISES PVT LTD
739	U01210AP1994PTC018421	WHITELINE AQUA PRIVATE LIMITED
740	U92111AP1998PTC028895	HYDERABAD TELEVISION PRIVATE LIMITED
741	U52520AP1987PTC007724	RECHARLA MARKETING SERVICES PVT LTD
742	U63023AP2002PTC038854	T.S.R. WAREHOUSING CO PRIVATE LIMITED
743	U63023AP2002PTC038949	SIMHADRI WAREHOUSING COMPANY PRIVATE LIMITED
744	U65910AP1988PTC008875	SRI PADMAJA LEASING AND HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED
745	U14102AP1989PTC009771	SAVITRA GRANITE PVT LTD
746	U24239AP1995PTC040649	TRIBUTE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
747	U24239AP1994PTC018757	SURAJ DRUGS PRIVATE LIMITED
748	U65910AP1996PTC024131	SNEHA LEAFIN PRIVATE LIMITED
749	U52520AP1989PTC010037	KAY KAY DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
750	U01119AP1995PTC019755	SRI KALYAN AGRO SERVICES PRIVATE LIMITED
751	U74130AP1998PTC029004	SURYA PRAKASH HOME SHOPPING PRIVATE LIMITED
752	U29300AP1980PTC002866	EKASHILA,ELECTRONICS SSYSTEMS PVT LTD
753	U72200AP2002PTC039823	STAR RAAZ INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
754	U72200AP1994PLC017626	INTERNET COMMUNICATIONS INDIA LIMITED
755	U01111AP1996PTC024405	RANGASAI AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
756	U24110AP1991PLC012765	FRANCO LABS LIMITED
757	U65992AP1998PTC028805	JAGADANANDA CHITS PRIVATE LIMITED
758	U63022AP1991PTC013285	NALINI COLDSTORAGE PRIVATE LIMITED
759	U15499AP1990PTC012085	INDENTO FOODS PRIVATE LIMITED
760	U15205AP1996PTC023531	WONDER FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
761	U15100AP1997PTC026702	KINDER FOODS PRIVATE LIMITED
762	U51909AP1990PTC010933	VINAYA APPAREL EXPORTS PVT.LTD.
763	U70102AP2006PTC051892	PLATEAU LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
764	U70102AP2006PTC052147	KRBSB ESTATES PRIVATE LIMITED
765	U70103AP2007PTC052198	LEPUS LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
766	U65999AP2006PTC051914	SOMKRB LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
767	U65999AP2006PTC051867	KRAMB LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
768	U70102AP2006PTC051852	KRBHUPAL LAND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
769	U65992AP1995PTC021415	OM SAI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
770	U65990AP1996PTC024306	MANGALAGIRI INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
771	U65910AP1996PTC024312	JUGAL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
772	U24119AP2006PTC050205	DENISCO SPECIALITY CHEMICALS PRIVATE LIMITED
773	U72200AP1996PTC022788	PIXCEL COMPUTERS PRIVATE LIMITED
774	U01119AP2006PTC050622	PARMAR AGRO SEEDS PRIVATE LIMITED
775	U29308AP2003PTC041952	HONEYBEE APPLIANCES AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
776	U65992AP1995PTC022581	ESSBEE CHIT FUND PRIVATE LIMITED
777	U45201AP1999PTC032907	SREEJES REALTORS PRIVATE LIMITED
778	U72200AP1995PTC021552	NIZAMABAD COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
779	U15143AP1995PLC020597	SURANA OILS AND DERIVATIVE (INDIA) LIMITED
780	U72200AP1999PTC032059	SOFTALIA TELE SERVIES PRIVATE LIMITED
781	U15543AP1996PTC025208	EVERGREEN AQUA MINERALS PRIVATE LIMITED
782	U01210AP1983PTC004351	ASHWANI AGRO-ENTERPRISES PVT LTD
783	U24129AP2001PTC038205	DENKA BIOTECH PRIVATE LIMITED
784	U72200AP2006PTC049207	KRITHA TECHSOFT PRIVATE LIMITED
785	U72200AP2007PTC052647	VENTURE AUTOMOTIVE DESIGN AND ENGINEERING INDIA PVT. LIMITED
786	U01119AP2004PTC042896	VASAVI FARMS PRIVATE LIMITED
787	U74999AP2007PTC054176	BALAJI MOBILES INDIA PRIVATE LIMITED
788	U40102AP2007PTC056199	SHRESHT ENERGY PRIVATE LIMITED
789	U72200AP1998PLC030026	ROCKSHINE DATACOM LIMITED
790	U65992AP1996PTC025269	ARAVIND FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
791	U01122AP1988PTC008731	I M L SEEDS PVT LTD
792	U72200AP2000PTC034039	TEMA SYSTEMS INFOTECH PRIVATE LIMITED
793	U18209AP1997PTC027984	SAMEEN'S LEATHER GARMENTS PRIVATE LIMITED
794	U45200AP2007PTC053224	ADITYA AVENUES PRIVATE LIMITED
795	U45200AP2007PTC053245	ADITYA SKYSCRAPERS PRIVATE LIMITED
796	U45200AP2007PTC053227	ADITYA EDIFICE PRIVATE LIMITED
797	U72200AP1997PTC026515	SABRI COMPUTER EDUCATION PRIVATE LIMITED
798	U72200AP2000PTC035243	SPARKLESPACE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
799	U72200AP2006PTC049158	TRITON INTEGRATED SYSTEMS PVT LTD
800	U72200AP2005PTC047516	HNS HORIZON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
801	U80300AP1996PLC023330	SPRINGLAND EDUCATIONAL ACADEMY LIMITED
802	U45200AP1995PTC022230	VRS ENGINEERS PRIVATE LIMITED
803	U72200AP2001PTC036931	R.B.R. INFONET PRIVATE LIMITED
804	U45200AP2003PTC041253	SUNANDANA HOMES PRIVATE LIMITED
805	U24232AP2007PTC054964	CHANELLE MEDICAL PRIVATE LIMITED
806	U24239AP2005PTC045959	LALIT LIVE SCIENCES PRIVATE LIMITED
807	U45200AP1997PTC027336	SMD CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
808	U24110AP1987PTC007133	COASTAL CARBONATES PVT. LTD.
809	U85110AP1991PTC012565	GODAVARI CT SCANNING CENTRE PRIVATE LIMITED
810	U40109AP2006PTC052062	T V R POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
811	U65993AP1990PLC011057	SURYACHANDRA INVESTMENTS LIMITED
812	U52110AP1994PTC017411	WARNER MARKETING PVT LTD
813	U51909AP2002PTC039203	INGLO TRADING PRIVATE LIMITED
814	U01119AP2003PTC041364	V.S. UDYAN PRIVATE LIMITED
815	U72200AP2005PTC047024	SENTIEN DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
816	U45200AP2005PTC045586	AAISHANI DESIGN VENTURES PRIVATE LIMITED
817	U45203AP2006PTC050808	WOODRIDGE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
818	U74999AP2007PTC052284	SOURCE ONE CONSULTING PRIVATE LIMITED
819	U63030AP2007PTC053761	NEO SHIPPING AND OFFSHORE SERVICES PRIVATE LIMITED
820	U65990AP1994PLC018379	INTEGRATED FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES LIMITED
821	U18209AP1993PTC015999	SUDAM LEATHERS PRIVATE LIMITED
822	U92111AP1978PTC002381	JANAPRIYA FILMS PVT LTD
823	U63022AP1981PTC003147	PMG COLD FORMING PVT LTD
824	U24239AP1981PLC003005	CAFFINHAL ORGANIC AND PHARMACEUTICALS LTD
825	U52510AP2004PTC042746	MANGO OUTSOURCING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
826	U19201AP2003PTC040209	ALEKHYA LEATHERS PRIVATE LIMITED
827	U13209AP1989PLC009766	CCL POWER LIMITED
828	U15142AP1984PTC004506	RAMAA COTTON AND OIL MILLS PVT LTD
829	U16003AP1964PTC000985	STAR TOBACCO CO INDIA PVT LTD
830	U52301AP1958PTC000796	GREAT EASTERN ENTERPRISES PVT LTD
831	U16009AP1999PTC032642	VASUDHA TOBACCO COMPANY PRIVATE LIMITED,
832	U24231AP2003PTC040207	AVIVA BIOTECH PRIVATE LIMITED
833	U45201AP2000PTC035820	NAUSHABA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
834	U67120AP2000PTC035763	AYESHA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
835	U36911AP2005PTC046054	AMARAVATHI STOCKINVEST PRIVATE LIMITED
836	U73100AP2004PTC042688	MCCORMICK PHARMA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
837	U72200AP2001PTC037187	MUSIKA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
838	U01119AP2005PTC047601	VENCHI AGROFARMS PRIVATE LIMITED
839	U73100AP2007PTC054052	AADITYA LASER FABS PRIVATE LIMITED
840	U17119AP1991PTC013448	VENKATA RANGA TEXTILES PRIVATE LIMITED
841	U22110AP2005PTC047078	COSMIC GRAPHICS AND DESIGNS PRIVATE LIMITED
842	U21012AP1991PTC013215	INDO GULF PAPER BOARD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
843	U31300AP2003PTC040700	SRI MARUTHI RAGHAVENDRA METALS PRIVATE LIMITED
844	U72200AP2007PTC052748	BAISYS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
845	U65910AP1993PTC016487	SWARNASREE FINANCE AND LEASING PVT LTD
846	U20219AP2004PTC044272	CORAL MODULAR FURNITURE PRIVATE LIMITED
847	U27109AP2005PTC048113	SRI SAI SARASWATHI SPONGE IRON INDIA PRIVATE LIMITED
848	U34102AP2005PTC047175	JUGGERNAUT MOTORS PRIVATE LIMITED
849	U72200AP2005PTC046761	ISMT BPO TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED
850	U72200AP2005PTC046760	IA E2E SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
851	U15541AP2006PTC051115	VIJAYABHERI FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
852	U74140AP2006PTC051132	SG IT RECRUITERS HUB PRIVATE LIMITED
853	U14200AP2007PTC055370	GRAN MECHE IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
854	U45200AP2008PLC057489	DIAMOND LIFE PROPERTIES LIMITED
855	U72100AP1993PTC015593	ASPEN TECHNOLOGIES PVT LTD
856	U65922AP1996PTC025386	SWASTIK SRI SAI CHITS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
857	U65992AP1995PTC019603	SRI SAI RAGHAVA CHIT FUNDS AND FINANCE PRIVATE LIMITED
858	U15209AP1997PTC028056	LALITHA VYSHNAVI MILKS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
859	U01119AP2001PTC036106	SERENE MEADOWS PRIVATE LIMITED
860	U63040AP2006PTC049155	JN HOLIDAYS AND TRAVEL SERVICES PRIVATE LIMITED
861	U74999AP2006PTC051755	MYLIFE FINANCIAL SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
862	U52520AP1987PTC007984	SHIVLAL MOTILAL DISTRIBUTORS PVT LTD
863	U65921AP1994PTC017543	BANSAL FINANCIAL SERVICES PVT LTD
864	U18100AP1991PTC012848	B.S.TEXTILES PRIVATE LIMITED
865	U55100AP1996PTC024193	AGRA-WALA (INDIA) PRIVATE LIMITED
866	U63040AP2006PTC048726	FUNDOO TRAVEL AND TOURS PVT LTD
867	U31200AP2006PTC051503	ASIAN RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
868	U33119AP2004PTC043990	STAR TRENDS IN ANALYTICAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
869	U40100AP2005PTC045607	CHAHANA POWERGEN PRIVATE LIMITED
870	U65990AP1995PLC020487	BHAVYA CAPITAL SERVICES LIMITED
871	U99999AP1995PTC020270	SATHYA LITHOTREPY CENTRE PRIVATE LIMITED
872	U52520AP2005PTC048563	SOLE PROPERTIES PRIVATE LIMITED
873	U01122AP1998PTC028730	SAMPOORNA SEEDS PRIVATE LIMITED
874	U61100AP2003PTC042309	PROLINE SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED
875	U72200AP2001ULT036207	HEALTHTRAX SYSTEMS PRIVATE LIMITED
876	U74999AP2000PTC035851	COASTAL SURVEYORS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
877	U71120AP1997PTC026689	SEAWAYS ORAM SHIPPING PRIVATE LIMITED
878	U70102AP1987PTC008030	RAMAIAH ESTATES PVT LTD
879	U70102AP1987PTC008029	DEVI ESTATES PVT LTD
880	U70102AP1987PTC008026	VISAKHA PROPERTIES PVT LTD
881	U51219AP1994PTC016828	AKSHAYA AGRO PRODUCTS PVT LTD
882	U72200AP1998PTC030725	MANSITA CONSULTING PRIVATE LIMITED
883	U55103AP2001PTC036544	KAPIRAAJA HIGHWAY MOTELS PRIVATE LIMITED
884	U45200AP2004PTC044449	PMR CONSTRUCTIONS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
885	U70109AP1999PTC031911	PROS AND CONS ESTATES PRIVATE LIMITED
886	U45200AP1982PTC003726	BADRUKA CONSTRUCTIONS PVT LTD
887	U51909AP1995PTC022494	DHRUV DARSHAN PHARMA PRIVATE LIMITED
888	U72200AP2007PTC056481	PIXEL IT SERVICES PRIVATE LIMITED
889	U24239AP1990PTC011576	SIRI PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
890	U72200AP2003PTC041689	ADHUNA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
891	U24119AP1984PTC004879	THALATES INDIA PVT.LTD.
892	U05005AP1994PTC016984	CRUSTACEA AQUA FARMS PVT LTD
893	U26914AP1997PTC027726	SRI SESHADRI CEMENTS PRIVATE LIMITED
894	U05004AP2001PTC036477	DEVI FEEDS PRIVATE LIMITED
895	U55101AP2005PTC045538	PUJARI HOTELS PRIVATE LIMITED
896	U27310AP2007PTC055801	VIZAG ISPAT AND ALLOYS PRIVATE LIMITED
897	U72200AP1987PTC007326	OPTIMA COMPUTER PVT LTD
898	U45200AP2007PTC053889	SREE TIRUMALA SAI HOMES AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
899	U85110AP1990PTC012002	SALUJA HOSPITALS PVT.LTD.
900	U65921AP1995PLC021823	CONTI FIN LIMITED
901	U65992AP1997PTC027067	PRANTIYA CHITS PRIVATE LIMITED
902	U74140AP2002PTC039438	CLR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
903	U45200AP1999PTC031169	VISHNUTEJA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
904	U52520AP2003PTC041231	CJP TRADING PRIVATE LIMITED
905	U72200AP1996PTC025044	SYNFOLYNX BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
906	U74900AP2007PTC054623	HBL ELECTRIC DRIVES PRIVATE LIMITED
907	U85195AP1996PLC024932	AMARAVATHI DIAGNOSTICS LIMITED
908	U63040AP1996PTC023663	ABHISHEK TRAVELS PRIVATE LIMITED
909	U14102AP2005PTC045200	RUKMA GRANITES PRIVATE LIMITED
910	U17112AP2005PTC047320	CHANDRASEKHARA SARASWATHI SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
911	U72200AP2007PTC055615	FOUR SQUARE SOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
912	U67120AP1989PTC010707	RICHIMEN INVESTMENTS PVT. LTD.
913	U18100AP1992PLC014873	RICHIMEN POLYESTER LTD.
914	U15120AP1992PLC014872	RICHIMEN BREWERIES LTD.
915	U72200AP2000PLC033304	RUMAT SOFTWARE DEVELOPMENT LIMITED
916	U24239AP2005PTC046238	PRASAD DRUGS PRIVATE LIMITED
917	U65910AP1987PTC007966	HYDERABAD FINANCE PVT LTD
918	U15209AP1996PTC025300	SOWMYA DAIRY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
919	U21012AP2008PTC057507	JAI BHAVANI BAMBOO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
920	U74999AP2008PTC058082	STACKLINE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
921	U65992AP1982PTC003451	SHALIVAHAU CHIT FUND PVT LTD
922	U65910AP1995PLC022052	PCS HI-FIN LIMITED
923	U65992AP1994PTC017378	KIRANKRISHNA CHITS AND FINANCE PVT LTD
924	U72200AP2005PTC048298	SOFTWARE NUCLEUS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
925	U15311AP2006PLC050962	PCS PAR BOILED RICE MILLS LIMITED
926	U72200AP2000PTC035391	VIZAG TRAVELS PRIVATE LIMITED
927	U65992AP1995PTC022517	SAMBHAVNATH CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
928	U72200AP1987PTC007664	ENIAC SOFTWARES PRIVATE LIMITED
929	U85110AP2001PTC036243	DURGABAI HEART CENTRE PRIVATE LIMITED
930	U72200AP2005PTC047770	ANZAC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
931	U14103AP2006PTC048719	ANZAC GRANITE EXPORTS PVT LTD
932	U72200AP2007PTC055447	SALIX SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
933	U60100AP1996PTC024898	VIJAYA DURGA TRANSPORTS PRIVATE LIMITED
934	U36911AP1996PTC024305	COASTAL DIAMONDS PRIVATE LIMITED
935	U26932AP1995PTC021152	SAI BHAVANI ENGINEERING AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
936	U63040AP1999PTC031404	SAHIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
937	U70102AP2002PTC039156	GRUHAPRIYA ESTATES PRIVATE LIMITED
938	U63040AP2000PTC033932	KANAKAMAHALAKSHMI TRAVELS PRIVATE LIMITED
939	U999999AP1988PLC008373	MIDWEST MUTUAL FUND LIMITED
940	U27101AP1996PLC023774	MARS BUSINESS SERVICES LIMITED
941	U72900AP2002PTC038688	BPS NEW GEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
942	U14102AP2001PTC037024	D.R. GRANITE (NELLORE) PRIVATE LIMITED
943	U45200AP2005PTC047676	PRERANASAI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
944	U80101AP1996PTC022901	S.V.K.HOSPITALS PRIVATE LIMITED
945	U65993AP1996PTC022900	L.V.K. FINANCE PRIVATE LIMITED
946	U72200AP1998PTC030377	SECANT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
947	U51500AP1997PTC027763	SAMYUKTA RESOURCES TRADERS PRIVATE LIMITED
948	U74140AP1986PTC006300	FORTUNA MANAGEMENT CONSULTANTS PVT LTD
949	U05000AP1996PTC023765	KAMAL FISHNETS PRIVATE LIMITED
950	U05004AP1986PTC006760	COROMANDEL FISHING NETS PRIVATE LIMITED
951	U15209AP1998PTC029058	SOMA-SURYA AGRO (INDIA) PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
952	U17116AP1995PTC019564	SHEELUTEX PRIVATE LIMITED
953	U72200AP2003PTC041836	FRACTAL SMITHS SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
954	U72200AP2006PTC052066	FOTO LINK INDIA PRIVATE LIMITED
955	U21020AP2001PTC036229	KANHAN PAPERSS PRIVATE LIMITED
956	U23209AP1983PLC004065	KINGSWAY AUTO SERVICES INDIA LIMITED
957	U15499AP1997PTC027058	SAMPRE CANDY COMPANY PRIVATE LIMITED
958	U18101AP1996PTC025808	HYDERABAD SAREE HOUSE PRIVATE LIMITED
959	U74920AP1999PTC031459	KINNERA DETECTIVE AGENCY (INDIA) PRIVATE LIMITED
960	U72200AP2005PTC047047	I7 TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
961	U65992AP1992PTC015153	PARIYADA CHIT FUNDS AND FINANCE PVT LTD
962	U74999AP2006PTC050211	VIMLA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
963	U55101AP2006PTC051700	FOUR BY FOUR HOTELS (INDIA) PRIVATE LIMITED
964	U80904AP2006PTC052178	TECHNIKON EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
965	U45209AP2007PTC053962	KATLA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
966	U93000AP2007PTC056375	SRESHTA HR SERVICES PRIVATE LIMITED
967	U72200AP2000PTC034328	S.S. INFOCRATS PRIVATE LIMITED
968	U24231AP2002PTC039721	SUBHALA AYURVEDIC AND COSMETICS PRIVATE LIMITED
969	U31300AP1988PTC008976	PAYAL WIRES PRIVATE LIMITED.
970	U52520AP1987PTC007566	VICTOR MARKETING PVT LTD
971	U74900AP2007PLC054493	SPECVIEW IMPEX INDIA LIMITED
972	U72200AP1994PTC018133	RELEVANT TECHNOLOGIES PVT LTD
973	U72200AP1996PLC023356	JP MOBILE (INDIA) LIMITED
974	U72200AP2000PLC033498	PIONEER ISERVE LIMITED
975	U72200AP2003PTC040536	PRENGG SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
976	U27109AP2002PTC040125	QUEST MINERALS PRIVATE LIMITED
977	U27100AP2007PTC056323	ANSORA STEELS PRIVATE LIMITED
978	U65992AP2000PTC033793	BUDDHATVA CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
979	U80100AP1999PTC030893	MINERVA SOFTECH PRIVATE LIMITED
980	U27109AP1982PLC003623	KAPADIA IRON AND STEEL CASTINGS LTD
981	U32104AP2006PTC051177	SEMINDIA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
982	U60210AP2004PTC044921	GGI TRAVELS PRIVATE LIMITED
983	U72200AP2004PTC044715	GGI INFOTECH PRIVATE LIMITED
984	U24230AP1981PTC003326	ANDHRA IMMUNOCHEMICALS PRIVATE LIMITED
985	U65993AP1995PTC019347	NAVRAM INVESTMENT AND FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
986	U65990AP1996PTC024072	INOX SECURITIES PRIVATE LIMITED
987	U74210AP1988PTC008848	HYDERABAD DEVELOPERS PVT LTD.
988	U85110AP2001PTC037204	ISKAS HOSPITALS PRIVATE LIMITED
989	U15112AP2007PTC056337	PRANEETHA FOODS PRIVATE LIMITED
990	U65191AP2008PTC057267	PRANEETHA FOREX PRIVATE LIMITED
991	U24239AP2005PTC048350	RELIABLE FORMULATIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
992	U92111AP1991PTC012229	SATYASREE MOVIES PVT. LTD.
993	U52520AP1995PLC021344	GLOBAL TRUST EXPORTS LIMITED
994	U65910AP1994PTC018890	SATHYA KAMAL FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
995	U01122AP2003PTC040244	DHRUVA SEEDS PRIVATE LIMITED
996	U74140AP1992PTC013859	CHARTech CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
997	U01229AP2003PTC042164	SUNSPICE AGRO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
998	U72200AP2001PTC037753	SIREESHA INFOWAYS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
999	U74120AP2007PTC053438	BHARADWAJ ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1000	U65910AP1995PTC020864	AMS FINLEASE PRIVATE LIMITED
1001	U65992AP1982PTC003399	GOLCONDA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1002	U65992AP1972PTC001543	ANARKALI CHIT FUND PVT LTD
1003	U63040AP1971PTC001404	SUPERSONIC TRAVELS PVT LTD
1004	U45200AP1990PTC010858	PARAMOUNT COLONISERS PVT LTD
1005	U65993AP1989PTC010219	SECUNDERABAD INVESTMENTS PVT. LTD.
1006	U72200AP1999PTC032003	PLEXUS SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1007	U74120AP2004PTC043947	DRAVYA ACCOUNTING PRIVATE LIMITED
1008	U29253AP2003PTC042209	AHARA ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1009	U63040AP2003PTC041865	SHREYAS ROADWAYS PRIVATE LIMITED
1010	U74999AP1997PTC027244	MANZ TRADING PRIVATE LIMITED
1011	U65990AP2004PTC043558	VASANT FINANCIAL TRANSACTIONS PROCESSING PVT LIMITED
1012	U31402AP2001PLC036057	HI-WATT POWER SYSTEMS LIMITED
1013	U72200AP2007PTC054893	ARSH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1014	U74999AP2006PTC052162	SIRI TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
1015	U29220AP2007PTC053830	E-MAN ENGINEERING TOOLS PRIVATE LIMITED
1016	U29309AP1998PTC030705	S.S.M SOFTWARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1017	U34100AP1996PTC023686	HYDERABAD WHEEL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1018	U15205AP2003PTC040588	LALWANI CANDY COMPANY PRIVATE LIMITED
1019	U72900AP2007PTC054753	YUREEKA INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED
1020	U70102AP2005PTC047621	SURYAVAMSHI BUILDERS PRIVATE LIMITED
1021	U72200AP2004PTC043445	RAYALA SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1022	U01119AP1996PLC025361	DECCAN LIVE STOCK AND AGRO PLANTATIONS LIMITED
1023	U65910AP1996PLC025062	DECCAN HIREFIN SERVICES LIMITED
1024	U65910AP1996PLC023433	DECCAN FINLEASE SERVICES INDIA LIMITED
1025	U72200AP1999PTC032814	SLICE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.
1026	U45200AP1991PTC013368	DEEPTHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1027	U45201AP2001PTC036683	INVOTECH CONSTRUCTIONS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1028	U45200AP2006PTC050645	RESILIENT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1029	U65993AP1900PTC004593	INTEL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1030	U74140AP2005PTC045418	ENSINE CONSULTING PRIVATE LIMITED
1031	U51909AP2000PTC034672	GAGANSS MILLENNIUM EXPORTS PRIVATE LIMITED
1032	U85310AP2005PTC048376	KIMS GREENLEAF HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1033	U29299AP2004PTC043533	AMOGH MICRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1034	U65993AP1996PLC022774	SRINIDHI LEAFIN LIMITED
1035	U18209AP1996PTC022857	RABDA KARAM LEATHERS PRIVATE LIMITED
1036	U72200AP1999PTC033180	EVERYONE'S LINUX PRIVATE LIMITED
1037	U01222AP1996PTC022741	UMAMAHESWARI FARMS PRIVATE LIMITED
1038	U72200AP1999PTC032497	SEER SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1039	U51215AP1994PLC018657	INNOVATIVE EXPORTS FLOWERS LIMITED
1040	U65992AP1996PTC025868	SAI SUDHEENDRA CHIT-FIN PRIVATE LIMITED
1041	U65921AP1994PTC018822	SARATH SAI CONSTRUCTIONS AND ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1042	U15412AP2008PTC057091	CHIGURUPATI NOURISHMENT PRIVATE LIMITED
1043	U63040AP2003PTC041932	ANUSHA TRAVELS PRIVATE LIMITED
1044	U72200AP2002PTC039491	KNOWLEDGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1045	U18100AP2005PTC046095	SRIDAH APPARELS PRIVATE LIMITED
1046	U74994AP1996PLC024940	M.K.TEAM INTERIORS LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1047	U65993AP1992PTC014054	MACRO INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1048	U65910AP1996PTC024919	NEST FINVEST PRIVATE LIMITED
1049	U51397AP2002PLC038749	A1 HEALTH WONDERS LIMITED
1050	U45200AP2004PTC044760	MIZZLING SHELTER ESTATES PRIVATE LIMITED
1051	U21012AP2005PTC048078	A AND S ECO PAPER PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED
1052	U72200AP2004PTC042803	BIZTUNE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1053	U72200AP1999PTC031949	HUB NETWORKS PRIVATE LIMITED
1054	U01403AP2006PTC052102	STARA AGRICO PRIVATE LIMITED.
1055	U14102AP1990PTC011214	WINTEK GRANITES PVT LTD
1056	U32300AP1988PTC009387	STANDARD STABILISERS AND STEARATED PVT LTD
1057	U45200AP2003PTC040474	SRI VENKATAKRISHNA REALTORS PRIVATE LIMITED
1058	U45200AP2005PTC045554	CREAT VIEW BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1059	U72200AP2008PTC057986	MM CYBER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1060	U01111AP1995PLC020742	DECCAN GREEN FIELDS LIMITED
1061	U72200AP2000PTC033309	HEMADRI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1062	U18101AP2005PTC046833	SRV APPARELS PRIVATE LIMITED
1063	U63040AP2006PTC049003	SARAL HOLIDAY TOURS (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED
1064	U65993AP1991PTC013326	MONITA FINANCE AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1065	U51909AP1998PTC029523	AFFABLE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1066	U51500AP1997PTC027382	SPARSHA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1067	U72200AP2002PTC039903	NS IT CONSULTING PRIVATE LIMITED
1068	U24230AP2005PTC048424	C S K BIO IT REMEDIES PRIVATE LIMITED
1069	U74300AP2004PTC043764	CAL-ON ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
1070	U92100AP2007PTC056760	LARK STUDIOS PRIVATE LIMITED
1071	U29219AP1992PLC014383	PRUDHVI INTERNATIONAL LIMITED
1072	U72200AP2000PTC034120	PRECIOUS IT PRIVATE LIMITED
1073	U72200AP2000PTC034094	HASA IMPEX PRIVATE LIMITED
1074	U72200AP2006PTC051572	NAVARAGA INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1075	U25209AP2000PTC035475	MILLENIUM MOULD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1076	U72200AP1997PLC027619	TRIORD TECHNOLOGIES LIMITED
1077	U65991AP1996PTC025899	SAI LEAFIN PRIVATE LIMITED
1078	U70102AP1989PTC010767	ANNAPOORNA BUILDERS PVT LTD
1079	U15139AP1994PTC017172	ITV AGRO TECHNOLOGIES PVT LTD
1080	U45200AP2007PTC053364	SHARMILA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1081	U01222AP1997PTC028500	DASARAJU EXIM PRIVATE LIMITED
1082	U72200AP2003PTC041206	ANAKIN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1083	U01120AP1996PTC024891	GREENDALE INTEGRATED FARMING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1084	U24239AP2006PLC048731	TATINENI HEALTH CARE LIMITED
1085	U24239AP2005PTC047753	INTERSINT LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
1086	U01110AP2006PTC051612	BHADRAGIRI FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1087	U65991AP1990PLC011371	SRI SATHYA SAI BENEFIT SOCIETY LIMITED
1088	U22300AP1996PLC025034	TOSSEX INFOTECH LIMITED
1089	U74140AP1987PTC008093	DELPHI HIGH TECH CONSULTANTS PVT LTD
1090	U52609AP2002PTC039034	SWAMSAR INDUSTRIAL AND FACILITIES SERVICES PRIVATE LIMITED
1091	U74140AP2006PTC049603	BOBBYS ALPHA VERIFICATIONS AND PLACEMENT SOLUTIONS PVT. LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1092	U74900AP2007PTC055051	PRECAST DESIGN AND ENGINEERING SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
1093	U55101AP1992PLC014007	P.S.R. HOTELS PRIVATE LIMITED
1094	U18101AP1991PLC012609	VIJAY APPARELS LIMITED
1095	U67120AP1996PTC023574	CHOLA SECURITIES PRIVATE LIMITED
1096	U15142AP2005PTC045976	SANKARA NAGAR BIO FUELS PRIVATE LIMITED
1097	U15200AP2005PTC045975	SHANKAR NAGAR DAIRY FARMS PRIVATE LIMITED
1098	U85110AP2004PTC044638	DECCAN SURGICALS PRIVATE LIMITED
1099	U74130AP1995PTC019699	MORI INDIA PRIVATE LIMITED
1100	U24119AP1984PTC004570	KISHORE ORGANICS PVT LTD
1101	U65992AP1997PTC026388	KARUMANCHI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1102	U24119AP1995PLC019970	FIRSTLINE PHARMA LIMITED
1103	U74130AP1997PTC027595	DR. PRASAD'S ENVIRONMENTAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1104	U74210AP2003PTC041281	ASRS PROJECTS PRIVATE LIMITED
1105	U74999AP1996PTC025233	SRUSHTI BUSINESS CONCEPTS PRIVATE LIMITED
1106	U70102AP2006PTC052056	VIPINAM REALTORS PRIVATE LIMITED
1107	U14292AP2007PTC054201	SRI CHANDRASEKHARA MINERALS PRIVATE LIMITED
1108	U74900AP2007PTC055032	NKG MATRIMONIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1109	U72200AP2008PTC057092	MVS SYSTEMS & CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1110	U51909AP2008PTC057697	GLOBAL COLLINS IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED
1111	U22210AP1996PTC023929	INTECLIO PRINTERS PRIVATE LIMITED
1112	U22210AP2005PTC046503	ORIGINS DIGITAL PRINTERS PRIVATE LIMITED
1113	U15311AP1988PTC009294	SIDDARTH ROLLER FLOUR PVT LTD.
1114	U55101AP1993PTC015366	LAMBA HOTELS AND RESORTS PVT LTD
1115	U23209AP1992PTC014402	KABSONS PETROCHEM PRIVATE LIMITED
1116	U67120AP1995PLC019361	KASHYAP SECURITIES LIMITED
1117	U55101AP1998PLC029997	ESSJAY INNS LIMITED
1118	U65993AP1997PTC028555	KASHYAP STOCKS PRIVATE LIMITED
1119	U92132AP2001PLC037178	KAWALJIT TRANS MEDIA PRIVATE LIMITED
1120	U15323AP2006PTC049331	CDC POLYOLS PRIVATE LIMITED
1121	U26942AP1979PTC002512	ELECTROCERAMIC INDUSTRIES PVT LTD
1122	U45201AP1997PTC027145	KAVURU CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1123	U51909AP2002PTC038915	RAGMAN EXPORTS PRIVATE LIMITED
1124	U34201AP1996PTC024061	CHARMINAR AUTO SERVICE PRIVATE LIMITED
1125	U85110AP1997PTC027680	SQUIB BIOTECH PRIVATE LIMITED
1126	U72200AP2005PTC047868	DIALOG SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1127	U65993AP1995PLC019862	CHITTURI FINANCE AND INVESTMENTS LIMITED
1128	U24209AP1979PTC002481	R.G.PLASTICS AND PACKING PVT LTD
1129	U99999AP1975PTC001847	TMS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1130	U26942AP1992PTC013642	VANSHEE KRISHNA CEMENTS PRIVATE LIMITED
1131	U24230AP1996PTC023889	VAMSEE HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
1132	U74200AP1999PTC031436	DECCAN ARCHITECTS PRIVATE LIMITED
1133	U29119AP2004PTC043705	HAVECAT (HEAVY EQPT) PARTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
1134	U72200AP2001PTC036681	VIRTUAL INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1135	U72200AP2005PTC045146	PRUTHVI CYBERTECH PRIVATE LIMITED
1136	U01111AP2006PTC049369	SWARNA SEEDS PRIVATE LIMITED
1137	U01119AP2007PTC053085	NUTRIGATION CROP SCIENCES PRIVATE LIMITED
1138	U72200AP2007PTC054701	TENSPARK SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1139	U45200AP2005PTC048295	H R S S BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1140	U45200AP2005PTC046607	GAYATHRI ENCLAVES PRIVATE LIMITED
1141	U74210AP2005PTC047685	SUSAR ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1142	U21010AP1962PLC000917	SREE RAJA RAJESHWARI PAPER MILLS LTD
1143	U52520AP1988PTC008523	A.M.C. MARKETING NET WORK P. LTD.
1144	U65992AP1987PTC007609	MALKAJGIRI CHIT FUNDS AND FINANCE PVT LTD
1145	U74994AP2000PTC035281	SHANGRILA MERCHANDISE PRIVATE LIMITED
1146	U45403AP2002PTC039235	SIMPLY SLEEK INTERIORS PRIVATE LIMITED
1147	U24134AP1990PTC011794	ZEN POLYMERS PRIVATE LIMITED
1148	U65992AP2001PTC036967	HAILLAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
1149	U45200AP2004PTC043057	V V S HOMES PRIVATE LIMITED
1150	U24110AP1992PTC014470	RAVA CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1151	U67120AP2007PTC053211	INVIDIOUS CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
1152	U74999AP1988PTC008524	JAY NETS P. LTD.
1153	U29297AP2003PTC040693	P.V.K. WATER TEAM PRIVATE LIMITED
1154	U29219AP1992PTC014877	SAIRAM SOLAR SYSTEMS PVT.LTD.
1155	U24239AP2005PTC047299	TALLURI LABORATORIES PRIVATE LIMITED
1156	U24233AP2007PTC056379	FINE DRUGS & INTERMEDIATES PRIVATE LIMITED
1157	U72200AP2007PTC056596	PRESTANS INFOTECH PRIVATE LIMITED
1158	U01119AP2007PTC056483	PEARL GENETICS PRIVATE LIMITED
1159	U72200AP2000PTC033452	WALDEN SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1160	U93000AP2008PTC057545	AKORBI CONSULTING PRIVATE LIMITED
1161	U72200AP2005PLC046169	B2B ENTERPRISE SOLUTIONS LIMITED
1162	U74140AP2002PTC038589	PROEDGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1163	U29309AP2006PTC051237	24 * 7 TELECOM SERVICES PRIVATE LIMITED
1164	U65992AP2004PTC042691	SRISAI MONIPRIYA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1165	U85101AP1998PTC028863	DR. VERSHA DIAGNOSTIC SERVICES PRIVATE LIMITED
1166	U65992AP2005PTC045168	SRI SAI DIVINITI CHITS PRIVATE LIMITED
1167	U20100AP1998PTC028914	SRI RAGHAVENDRA WOOD WORLD PRIVATE LIMITED
1168	U72200AP2004PTC034783	MED BRIDGE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1169	U14102AP1989PTC010815	AMRUTHA GRANITES PVT LTD
1170	U72200AP2004PTC043169	GOWYNS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1171	U92190AP2005PTC045832	THINKING MEDIA ENTERTAINMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED
1172	U29309AP2000PTC034975	GCI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1173	U72200AP2001PTC036443	SBV POWER AND FRONTIER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1174	U01119AP2005PTC047472	VISAKHA AGRO PROJECTS PRIVATE LIMITED
1175	U63022AP2005PTC045653	DEVI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1176	U45400AP2007PTC055387	DR GUJJU ESTATE MAINTENANCE PRIVATE LIMITED
1177	U45200AP2008PTC058317	ROCKET RISE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1178	U24230AP1986PLC006711	INDICARE MEDICAL DISPOSABLES LIMITED.
1179	U29195AP1992PTC014502	ADMOS DIGITAL CONTROL AND PACKING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1180	U65992AP1995PTC019814	RAVIPRIYA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1181	U65922AP1995PTC019747	ENGINEER REDDY HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED
1182	U26922AP1994PTC018650	SRI RAMACHANDRA CEMENT PRIVATE LIMITED
1183	U67120AP1984PLC011105	CONTINENTAL MONETARY FUND LIMITED
1184	U72200AP2001PTC036475	VATAN REALTORS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1185	U31909AP1987PTC007947	JAYA ELECTRICAL INDUSTRIAES PVT. LTD

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1186	U67100AP2007PTC055609	SREE SANJEEVINI ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED
1187	U24230AP1985PTC005355	PHARMAN DRUGS PVT LTD
1188	U24230AP1989PTC010464	PHARMAN LABORATORIES PRIVATE LIMITED
1189	U92111AP1952PTC000780	HYDERABAD SYNDICATE PVT LTD
1190	U65910AP1996PLC024514	ENNARAI FINVEST LIMITED
1191	U72200AP1992PTC014732	DANDU COMPUTER SERVICES PVT. LTD.
1192	U70102AP2007PTC053046	GRAND PRESIDENCY PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1193	U72200AP2004PTC044278	KLUSOFT PRIVATE LIMITED
1194	U72200AP2007PTC052938	BHUMA-KAVEH INTELLIGENCE RESOURCES AND SOLUTIONS PVT. LIMITED
1195	U21340AP1987PLC008056	MAHENDER CAPITAL SERVICES LIMITED
1196	U65990AP1991PTC013020	GOLD CREST INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1197	U65990AP1991PTC013019	CITYLINE INVESTMWNTS PRIVATE LIMITED
1198	U72900AP1999PLC031867	HYDERABAD.COM LIMITED
1199	U65993AP1994PTC016952	HARI RAM INVESTMENTS PVT LTD
1200	U66010AP2001PTC037874	SS INSURANCE AGENCIES PRIVATE LIMITED
1201	U25200AP1984PTC004591	LOHIA PLASTICS PVT LTD
1202	U65991AP2007PTC053133	MONEYTREE FINSOL PRIVATE LIMITED
1203	U45200AP2008PTC057518	SUNSPACE PROJECTS PRIVATE LIMITED
1204	U24239AP2000PTC033236	SUPREME HEALTH CARE AND SERVICES PRIVATE LIMITED
1205	U45201AP2001PTC036737	ONYX ESTATES PRIVATE LIMITED
1206	U72200AP2000PTC033995	WIZDEN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1207	U60231AP2007PTC053055	PACIFIC CARGO SERVICES PRIVATE LIMITED
1208	U45200AP1993PTC016718	AFRA CONSTRUCTION PVT LTD
1209	U45200AP2001PTC037042	SAI PRAKASH FARM HOUSE AND RESORTS PRIVATE LIMITED
1210	U72200AP2007FTC052948	PIXEL CYBER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1211	U72200AP2006PTC051657	INPROFY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1212	U92114AP1997PLC026589	PRATIBHA MULTIMEDIA LIMITED
1213	U27109AP2005PTC046305	GBR IRON AND STEEL COMPANY PVT LIMITED
1214	U99999AP1976PTC002019	DECCAN XPOTEX PVT LTD
1215	U70102AP1996PTC025415	CHAPALAMADUGU ESTATES PRIVATE LIMITED
1216	U24230AP1995PLC022033	AVANTI LABORATORIES LIMITED
1217	U27106AP1995PTC021681	VED IRON AND STEEL PRIVATE LIMITED
1218	U99999AP1995PLC020187	MEGANET CABLE SYSTEMS LIMITED
1219	U85110AP1997PTC028362	KALINGA MULTIMEDI SPECIALTY PRIVATE LIMITED
1220	U92111AP2004PTC044684	KALPATARU MOVIE MAKERS PRIVATE LIMITED
1221	U72200AP2004PTC044600	CARE ORIGIN (INDIA) PRIVATE LIMITED
1222	U52520AP2003PTC041295	VENICE TRADING PRIVATE LIMITED
1223	U72900AP2002PTC039384	INOOGA PROCESS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
1224	U70102AP2006PTC048654	HILLPARADISE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1225	U70102AP2007PTC052825	GREGARY AVENUES PRIVATE LIMITED
1226	U72200AP2007PTC055151	VALLI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1227	U52520AP2004PTC044168	SUN SEVEN ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
1228	U72200AP1999PLC032791	UNNATI INFOTECH LIMITED
1229	U72200AP1997PTC027337	ORION POLARIS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1230	U45200AP2004PTC044489	MAYURI MULTIPLEX PRIVATE LIMITED
1231	U65929AP1994PTC019092	SUBHODAYA CREDITS AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
1232	U27106AP2001PTC037138	CLOCK STEELS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1233	U74999AP2000PTC033783	EAST COAST SEA FOOD EXPORTS PRIVATE LIMITED
1234	U74140AP2005PTC048412	CALWIN CONSULTANCY (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED
1235	U32204AP1999PTC032180	AGNI CABLE PRIVATE LIMITED
1236	U64203AP1995PTC020722	NEXUS INFORMATION SERVICES COMPANY PPRIVATE LIMITED
1237	U72200AP2005PTC048082	VIRTUSO INFOTEK (INDIA) PRIVATE LIMITED
1238	U65990AP1983PTC004332	INLAND STOCK TRADING PRIVATE LIMITED
1239	U24134AP1997PTC027228	VAMA POLYMERS PRIVATE LIMITED
1240	U01119AP2002PTC038917	PAVITHRA SEEDS PRIVATE LIMITED
1241	U72200AP2000PTC034919	E-DEN SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1242	U92199AP2005PLC045571	RED CARPET COMMUNICATIONS LIMITED
1243	U24116AP1988PTC009365	VIVE ORGANICS PVT LTD
1244	U80212AP2007PTC054025	E.R.P SCHOOL PRIVATE LIMITED
1245	U45200AP2005PTC045825	GOWTHAMY PREFAB ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1246	U93090AP2007PTC052605	CORALSOFT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
1247	U70102AP2004PTC042582	NUKALAPATI REAL ESTATES PRIVATE LIMITED
1248	U14102AP1998PTC029242	VINNAKOTA ROCKS PRIVATE LIMITED
1249	U65993AP1994PTC017436	SMC FINANCE AND INVESTMENTS PVT LTD
1250	U27100AP1996PLC023224	T G V STEELS LIMITED
1251	U74900AP2007PTC054666	HL ELECTRICAL INSULATORS PRIVATE LIMITED
1252	U40109AP2006PTC051396	JASPER POWER AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1253	U24231AP2000PLC033342	MAHALAXMI DRUGS LIMITED
1254	U36911AP2005PTC046568	I.P. EXPORTS PRIVATE LIMITED
1255	U25209AP1988PTC008611	HY-PLAST ENGINEERS PVT LTD
1256	U52520AP1978PTC002332	HYDERABAD INDUSTRIAL MARKETING AND PROMOTION SERVICES P. LTD
1257	U65992AP1989PTC010097	JANAHITHA CHIT FUNDS PVT. LTD.
1258	U28110AP1999PTC032053	SREE BHAVANI RETREADS PRIVATE LIMITED
1259	U52520AP2002PTC039409	DECISIVE MARKETING PRIVATE LIMITED
1260	U85195AP2003PTC041043	SONNET DIAGNOSTIKS PRIVATE LIMITED
1261	U74120AP2006PTC051387	PEGASUS FOOD & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
1262	U70102AP2007PTC052828	MYN PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1263	U40100AP1990PTC011888	PITTIE POWER HOUSE PRIVATE LIMITED
1264	U92110AP2004PTC043482	TELUGU CINEMA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
1265	U26105AP2005PTC046500	SRV FOOD TECHNOLOGY VENTURES PRIVATE LIMITED
1266	U92114AP2002PLC039253	GLOBAL TELEPLAYS AND ENTERTAINERS LIMITED
1267	U72200AP2004PTC042795	ALTUS SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1268	U72200AP2006PTC050157	I TABS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1269	U21020AP1981PTC003244	CONCORD CONTAINERS PVT LTD
1270	U61200AP2008PTC060928	VSPL SHIPPING LOGISTICS PRIVATE LIMITED
1271	U72200AP1994PTC017948	RAJAHMUNDY COMMUNICATION NET WORK PVT LTD,
1272	U18101AP2009PTC063456	BLISS FASHIONS PRIVATE LIMITED
1273	U74999AP2010PTC066662	WINGS BRANDS & RETAIL PRIVATE LIMITED
1274	U01100AP2005PTC045229	GREEN EARTH AGRI FOODS PRIVATE LIMITED
1275	U80302AP2008PTC060486	VJ EDUCATIONAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1276	U15500AP2009PTC063163	RR AROMAS BEVERAGES AND FOODS PRIVATE LIMITED
1277	U13209AP2009PTC064894	HARSHA MINES AND MINERALS INDIA PRIVATE LIMITED
1278	U45400AP2008PLC059185	ASHOKA CITADEL CONSTRUCTIONS LIMITED
1279	U72200AP1997PTC027108	MATRIX MINDWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1280	U15209AP2000PTC034838	SREE VENKATA KRISHNA SAI MILK LINE PRIVATE LIMITED
1281	U72200AP2005PTC046549	COGENT TECHSOL PRIVATE LIMITED
1282	U24232AP2008PTC057365	ROTON PHARMATECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
1283	U55101AP1994PTC017635	MBM FINANCIAL SOLUTIONS & ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1284	U55101AP2005PTC047635	MANTRA HOTELS PRIVATE LIMITED (PART IX)
1285	U45400AP2008PTC059784	DECCAN HOUSING & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1286	U29190AP2001PTC037173	SANSREEK ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1287	U45400AP2008PTC059447	CONTOUR BLOCKS AND PAVERS INDIA PRIVATE LIMITED
1288	U51397AP2003PTC041254	ALANKRITHA AGENCIES PRIVATE LIMITED
1289	U80300AP2001PTC036978	ASCENT PROFESSIONAL EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1290	U74900AP2008PTC061546	TAAPEX EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
1291	U72900AP2008PTC060174	RAGHAVA CYBER PARK PRIVATE LIMITED
1292	U93000AP2007PTC056731	NARVEE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1293	U92120AP2009PTC065905	SHUNYA DESIGN PRIVATE LIMITED
1294	U72200AP2003PTC041496	DIGIPRISE INDIA PRIVATE LIMITED
1295	U27203AP1999PTC030934	ANSHA ALUMINIUM COVERINGS PRIVATE LIMITED
1296	U65993AP1999PTC032205	SRICHAKRARAJAMU CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1297	U70102AP2002PTC038797	L.S. HOUSING PRIVATE LIMITED
1298	U65990AP1996PTC025107	SRI SUBHAPRIYA CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1299	U51909AP2009PTC065629	HOMAM TRADING PRIVATE LIMITED
1300	U51101AP2009PTC065634	LEONIS TRADING PRIVATE LIMITED
1301	U22210AP2002PTC040166	GROWTHINC INDIA PUBLISHING PRIVATE LIMITED
1302	U01113AP2005PTC045577	ETHNIC COTTON PRIVATE LIMITED
1303	U70102AP2007PTC056248	PIDUGURALLA LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1304	U74140AP2008PTC058283	MAHA SWETHA PRECISION ENGG WORKS & CONSULTANTS PVT. LTD
1305	U74900AP2008PTC058929	BOOK2NET SCANNING SERVICES PRIVATE LIMITED
1306	U72900AP2008PTC060963	VIRTUALVISION TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
1307	U05000AP2010PTC069944	STAR AQUA FEEDS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1308	U72200AP2008PTC057250	IR SOFT INDIA PRIVATE LIMITED
1309	U72200AP2008PTC059045	LEEL SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1310	U45200AP2008PTC058685	VENSAR HOMES PRIVATE LIMITED
1311	U72900AP2008PTC061811	SRI ELIANE INFOTECH PRIVATE LIMITED
1312	U74999AP2009PTC064226	BANYAN & ZREYAS VENTURE ADVISORS PRIVATE LIMITED
1313	U72900AP2009PTC066148	BANYAN & ZREYAS ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1314	U72200AP2010PTC068209	PEAKTECH IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1315	U72200AP2005PTC048240	INETCZARS SOFTEK INDIA PRIVATE LIMITED
1316	U24230AP1994PLC018567	NEW ERA LABORATORIES LIMITED
1317	U45200AP2008PTC058058	ECOSAFE INFRATECH PRIVATE LIMITED
1318	U72900AP2008PTC059004	SUMANTRA INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1319	U23209AP2008PTC061737	BET GAIATECH FUELS PRIVATE LIMITED
1320	U25200AP2011PTC072888	BHAVANI PLASTICS PRIVATE LIMITED
1321	U40108AP2008PTC061682	PALING POWER PRIVATE LIMITED
1322	U40108AP2008PTC061685	MATHULI POWER PRIVATE LIMITED
1323	U40108AP2008PTC061680	ITHUN POWER PRIVATE LIMITED
1324	U40109AP2008PTC061679	DRI POWER PRIVATE LIMITED
1325	U40108AP2008PTC061678	AHI POWER PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1326	U32204AP2010PTC070087	LOBITO MOBITECH PRIVATE LIMITED
1327	U40108AP2011PTC074701	DESALI POWER PRIVATE LIMITED
1328	U40108AP2011PTC074700	HUNLI POWER PRIVATE LIMITED
1329	U40108AP2011PTC074709	ROING POWER PRIVATE LIMITED
1330	U40106AP2008PTC061367	ADITHYA SOLARTECH SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1331	U40102AP2007PTC053307	KRC POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1332	U14200AP2008PTC057160	MATRIX MINES PRIVATE LIMITED
1333	U01403AP2010PTC067092	UNIQUE GARDEN MALL PRIVATE LIMITED
1334	U74300AP2010PTC068648	GODIGITAL MEDIA BRANDS PRIVATE LIMITED
1335	U51909AP2010PTC070536	DHRISHI TRADING SERVICES PRIVATE LIMITED
1336	U01119AP2002PTC038799	SOUTHERN SEEDS PRIVATE LIMITED
1337	U24239AP1983PTC004034	FAIRCHILD LABORATORIES PVT LTD
1338	U72100AP1993PTC016400	SNS COMPUTERS PVT LTD
1339	U15499AP1991PTC013409	BUNTY PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1340	U74999AP2007PTC055697	SIVA SIVANI MAN MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
1341	U13200AP2008PTC059453	SRI ADITYA SAND & MINERALS INDIA PRIVATE LIMITED
1342	U45200AP2003PTC040794	CHAITANYA MANJARI BUILDERS PRIVATE LIMITED
1343	U85110AP2012PTC080672	OCUCARE MEDICAL CENTRE HYDERABAD PRIVATE LIMITED
1344	U55101AP2008PTC057058	PEACH HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
1345	U40104AP2008PTC058853	MANIRAM POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1346	U40300AP2008PTC058094	KRISHI ENERGY PRIVATE LIMITED
1347	U40108AP2008PTC058051	MANJU POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1348	U85100AP2012PTC079408	OCUCARE MEDICAL CENTERS PRIVATE LIMITED
1349	U26942AP2011PTC074920	AVANI CEMENTS (AP) PRIVATE LIMITED
1350	U74910AP2009PTC066465	STUDERIA PLACEMENTS PRIVATE LIMITED
1351	U80301AP2009PTC066204	GLOBATE UNIVERSITIES ENROLEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
1352	U26940AP2011PTC072897	LEKHA CEMENTS PRIVATE LIMITED
1353	U63020AP2010PTC069773	CHANDAMAMA COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1354	U72200AP2001PTC037031	ZENON NET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1355	U70102AP2005PTC047247	JAGAPATHI ESTATES PRIVATE LIMITED
1356	U72200AP2010PTC068760	ABHINANDANA MOON PIXEL STUDIOS PRIVATE LIMITED
1357	U40300AP2010PTC068265	SUVAN POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1358	U74999AP1994PTC018414	SRI SUVEN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1359	U45200AP1993PTC015932	SELECT ESTATES PVT LTD
1360	U74140AP2005PTC052321	JAYASIMHA MIND DYNAMICS PRIVATE LIMITED
1361	U70102AP2007PTC056783	ENEN DEVELOPERS & CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1362	U45209AP2007PTC056757	ENEN INFRAPROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
1363	U15122AP2011PTC073957	SAURI FEED PRIVATE LIMITED
1364	U74900AP2008PTC058519	PERKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1365	U01403AP2007PTC055140	SHRI GBS BIOTECH PRIVATE LIMITED
1366	U92112AP2004PTC044348	EMEDIARAJ ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
1367	U65992AP1996PTC023404	SWARNA SAKTHI FINANCE AND CHITS PRIVATE LIMITED
1368	U65992AP2000PTC034260	USHA KRISHNA'S CHITS PRIVATE LIMITED
1369	U17299AP2006PTC051800	SRI OMKARESWARA TEXTILES PRIVATE LIMITED
1370	U72900AP2009PTC062627	RABROSOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1371	U17200AP2009PTC066315	GSR SPINTEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
1372	U21029AP1994PTC017765	PRAKASAM PULVERISERS PVT LTD,

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1373	U72200AP2007PTC055515	INFODIAL TELEMEDIA PRIVATE LIMITED
1374	U70109AP2009PTC064829	GOOD SHEPHERD DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1375	U26931AP1980PTC002605	SOMANNA ISPAT BRICKS PVT LTD
1376	U72200AP2002PTC039006	TECHNOCORP SOFTECH PRIVATE LIMITED
1377	U72200AP2001PTC036373	SATYA TECNO SERVICES PRIVATE LIMITED
1378	U70102AP2010PTC066585	VEDULA REALTORS PRIVATE LIMITED
1379	U74999AP2011GOI072192	UTTARBANGA RINL RAIL KARKHANA LIMITED
1380	U72200AP2004PTC043647	PALLA IT OBJECTS PRIVATE LIMITED
1381	U72200AP2007FTC056500	IT OBJECTS SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1382	U25200AP2012PTC078378	T V PLASTICS PRIVATE LIMITED
1383	U15499AP2006PTC050480	FOUNTAIN CHOCOLATE PRIVATE LIMITED
1384	U72200AP2000PTC033726	WALTAIR INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1385	U85110AP2001PTC036879	SREEKAM HEALTHCARE AND RESEARCH PRIVATE LIMITED
1386	U72200AP2005PTC048474	LOGICGATES INFOTECH PVT LTD
1387	U51311AP2006PTC050262	TESSILE EXIM PRIVATE LIMITED
1388	U72200AP2011PTC077897	AISWARYA INFOSOFT PRIVATE LIMITED
1389	U45200AP1988PTC008194	MUTHAVARAPU BUILDERS PVT LTD
1390	U15143AP1991PTC012622	SWARNA OILS PRIVATE LIMITED
1391	U72200AP1999PTC032527	M.S.NET COMMERCE PRIVATE LIMITED
1392	U01119AP2005PTC046466	AVANTI POWER & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1393	U18100AP2006PTC049367	VIJAYALAKSHMI MULTI-TEX COMPANY PVT LTD
1394	U72200AP2006PTC050792	GDES TECH PRIVATE LIMITED
1395	U72200AP2006PTC050810	OMEGASOFT TECHNOLOGY SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1396	U40102AP2008PTC057316	SCL POWER & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1397	U72200AP2009PTC066482	AH IT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1398	U80302AP2008PTC060604	GOWTHAM EDU INFRA PRIVATE LIMITED
1399	U85110AP2001PTC038186	QUALITY CARE HEALTH CITY PRIVATE LIMITED
1400	U01119AP2010PTC067888	LAKSHMI NARASIMHA HATCHERIES PRIVATE LIMITED
1401	U40109AP2008PLC060399	SUJANA TRANSMISSIONS LIMITED
1402	U74120AP2011PTC073294	MEDICITI NEWBORN CARE PRIVATE LIMITED
1403	U72200AP2006PTC049382	PATIL VOSSLOH RAIL IT SYSTEMS PRIVATE LTD
1404	U05005AP1993PTC016104	PATIL AQUA PRODUCTS PVT LTD
1405	U35204AP2005PTC045452	INDO GERMAN CONCRETE TIES PRIVATE LIMITED
1406	U72200AP2004PTC044109	AMU SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1407	U45400AP2008PTC057019	TIRUMALA INFRA TECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
1408	U51909AP2008PTC058593	ARCHIES MINERALS IMPEX PRIVATE LIMITED
1409	U74210AP2008PTC059795	MAJOR FLOORING & INTERIORS PRIVATE LIMITED
1410	U40101AP2010PTC069066	SATVIK SYNERGY PRIVATE LIMITED
1411	U52100AP2010PTC069436	SARVA SHAKTHI HOME NEEDS MARKETING PRIVATE LIMITED
1412	U74140AP2010PTC068469	VINCO VENTURES MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
1413	U72200AP2006PTC049462	SOL MILLENNIA CONSULTING PRIVATE LIMITED
1414	U74990AP2011PTC072714	CETO DESIGN ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
1415	U72200AP2000PTC034048	MICROCOSM INFOTECH PRIVATE LIMITED
1416	U74999AP2006PTC050940	ACTIVE ECO CLIMATE INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
1417	U92190AP2007PTC055243	TIRUMALA THEATERS PRIVATE LIMITED
1418	U45400AP2007PTC054903	GR PROJECTS PRIVATE LIMITED
1419	U74140AP2006PTC048691	DHARMA TECHNO-LEGAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1420	U70102AP1997PTC026203	NAVAKIRAN ESTATES AND RESORTS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1421	U24239AP2003PTC042229	VIYATH PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1422	U65910AP1996PLC025286	KIRAN HOME FINANCE LIMITED
1423	U05005AP1989PTC010089	PRIYANSH SEAFOODS PVT. LTD.
1424	U72200AP2008PTC057256	SYPS SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1425	U72200AP2008PTC060428	MANJIRA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1426	U24230AP2005PTC045801	MARKVEL LABS PRIVATE LIMITED
1427	U74999AP2007PTC054635	ANURATNA EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED
1428	U24110AP1989PTC009960	NIPPON PLANT FOODS PVT LTD.
1429	U01119AP1988PTC009166	KARSHAK AGRO SERVICES PVT LTD.
1430	U60200AP2011PTC076684	MATHRUSRI TRANSPORT PRIVATE LIMITED
1431	U55101AP1999PTC032586	N.V.K.R. HOTELS PRIVATE LIMITED
1432	U72200AP1999PTC031746	BETHAPUDI SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1433	U99999AP1971PTC001397	FABRICON PVT LTD
1434	U72900AP2008PTC059984	GREEN MANGO ONLINE MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
1435	U29253AP2007PTC053414	LIBERTY HEAVY ENGINEERING EQUIPMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1436	U14200AP2007PTC056233	VIJAYAKRISHNA ROCKSAND PRIVATE LIMITED
1437	U10102AP2004PLC047536	KINETA METCOKE INDUSTRIES LIMITED
1438	U72100AP2006PTC050422	LOKESH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1439	U74999AP2008PTC059099	KINETA MINING PRIVATE LIMITED
1440	U27310AP2011PTC077662	PITTI FOUNDRY PRIVATE LIMITED
1441	U70102AP2007PTC055503	PIPAL REALTY INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
1442	U72200AP2007PTC053481	PUNYABHUMI MEDIA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
1443	U67190AP2009PTC063031	CHINTA SECURITIES PRIVATE LIMITED
1444	U52332AP1998PTC028960	KONARK REFRIGERATION APPLIANCES PRIVATE LIMITED
1445	U34102AP2004PTC042860	TAPASVI MOTORS PRIVATE LIMITED
1446	U72200AP2005PTC047249	DVITA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1447	U74900AP2009PTC065730	ALGORITHM HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1448	U80102AP2006PTC050783	ABC CHILD CARE AND KNOWLEDGE CENTER PVT LTD
1449	U70102AP2007PTC055802	DHATHRI INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
1450	U70102AP2007PTC056732	BHAVITHA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
1451	U55101AP2003PTC041465	BVS POWER PRIVATE LIMITED
1452	U74999AP2008PTC058212	SKYTE EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
1453	U21000AP2008PTC059030	NEONATE PAPERS PRIVATE LIMITED
1454	U01119AP2009PTC064228	ABS SEEDS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1455	U72900AP2010PTC066622	TECHSMART SERVICES PRIVATE LIMITED
1456	U60231AP2008PTC060374	RADIAL LOGISTICS PRIVATE LIMITED
1457	U14290AP2008PTC062405	VRS MINES & MINERALS PRIVATE LIMITED
1458	U74120AP2007PTC054840	MAX5 MARKETING PRIVATE LIMITED
1459	U01403AP2009PTC064971	RAMTECH SEEDS PRIVATE LIMITED
1460	U18109AP2011PTC072717	LA-VALENTINO GARMENTS PRIVATE LIMITED
1461	U74900AP2010PTC070600	RKG RESEARCH SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
1462	U72200AP1998PTC030328	VIKAS INSTITUTE OF SOFTWARE APPLICATIONS PRIVATE LIMITED
1463	U24211AP2004PLC044304	K.R.K. BIO-TECH LIMITED
1464	U70102AP2005PTC048168	GNAPTI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1465	U45400AP2007PTC053710	PRAVASU CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1466	U17200AP2008PTC057009	CEHAR TEXTILES PRIVATE LIMITED
1467	U45200AP2008PTC058747	TUDOR DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1468	U72300AP2008PTC060951	FOUR ACE DATA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1469	U74999AP2006PTC050950	M.R INTEGRAL TRADING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED
1470	U72200AP1998PTC028738	BM IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1471	U72200AP2011PTC074461	WILCO SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1472	U52510AP2004PTC043001	AISHWARYA NETWORKS PRIVATE LIMITED
1473	U85110AP2002PTC040092	GVR HOSPITALS PRIVATE LIMITED
1474	U70102AP2006PTC050277	SHANKESWAR AGRO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1475	U13202AP2008PTC057398	MATRIX MINERALS PRIVATE LIMITED
1476	U18100AP1989PTC009691	OMKARESHWAR SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED
1477	U72200AP1998PTC028739	CYBER NETICS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
1478	U45209AP2008PTC061798	NIHARIKA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1479	U74200AP2004PTC044544	NTRT ERATINGS INDIA PRIVATE LIMITED
1480	U72200AP2008PTC058258	BEAMBCS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1481	U72200AP2007PTC056602	ELIXIR INFOSOFTE (INDIA) PRIVATE LIMITED
1482	U74140AP2006PTC048812	JURISPRIME CONSULTANTS PVT LTD
1483	U15541AP1997PTC027996	SRICO FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
1484	U85110AP1987PTC007928	BHARADWAJ HOSPITALS PVT LTD
1485	U72900AP2002PTC039117	P.E.S. INFOTECH PRIVATE LIMITED
1486	U17121AP2008PTC058485	AMRUT COTGIN PRIVATE LIMITED
1487	U01403AP2008PTC060596	JAI SHREE NAVADURGA BIO-TECH PRIVATE LIMITED
1488	U45205AP2008PTC060060	SRIJA AGRIINFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1489	U45209AP2008PTC061345	HANSON INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
1490	U13203AP2010PTC069582	RRR MINERALS PRIVATE LIMITED
1491	U72909AP2011PTC075235	ECO START ENTERPRISES INDIA PRIVATE LIMITED
1492	U74993AP1970PTC001332	SAMANTO LAMINATES PVT LTD
1493	U93000AP2008PTC060882	PARKS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
1494	U15203AP2008PTC060880	PARK DAIRY ADVENTURES PRIVATE LIMITED
1495	U15122AP1986PLC006217	SRI SITARAMA ANNAPURNA SEAFOODS LIMITED
1496	U15142AP1995PTC019466	ANAGHA OIL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1497	U25200AP1998PLC029518	PRANAVANAGHA PLASTIC MACHINES LIMITED
1498	U74900AP2007PTC055221	GOLDFISH TOURS & TRAVEL INDIA PRIVATE LIMITED
1499	U74999AP2006PTC050441	TAIMIN INDIA PRIVATE LIMITED
1500	U32204AP2008PTC061460	INKARP INFRATEL SERVICES PRIVATE LIMITED
1501	U67120AP1996PLC023045	SRI KANYAKA SECURITIES LIMITED
1502	U01134AP1995PTC021800	CROWN REALTERS PRIVATE LIMITED
1503	U22110AP1995PTC020938	ANU PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
1504	U74999AP2010PTC066759	RDP CATALYST PRIVATE LIMITED
1505	U45400AP2007PTC053896	PRAJAY ARNAV SHELTERS PRIVATE LIMITED
1506	U55101AP1994PLC018994	PRAJAY RESORTS AND HOTEL LIMITED
1507	U45200AP2007PLC052800	PRAJAY RESORTS & AMUSEMENT PARKS LIMITED
1508	U45200AP2007PLC052753	PRAJAY CONSTRUCTIONS LIMITED
1509	U70102AP2007PTC052503	PRAJAY ARRF ESTATES PRIVATE LIMITED
1510	U55101AP2007PLC053789	PRAJAY HOTELS LIMITED
1511	U72200AP2007PTC053280	PRAJAY TECH-PARKS PRIVATE LIMITED
1512	U45200AP2007PTC053276	PRAJAY TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED
1513	U70102AP2007PTC053232	PRAJAY REALTY PRIVATE LIMITED
1514	U74300AP2010PTC071262	REV MEDIA PRIVATE LIMITED
1515	U14102AP1990PLC011621	MUMAL GRANITES LTD.

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1516	U72200AP2008PTC057024	CAUSEWAY SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
1517	U72200AP2000PTC034718	ESCORP SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1518	U40109AP2006PTC048861	PATNAM POWER PROJECTS PVT LTD
1519	U45200AP2008PTC059718	SATYAVANI PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1520	U85110AP2008PTC058998	SATYAVANI GLOBAL HEALTH SPRINGS PRIVATE LIMITED
1521	U35100AP2010PTC070366	ALLEN MARITIME INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1522	U45200AP2007PTC052760	SSPDL MATRIX TOWERS PRIVATE LIMITED
1523	U45200AP2006PTC051385	KOLLUR RESIDENTIAL PROJECT PRIVATE LIMITED
1524	U24210AP2005PLC047280	MEKINS BIO-TECH LIMITED
1525	U22110AP1997PTC028029	O.M.BOOKS PRIVATE LIMITED
1526	U24239AP2008PTC059360	VBF PHARMACEUTICAL RESEARCH PRIVATE LIMITED
1527	U70102AP1997PTC028122	SKL PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1528	U72200AP2001PTC037827	B.G. SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1529	U72200AP2007PTC054606	SUNDIAL INFOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1530	U13209AP2006PTC050861	S. A. MINERALS PRIVATE LIMITED
1531	U72200AP2001PTC037179	CENTELIUM SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1532	U72200AP2005PTC047478	METIS INFOSOL PRIVATE LIMITED
1533	U72200AP2009PTC065447	VARVIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1534	U25114AP1995PTC019409	SUPERFINE RETREADS PRIVATE LIMITED
1535	U72200AP2000PTC034944	BLUE LOTUS INFORMATICS PRIVATE LIMITED
1536	U72200AP2000PTC034658	INFO DIMENSIONS BUSINESS ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
1537	U24239AP2004PTC044563	SUN LINE PHARMA PRIVATE LIMITED
1538	U18100AP2006PTC051473	SRIMANNARAYANA SILK MILLS PRIVATE LIMITED
1539	U24230AP1993PTC016135	ASCLEPIUS IMMUNOTEK PVT LTD
1540	U72200AP2000PTC033239	ATVANTAGE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1541	U29309AP2006PTC048885	ADILA POWER ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
1542	U24232AP2008PTC062007	K R R PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
1543	U70102AP2008PTC061194	K R R INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
1544	U40109AP2008PTC061017	ASHTALAKSHMI POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1545	U72200AP2007PTC052866	LEEMON INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1546	U24219AP1990PTC011295	VIP SALES AND PEST CONTROL COMPANY PVT LTD.
1547	U45200AP1995PTC021246	AASHRAYA HOUSING PRIVATE LIMITED
1548	U15420AP1976PTC002005	DAMERA SUGARS PVT LTD
1549	U62200AP2008PTC058746	SRI VIGNESHWARA AIR LINKS PRIVATE LIMITED
1550	U72200AP2010PTC069308	SMARTGENIUS SOFTECH PRIVATE LIMITED
1551	U72900AP2008PTC059035	BUDDIBOT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1552	U70102AP2008PTC060208	GREENFIELDS LANDSCAPE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1553	U93000AP2009PTC062809	ARIEAN CONSULTING PRIVATE LIMITED
1554	U55101AP2005PTC046724	MAHANAGAR FOREX & FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1555	U93000AP1994PTC018053	VIMAL SALES AND SERVICES PVT LTD
1556	U55101AP2001PTC036058	SIDDI VINAYAKA HOTELS PRIVATE LIMITED
1557	U45204AP2007PTC053145	IMARAT HOUSING & INFRASTRUCTURE COMPANY PRIVATE LIMITED
1558	U45400AP2008PTC061827	DHARANI BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
1559	U90001AP2010PTC070801	VISHWA INFRA UTILITIES (KOLHAPUR) PRIVATE LIMITED
1560	U24219AP1997PTC028418	NAVEEN FERTILISERS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1561	U74140AP2003PTC041215	ACPAN PLACEMENT AGENCIES PRIVATE LIMITED
1562	U72900AP2000PTC035849	SIDPRO SYSTEMS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1563	U15499AP2005PTC048569	VENKYS SPICE HOUSE EXIM PRIVATE LIMITED
1564	U17122AP2008PTC058088	TIRUMALA TEX-FABS PRIVATE LIMITED
1565	U15143AP1999PTC031447	VISHAL SANDEEP OILS PRIVATE LIMITED
1566	U01119AP2005PTC046270	VIJAYA SAI LAKSHMI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1567	U74900AP2007PTC056459	TIRUMALA MINERAL WATER PRIVATE LIMITED
1568	U63022AP2010PTC067045	MOTUPALLI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1569	U51909AP2010PTC071010	NAGA SAI AGRO OILS & COMMODITIES PRIVATE LIMITED
1570	U65992AP1991PTC012898	DHANAVRUDHI CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1571	U72200AP2004PTC043293	GHP SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1572	U51909AP2006PTC050140	REKHA EXIM PRIVATE LIMITED
1573	U72200AP2006PTC051119	SIGNALCORE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1574	U45203AP2008PTC058480	ARKA INFRAVENTURES INDIA PRIVATE LIMITED
1575	U45209AP2009PTC064946	BMR PRIME SPACES PRIVATE LIMITED
1576	U72200AP1996PTC023608	BHARATHREE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1577	U63040AP2005PTC046923	FAREONE TRAVELS INDIA PRIVATE LIMITED
1578	U40104AP2007PTC056272	ANJALI RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
1579	U45203AP2008PTC060370	TEJASRI INFRASTRUCTURES INDIA PRIVATE LIMITED
1580	U24297AP2006PTC050862	SALIPOL BIOCIDES PRIVATE LIMITED
1581	U40108AP2008PTC061384	CAPRI ENERGY SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1582	U36104AP2009PTC064171	VIZAG FOAM PRIVATE LIMITED
1583	U24232AP2010PTC068912	MILLENIA AGRO PRIVATE LIMITED
1584	U01119AP2007PTC056032	SEPIA AGROFARMS PRIVATE LIMITED
1585	U72200AP2005PTC045932	F.S. SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
1586	U27100AP2010PTC066534	SENTINI POWSTEL PRIVATE LIMITED
1587	U63032AP2007PTC056539	SENTINI LOGISTICS PRIVATE LIMITED
1588	U74900AP2008PTC059901	SIRI TECON PRIVATE LIMITED
1589	U72200AP2007PTC055953	ASPIRE ANIMATION PRIVATE LIMITED
1590	U72200AP2012PTC080439	SAMVIDHA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1591	U74999AP2008PTC059349	NANO AGRITECH PRIVATE LIMITED
1592	U93000AP2008PTC059352	NANO INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
1593	U01210AP2008PTC061131	DECCAN DUCKS SHEDS INDIA PRIVATE LIMITED
1594	U15490AP2009PTC063101	DECCAN DUCKS SALES AND FOODS PRIVATE LIMITED
1595	U01119AP2009PTC065102	D D S AGRO FARMS AND CONSTRUCTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
1596	U72300AP2009PTC062947	ZERO DEFECT SOFTWARE LABS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1597	U72200AP2006PTC050525	LIBSYS SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED
1598	U72200AP2009PTC064623	SRILAX INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1599	U64203AP1999PTC031007	MAGNA COM (HYDERABAD) PRIVATE LIMITED
1600	U70102AP2007PTC053534	CITY SPACE ESTATES PRIVATE LIMITED
1601	U74900AP2007PTC056528	GOLD MEDAL IMPEX PRIVATE LIMITED
1602	U93000AP2009PTC062509	HYDERABAD ROTEQ ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
1603	U22219AP2011PTC075805	DECCAGE MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
1604	U72200AP2000PTC034918	MINDWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1605	U52520AP1989PTC010465	PHARMAN MARKETING PVT LTD
1606	U24239AP2000PLC035648	PLATINA HEALTH TOURISM LIMITED
1607	U45200AP2007PTC052508	MAYTAS HILL COUNTY PROJECTS PRIVATE LIMITED
1608	U45200AP2008PTC057711	MAYTAS TOWERS PRIVATE LIMITED
1609	U74900AP2008PTC060497	MAYTAS STAR DISTRICT COOLING PRIVATE LIMITED
1610	U70102AP2008PTC062072	CHENNAI SOUTH CITY PROJECTS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1611	U93000AP2008PTC062132	LEVANA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1612	U45400AP2008PTC061569	MAYTAS RETIREMENT HOMES PRIVATE LIMITED
1613	U45400AP2008PTC061570	MAYTAS AFFORDABLE HOMES PRIVATE LIMITED
1614	U55101AP2008PTC061562	MAYTAS HOTELS PRIVATE LIMITED
1615	U24239AP2005PTC046555	EXPICOR PHARMA PRIVATE LIMITED
1616	U65910AP1994PLC017423	VIKRAMASHILA FINANCE AND LEASING LIMITED
1617	U74210AP2004PTC043525	VARMA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
1618	U45200AP2006PTC051491	SRI BHUPATHI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
1619	U85100AP2008PTC058341	VAMSA HEALTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1620	U01119AP2008PTC058580	VIVOZANT BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED
1621	U33110AP2009PTC063383	VISISTA HEALTHCARE INDIA PRIVATE LIMITED
1622	U74999AP2010PTC066780	VISHNU TECHNOCRAATS PRIVATE LIMITED
1623	U29219AP2010PTC070782	DELTA TECHNOBIZ INDIA PRIVATE LIMITED
1624	U01135AP2008PTC059546	RED CHILLY SPICES PRIVATE LIMITED
1625	U50300AP1985PTC005264	CHELLANI ENGINEERING ENTERPRISES PVT LTD
1626	U74140AP2008PTC058621	UNIQUE CAREER GUIDENCE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
1627	U45209AP2008PTC060524	TARUNIKA INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
1628	U72900AP2008PTC060006	MAKVIN INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1629	U29150AP2004PTC043532	XPANDING HYDRAULIC MACHINES PVT LIMITED
1630	U17120AP2008PTC062359	GADQUAR GARMENTS PRIVATE LIMITED
1631	U74999AP2008PTC058551	PJP IMPEX PRIVATE LIMITED
1632	U74200AP2004PTC044807	TARAY TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
1633	U72200AP2008PTC058145	SHRADDHAA INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1634	U74999AP1996PTC025674	AVELEC PROJECTION PRIVATE LIMITED
1635	U25209AP1997PTC027934	DIGIPRO PROJECTIONS PRIVATE LIMITED
1636	U27109AP2007PTC055743	SHAASTA ACIER COMPANY PRIVATE LIMITED
1637	U85110AP2008PTC057629	SHAASTA HOSPITALS AND RESEARCH ESTABLISHMENT PVT. LTD.
1638	U01403AP2008PTC059384	SHAASTA BIO-ORGANIC FARMS PRIVATE LIMITED
1639	U72200AP2008PTC057748	NUVANSYS WEBTECH PRIVATE LIMITED
1640	U74900AP2009PTC064357	SRI LALITHA THRISHAKTHI SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
1641	U52520AP1991PTC012567	ATTAI SALES PRIVATE LIMITED
1642	U45400AP2007PTC054793	ARMSBURG PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1643	U74300AP2003PTC041333	CLICKZ COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
1644	U15424AP2006PTC051843	ALLETI SUGARS PRIVATE LIMITED
1645	U74900AP2008PTC059594	MEGAVALUE MARKETING PRIVATE LIMITED
1646	U01403AP2008PTC058669	SANATANA AGRO TECH PRIVATE LIMITED
1647	U74999AP1984PLC005124	NCCT LIMITED
1648	U72200AP2004PTC043168	SREE VENKATESWARA COMPUTERS PRIVATE LIMITED
1649	U27300AP2008PTC056931	SRIKA CASTING PRIVATE LIMITED
1650	U65999AP2009PTC065775	WELLPOINT MAPE INVESTMENTS MANAGERS PRIVATE LIMITED
1651	U05005AP1991PLC013610	TRIDENT MARINE PRODUCTS LIMITED
1652	U45203AP2007PTC054717	GSR WATER INFRACON INDIA PRIVATE LIMITED
1653	U72200AP2008PTC058960	IDONEOUS SOFTWARE SOLLUTIONS PRIVATE LIMITED
1654	U74900AP2009PTC063073	GANGADHARA SECUREINVEST PRIVATE LIMITED
1655	U51390AP2001PTC037144	SEACREST IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED
1656	U72200AP2008PTC058650	APEX INFORMATICS INDIA PRIVATE LIMITED
1657	U01403AP2011PLC076415	SHAMANTAA AGRO LIMITED
1658	U65992AP1985PTC005889	RECHARLA CHIT FUND PVT LTD

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1659	U22110AP1989PTC009936	NEWSBANK INFORMATION SERVICES PVT LTD.
1660	U70100AP1998PTC028957	SARWAGNA NIRMAN PRIVATE LIMITED
1661	U15326AP2008PTC061264	AWA SPECIALTY FATS INDIA PRIVATE LIMITED
1662	U72300AP2008PTC061128	AUXISYS IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1663	U45209AP2011PTC076119	VASATHI AVANTE HOUSING PRIVATE LIMITED
1664	U45209AP2011PTC076118	VASATHI YELAHANKA HOUSING PRIVATE LIMITED
1665	U41000AP2007PTC053191	SRI VAMSI AQUA PRIVATE LIMITED
1666	U11100AP2010PTC067219	OCTAD PETROLEUM AND ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
1667	U72200AP2007PTC052875	PRIUS INFOTECH PRIVATE LIMITED
1668	U40108AP2010PTC068339	SAGES GREEN ENERGY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PVT. LTD.
1669	U63012AP2005PTC045227	MARITIME PROFESSIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
1670	U45200AP2007PTC053604	MAC INFRATECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
1671	U85100AP2010PTC067822	SINDHURA HOSPITALS PRIVATE LIMITED
1672	U74999AP2010PTC071492	AVR CORPORATE LAW CONSULTANTS & E-ADVISORS PRIVATE LIMITED
1673	U52520AP2003PTC040772	SANSKRITI STORES LIMITED
1674	U51909AP2003PTC041567	SEMAPHORE IMPEX PRIVATE LIMITED
1675	U85110AP2003PTC042152	UCH HERITAGE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
1676	U17120AP2005PTC048209	VINIY'S COLLEZIONI PRIVATE LIMITED
1677	U72100AP2001PTC085014	SYNCHRON INFOTECH PRIVATE LIMITED
1678	U01122AP1996PLC025294	KRANS BIO-TECH LIMITED
1679	U93000AP2008PTC057350	INCUBEX MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
1680	U72100AP2006PTC050401	COE SECURITY PRIVATE LIMITED
1681	U24232AP2007PTC055543	SHARADA SWADESHI REMEDIES PRIVATE LIMITED
1682	U72900AP2005PTC047412	SV COMPONENTS PRIVATE LIMITED
1683	U72200AP2007FTC055858	PAYMENTCARD PLATFORMS INDIA PRIVATE LIMITED
1684	U74140AP2005PTC048102	MVP TRADING (INDIA) PRIVATE LIMITED
1685	U13100AP2010PLC071806	KADALI MINES AND MINERALS LIMITED
1686	U72200AP2008PTC058878	UIBI INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
1687	U72200AP2005PTC045151	DIPLA TECHNO SERVICES PRIVATE LIMITED
1688	U40102AP2008PTC060341	VSS SHREE ENERGY PROJECTS PRIVATE LIMITED
1689	U72200AP2001PTC036200	HALO E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1690	U51100AP2005PLC048543	JMD COMMODITIES LIMITED
1691	U24110AP2007PLC056190	AMAZE CHEMICAL MARKET LIMITED
1692	U23209AP2008PTC061170	RAHUL PETROCHEMICAL PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1693	U72200AP2008PTC062187	RECKON SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1694	U74900AP2008PTC059648	ASTRA TECHSERVE PRIVATE LIMITED
1695	U74900AP2008PTC059519	RUBICON TECHSOL PRIVATE LIMITED
1696	U17121AP2007PTC054000	DEV COT INDIA PRIVATE LIMITED
1697	U21029AP2007PTC054906	ETHNIC METALS AND ENERGIES PRIVATE LIMITED
1698	U72200AP2007PTC055635	SUNRIDGE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1699	U74900AP2008PTC058600	CLEAN ENERGY INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
1700	U74140AP2000PTC035428	AGARWAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1701	U65992AP1996PTC025455	GRAND VILLE CHIT FUND PRIVATE LIMITED
1702	U85100AP2009PLC066073	MARSAN HOSPITALS LIMITED
1703	U72200AP2008PTC058168	PRAKRUTI SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1704	U74999AP2008PLC059116	DIAMOND LIFE PAN INDIA PROPERTIES LIMITED
1705	U45400AP2008PTC059908	MAYFAIR HANSON HOMES PRIVATE LIMITED
1706	U24239AP2004PTC042510	INDICUS PHARMA PRIVATE LIMITED
1707	U24239AP2003PTC042331	RALPH HARRIS MEDICARE PRIVATE LIMITED
1708	U40102AP2010PTC067533	HELIOS POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
1709	U40101AP2010PTC068216	GNK POWER PRIVATE LIMITED
1710	U72200AP2000PLC034589	E TALENT SOFTWARE LIMITED
1711	U45200AP2007PTC052949	SANDEEP RESORTS PRIVATE LIMITED
1712	U27100AP2008PLC060476	BOLLINENI SPONGE IRON LIMITED
1713	U01119AP1993PTC015978	KUMUDWATI TEAK PLANTATIONS PVT. LTD.
1714	U74999AP2007PTC052340	SANS MARKETING PRIVATE LIMITED
1715	U74999AP2007PTC055512	VARMA IMPEX PRIVATE LIMITED
1716	U72400AP2005PTC045500	AGAMI SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1717	U26990AP2007PLC055860	DSC CEMENT LIMITED
1718	U63040AP2004PTC043369	VIRTUAL FUNCTION HALLS PRIVATE LIMITED
1719	U72200AP2006PTC050811	YASASVI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1720	U24232AP2007PTC052220	ACCENTURE LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
1721	U67120AP1999PTC031551	A.V.R.HOLDINGS PRIVATE LIMITED
1722	U72200AP2008PTC059732	EMARKET INNOVATIONS SOFT PRIVATE LIMITED
1723	U72200AP1983PTC004231	BECON INFOTECH PRIVATE LIMITED
1724	U15419AP2002PLC039028	ANJANI BAKERY PRODUCTS LIMITED
1725	U01400AP2010PTC068940	KAKKAR LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
1726	U72200AP2003PTC041600	VAISHNO COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
1727	U45400AP2007PTC053681	ABHIRAM CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
1728	U93000AP2008PTC059828	DEVARAPALLI HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
1729	U45202AP2008PTC060106	NAVODAYA INFRATECH INDIA PRIVATE LIMITED
1730	U74200AP2004PTC044915	DRAVAS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
1731	U01119AP1994PTC018322	RANIT AGRO PRIVATE LIMITED
1732	U40108AP2010PTC067338	NEOSOLAR SYSTEMS PRIVATE LIMITED
1733	U24239AP2004PTC043225	LAXAI (INDIA) PRIVATE LIMITED
1734	U18109AP2008PTC061869	ICON TRIMS PRIVATE LIMITED
1735	U72200AP2005PTC047994	CADENA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
1736	U65993AP1981PTC002963	AHALYA ESTATES PRIVATE LIMITED
1737	U80300AP1993PTC016265	RAVI ACADEMY PRIVATE LIMITED
1738	U45400AP2007PTC056200	SHREE SHUBHAM SHELTERS PRIVATE LIMITED
1739	U28129AP1995PTC019789	BALAJI VIRAJ CAN AND COMPONENTS PRIVATE LIMITED
1740	U72200AP2008PTC057948	ZIPCODE TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
1741	U26940AP2008PTC062368	VARSHA CEMENT AND POWER INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
1742	U72200AP2007PTC053697	CHADA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1743	U24110AP2009PTC066174	EUROPEAN FORMULA BUILDING ADHESIVES PRIVATE LIMITED
1744	U45200AP2007PTC054214	ABHIJYOTI ESTATE & INFRA PRIVATE LIMITED
1745	U74900AP2009PTC062768	LOGEXSOFT ANALYTICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1746	U67190AP2008PTC062146	KOMBENCH FOREX PRIVATE LIMITED
1747	U45209AP2007PTC056773	DREAM SCAPES INFRATECH PRIVATE LIMITED
1748	U67100AP2009PTC065878	LASTAKI INVESTMENT ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
1749	U85100AP2009PTC066409	YKM SRINIVASA HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
1750	U74210AP1993PTC016052	DWELWEL ENGINEERS PVT. LTD.
1751	U80301AP2008PTC061048	K U EDUCATIONS PRIVATE LIMITED

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1752	U63022AP1995PTC020967	PARAMESHWARI COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1753	U21013AP2009PTC062674	HI-TECH PAPER MILLS (AP) PRIVATE LIMITED
1754	U15500AP2009PTC064751	MOTUPALLI BOILED RICE MILL PRIVATE LIMITED
1755	U74900AP2009PTC065262	JOBHIKE RECRUITMENTS PRIVATE LIMITED
1756	U63022AP2010PTC069808	AMERICAN COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
1757	U24239AP2004PTC044719	NED PHARMA PRIVATE LIMITED
1758	U92100AP2008PTC061764	ARKA MOTION PICTURES AND STUDIOS PRIVATE LIMITED
1759	U85100AP2010PTC066568	AJ MEDSOFT PRIVATE LIMITED
1760	U33203AP2006PTC050263	OPTECH VISUAL EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
1761	U93000AP2008PLC061560	MEDESEVA INDIA LIMITED
1762	U13203AP2007PTC053362	TIDAL MINERALS PRIVATE LIMITED
1763	U45200AP2007PTC055464	VYATH NETRONICS PRIVATE LIMITED
1764	U60231AP2008PTC057424	PERITUS LOGISTIC SOLUTIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
1765	U70102AP2007PLC052434	CHAMATKAR HOMES LIMITED
1766	U72200AP2007PTC054234	ATLAS SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1767	U70102AP2007PTC053676	FRESCO PROPERTIES PRIVATE LIMITED
1768	U74900AP2008PLC060161	VTL PREMIER PYROTECHNICS LIMITED
1769	U70102AP2002PTC038988	ARAVIND HOUSING PRIVATE LIMITED
1770	U66030AP2008PTC060097	MEGAVALUE INSURANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
1771	U74140AP2000PTC035929	SRI VINAYAKA DISTILLERY AND MARKETING PRIVATE LIMITED
1772	U40105AP2008PTC057262	ULTRA POWER PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
1773	U45203AP2010PLC068691	HKR TOLLWAYS LIMITED
1774	U72200AP2006PTC048993	MANIK SOFTSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
1775	U10200AP2009PTC064478	JORD MINERALS PRIVATE LIMITED

SHASHI RAJ DARA
Dy. Registrar of Companies
Andhra Pradesh and Telangana

In the matter of Companies Act, 1956 and of following companies
Hyderabad, the 17th January, 2014

No. RAP/Section 560(5)/Cos.83/2014/FTE/VVRR. – Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the above companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved : -

Sl. No.	FTE/ EES	SRN	CIN	COMPANY NAME	DATE OF STRIKING OFF
1	FTE	B40155020	U61200AP2008PTC060928	VSPL SHIPPING LOGISTICS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
2	FTE	B31120868	U80302AP2008PTC060486	VJ EDUCATIONAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
3	FTE	B63889992	U01407AP2008PTC061077	SHRI SAILAJA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
4	EES1	B04163697	U01119AP2003PTC041364	V.S. UDYAN PRIVATE LIMITED	03/11/2012
5	EES1	B03605771	U92111AP1978PTC002381	JANAPRIYA FILMS PVT LTD	03/11/2012
6	FTE	B56915499	U65990AP1996PTC025107	SRI SUBHAPRIYA CHIT FUND PRIVATE LIMITED	04/01/2014
7	FTE	B29124393	U51101AP2009PTC065634	LEONIS TRADING PRIVATE LIMITED	01/01/2014
8	FTE	B29123965	U51909AP2009PTC065629	HOMAM TRADING PRIVATE LIMITED	01/01/2014

Sl. No.	FTE/ EES	SRN	CIN	COMPANY NAME	DATE OF STRIKING OFF
9	FTE	B27156850	U65993AP1999PTC032205	SRICHAKRARAJAMU CHIT FUND PRIVATE LIMITED	01/01/2014
10	EES1	B11055563	U15142AP1984PTC004506	RAMAA COTTON AND OIL MILLS PVT LTD	08/06/2012
11	FTE	B28963429	U72200AP2010PTC068209	PEAKTECH IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
12	FTE	B88190889	U92111AP2002PTC038333	AALAYA CREATIONS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
13	EES1	B04173175	U67120AP2000PTC035763	AYESHA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	03/11/2012
14	FTE	B67897413	U72200AP2000PTC035419	ISOLA INFOTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	04/01/2014
15	FTE	B68968387	U01119AP2007PTC055328	TAKSHAN AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
16	FTE	B68965532	U64200AP2005PTC045865	TELEMATRIX ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
17	FTE	B68981398	U34102AP2006PTC049453	MEDASANI AUTO PRIVATE LIMITED	04/01/2014
18	FTE	B31322704	U74300AP2010PTC068648	GODIGITAL MEDIA BRANDS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
19	FTE	B29490877	U14200AP2008PTC057160	MATRIX MINES PRIVATE LIMITED	01/01/2014
20	EES1	B04341772	U20219AP2004PTC044272	CORAL MODULAR FURNITURE PRIVATE LIMITED	03/11/2012
21	EES1	B04338588	U14200AP2007PTC055370	GRAN MECHE IMPEX (INDIA) PRIVATE LIMITED	03/11/2012
22	FTE	B57244345	U55101AP2008PTC057058	PEACH HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED	04/1/2014
23	FTE	B78079571	U52520AP2002PTC040067	RUBY CUSTOMER CARE PRIVATE LIMITED	01/01/2014
24	FTE	B42354167	U15209AP2005PTC046137	SCIENTIFIC STORAGES PRIVATE LIMITED	04/01/2014
25	FTE	B67487454	U45200AP2007PTC053017	R K NAVA NIRMAN PRIVATE LIMITED	04/01/2014
26	FTE	B77834174	U93000AP2008PTC061580	ATG ORGANIZATIONAL CONSULTING PRIVATE LIMITED	24/12/2013
27	FTE	B70258579	U16000AP2001PTC038003	PRAVEENA TOBACCO'S PRIVATE LIMITED	04/01/2014
28	FTE	B70003744	U72200AP2007PTC056787	BLUENOG SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
29	EES1	B11086527	U21012AP2008PTC057507	JAI BHAVANI BAMBOO PRODUCTS PRIVATE LIMITED	08/06/2012
30	EES1	B11090719	U74999AP2008PTC058082	STACKLINE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	08/06/2012
31	FTE	B25812470	U85110AP2001PTC038186	QUALITY CARE HEALTH CITY PRIVATE LIMITED	01/01/2014
32	FTE	B88006010	U45209AP2008PTC059054	SOUTHBAY PORT AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	04/01/2014
33	EES1	B04422788	U21020AP2001PTC036229	KANHAN PAPERSS PRIVATE LIMITED	03/11/2012
34	FTE	B62208814	U01212AP1996PTC024285	JAR AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	04/01/2014

Sl. No.	FTE/EES	SRN	CIN	COMPANY NAME	DATE OF STRIKING OFF
35	EES1	B03354263	U27109AP1982PLC003623	KAPADIA IRON AND STEEL CASTINGS LTD	03/11/2012
36	FTE	B63953467	U31902AP2005PTC048388	ENLIGHTEN INDIA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	04/01/2014
37	FTE	B29802154	U72200AP2008PTC060428	MANJIRA SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
38	FTE	B29787769	U24230AP2005PTC045801	MARKVEL LABS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
39	FTE	B76908797	U45100AP1996PLC025999	UDAYAM INFRA STRUCTURE LIMITED	10/10/2013
40	FTE	B31179666	U74999AP2007PTC054880	PKW ENTERPRISEGLUE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	01/01/2014
41	FTE	B29636925	U52332AP1998PTC028960	KONARK REFRIGERATION APPLIANCES PRIVATE LIMITED	01/01/2014
42	FTE	B24358657	U80102AP2006PTC050783	ABC CHILD CARE AND KNOWLEDGE CENTER PVT LTD	01/01/2014
43	EES1	B11086246	U45200AP2006PTC050645	RESILIENT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	08/06/2012
44	FTE	B31272743	U55101AP2003PTC041465	BVS POWER PRIVATE LIMITED	01/01/2014
45	FTE	B40281560	U72200AP2010PTC066854	TECHSMART ALLIANCE PRIVATE LIMITED	04/01/2014
46	FTE	B38908059	U18109AP2011PTC072717	LA-VALENTINO GARMENTS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
47	EES1	B04289237	U72200AP2004PTC042803	BIZTUNE SOFTWARE PRIVATE LIMITED	03/11/2012
48	FTE	B39847710	U74999AP2006PTC050950	M.R INTEGRAL TRADING AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
49	FTE	B28765048	U72200AP2008PTC058258	BEAMBCS SOFTWARE PRIVATE LIMITED	01/01/2014
50	FTE	B28549962	U45205AP2008PTC060060	SRIJA AGRINFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
51	EES1	B04407029	U01222AP1997PTC028500	DASARAJU EXIM PRIVATE LIMITED	03/11/2012
52	FTE	B57488140	U74900AP2008PTC062397	ZIKRAK ENGINEERING AND CONTRACTING PRIVATE LIMITED	04/01/2014
53	EES1	B10998953	U55101AP1992PLC014007	P.S.R. HOTELS PRIVATE LIMITED	08/06/2012
54	FTE	B28529220	U24210AP2005PLC047280	MEKINS BIO-TECH LIMITED	01/01/2014
55	FTE	B31200942	U72200AP2001PTC037179	CENTELIUM SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	01/01/2014
56	FTE	B31140064	U25114AP1995PTC019409	SUPERFINE RETREADS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
57	FTE	B28946200	U29309AP2006PTC048885	ADILA POWER ELECTRONICS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
58	EES1	B04174678	U29297AP2003PTC040693	P.V.K. WATER TEAM PRIVATE LIMITED	03/11/2012
59	EES1	B11009925	U45200AP2008PTC058317	ROCKET RISE CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	08/06/2012
60	FTE	B31149743	U65992AP1991PTC012898	DHANAVRUDHI CHIT FUND PRIVATE LIMITED	01/01/2014
61	EES1	B04306593	U65990AP1991PTC013019	CITYLINE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	03/11/2012

Sl. No.	FTE/ EES	SRN	CIN	COMPANY NAME	DATE OF STRIKING OFF
62	EES1	B04352746	U25200AP1984PTC004591	LOHIA PLASTICS PVT LTD	03/11/2012
63	FTE	B64266307	U72200AP2007PTC055912	HALLUCINATION INSTITUTE OF DIGITAL DESIGN PRIVATE LIMITED	04/01/2014
64	EES1	B03517869	U72200AP2000PTC033995	WIZDEN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	03/11/2012
65	FTE	B67595728	U45200AP2004PTC044896	SBP DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
66	EES1	B02848893	U52520AP2004PTC044168	SUN SEVEN ELECTRICALS PRIVATE LIMITED	03/11/2012
67	EES1	B11072600	U32204AP1999PTC032180	AGNI CABLE PRIVATE LIMITED	08/06/2012
68	FTE	B57142937	U01403AP2008PTC062211	AB AGRO PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED	04/01/2014
69	FTE	B38841862	U93000AP2008PTC062132	LEVANA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
70	FTE	B35748375	U45200AP2006PTC051491	SRI BHUPATHI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	04/01/2014
71	FTE	B77763092	U74999AP2010PTC070556	ENERTEX ENGINEERING SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED	04/12/2013
72	EES1	B11090560	U52520AP2002PTC039409	DECISIVE MARKETING PRIVATE LIMITED	08/06/2012
73	FTE	B31271661	U65999AP2009PTC065775	WELLPOINT MAPE INVESTMENTS MANAGERS PRIVATE LIMITED	01/01/2014
74	FTE	B78040284	U65923AP2007PTC052999	HARVEST MANAGEMENT AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	04/01/2014
75	FTE	B57627721	U45203AP2010PTC069704	B N INFRATECH (A P) PRIVATE LIMITED	04/01/2014
76	FTE	B30153936	U41000AP2007PTC053191	SRI VAMSI AQUA PRIVATE LIMITED	01/01/2014
77	FTE	B67860098	U45200AP2007PTC052620	ANUSHA HOMES PRIVATE LIMITED	04/01/2014
78	FTE	B68526821	U67110AP2010PTC070544	VALUE VISION CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
79	FTE	B67641456	U45200AP2009PTC065210	SMNR ESTATES PRIVATE LIMITED	04/01/2014
80	FTE	B88189659	U74120AP2010PTC071353	GAAYATRI KESHAV PROJECT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	04/01/2014
81	FTE	B32318925	U72200AP2008PTC058556	DHARMAJA INFOTECH PRIVATE LIMITED	01/01/2014
82	FTE	B25991183	U72200AP2007FTC055858	PAYMENTCARD PLATS INDIA PRIVATE LIMITED	01/01/2014
83		B13143854	U72200AP2001PLC036063	EIQ NETWORKS LIMITED	27/01/2014

VENKATA RAMI REDDY VANGA
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of the following Companies
Hyderabad, the 18th February, 2014

No. RAP/SES-2005/Sec.560(3)/01-5740/VVR/February, 2009—Notice is hereby given that the following companies have applied to this office for striking off their names under SES-2005 (Simplified Exit Scheme) Dated 28-01-2005 of Government of India Ministry of Corporate Affairs, Notice is hereby given that after the expiry of 90 days

from the date hereof, unless cause is shown to the contrary, will be struck off as a defunct companies from the Register of this office and they will be dissolved:-

Sl. No.	CIN	Name of the Company
01	U99999AP1985PTC005740	SOUTHERN FIBRES PRIVATE LIMITED
02	U65992AP1993PLC015456	GORA CHITS AND FINANCE LIMITED

Any person interested having objection to the proposed striking off of the above mentioned companies may lodge his/their objections in writing within 3 months from the date of this notice with sufficient documentary proof to the undersigned, failing which the names of the above companies will be struck off as aforesaid without any further notice.

VENKATA RAMI REDDY VANGA
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 AND OF THE FOLLOWING COMPANIES

BANGALORE, THE 17th NOVEMBER 2014

NO. ROC/560/(5) FTE- NOTICE IS HEREBY GIVEN PURSUANT TO SUB- SECTION (5) OF SECTION 560 OF THE COMPANIES ACT, 1956, THAT THE NAME OF THE UNDER MENTIONED COMPANIES FROM SERIAL NUMBER 1 TO 4 HAVE BEEN STRUCK OFF FROM THE REGISTER AND THE SAID COMPANIES STAND DISSOLVED:-

Sl. No.	CIN	COMPANY NAME
1	U67100KA2012PTC066236	FIRSTFUTURISTIC STOCK BROKING PRIVATE LIMITED
2	U31200KA1996PTC020243	INDUS ELECTRO CONTROLS PRIVATE LIMITED
3	U74130KA2006PTC041078	STADIA MARKETING ANALYTICS INDIA PRIVATE LIMITED
4	U17222KA2010PTC055298	Freeman Impex Private Limited

KEERTHI THEJ N
Asstt. Registrar of Companies
Karnataka

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in